

# 2025 फार्मूलरी

(कवर की गई दवाओं की सूची या  
“दवा सूची”)

wellcare™

Wellcare Dual Access (HMO D-SNP),  
Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP),  
Wellcare Dual Access Harmony (HMO-POS D-SNP),  
Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP),  
Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP),  
Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP),  
Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP),  
Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP),  
Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP),  
Wellcare Fidelis Dual Plus (HMO D-SNP)

01



**कृपया पढ़ें: इस दस्तावेज़ में उन दवाओं के बारे में जानकारी है, जिन्हें हम इस प्लान में शामिल करते हैं**

**HPMS स्वीकृत फार्मूलरी फ़ाइल सबमिशन ID 25035**

**इस फार्मूलरी को 02/01/2025 को अपडेट किया गया था।** अधिक नवीनतम जानकारी या अन्य प्रश्नों के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें, Wellcare सदस्य सेवाएँ, इस फार्मूलरी के अंदर के मुख्य पेज और पीछे के कवर पर सूचीबद्ध आपके प्लान के लिए टेलीफ़ोन नंबर या वेबसाइट पर, 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच, प्रतिनिधि सप्ताह में सात दिन, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध हैं, 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच, प्रतिनिधि सोमवार-शुक्रवार, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध हैं।

## **Arkansas**

Wellcare Dual Access Harmony (HMO-POS D-SNP)

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/medicare](https://www.wellcare.com/medicare)**

Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP),

Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/allwellAR](https://www.wellcare.com/allwellAR)**

## **Connecticut**

HMO-POS D-SNP

**1-866-892-8340 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/medicare](https://www.wellcare.com/medicare)**

## **Delaware**

HMO-POS D-SNP

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/DE](https://www.wellcare.com/DE)**

## **Georgia**

HMO-POS D-SNP

**1-866-892-8340 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/medicare](https://www.wellcare.com/medicare)**

## **Iowa**

HMO-POS D-SNP

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/medicare](https://www.wellcare.com/medicare)**

## **Kansas**

HMO-POS D-SNP

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/allwellKS](https://www.wellcare.com/allwellKS)**

## **Kentucky**

HMO-POS D-SNP

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/medicare](https://www.wellcare.com/medicare)**

## **Maine**

PPO D-SNP

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/medicare](https://www.wellcare.com/medicare)**

## **Mississippi**

HMO-POS D-SNP

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/medicare](https://www.wellcare.com/medicare)**

## **North Carolina**

HMO-POS D-SNP, PPO D-SNP

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/medicare](https://www.wellcare.com/medicare)**

## **New York**

Wellcare Dual Access (HMO D-SNP)

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**wellcare.com/medicare**

Wellcare Fidelis Dual Plus (HMO D-SNP)

**1-800-247-1447 (TTY: 711)**

**wellcare.com/fidelisNY**

## **Oklahoma**

PPO D-SNP

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**wellcare.com/OK**

## **Pennsylvania**

HMO D-SNP

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**wellcare.com/allwellPA**

## **South Carolina**

HMO-POS D-SNP

**1-866-892-8340 (TTY: 711)**

**wellcare.com/medicare**

## **Texas**

Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP)

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**wellcare.com/medicare**

Wellcare Dual Access (HMO D-SNP),

Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP)

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**wellcare.com/allwellTX**

## **Washington**

HMO-POS D-SNP, PPO D-SNP

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**wellcare.com/medicare**

## **Wisconsin**

HMO-POS D-SNP

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**wellcare.com/allwellWI**

**मौजूदा सदस्यों के लिए नोट:** यह फार्मूलरी पिछले वर्ष से बदल गई है। कृपया इस दस्तावेज़ की समीक्षा करके सुनिश्चित करें कि इसमें अभी भी वे दवाएं मौजूद हैं जो आप लेते हैं।

जब यह दवा सूची (फार्मूलरी) “हम”, “हमें” या “हमारा” को संदर्भित करती है, तो इसका मतलब Wellcare होता है। जब यह “प्लान” या “हमारा प्लान” को संदर्भित करती है, तो इसका मतलब Wellcare Dual Access (HMO D-SNP), Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Access Harmony (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP), Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP), Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP), Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP), Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP), Wellcare Fidelis Dual Plus (HMO D-SNP) होता है।

इस दस्तावेज़ में हमारे प्लान के लिए एक दवा सूची (फार्मूलरी) शामिल है जो 02/01/2025 से जारी की गई है। अपडेट की गई दवा सूची (फार्मूलरी) के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी, साथ ही दवा सूची (फार्मूलरी) को आखिरी बार अपडेट करने का दिनांक, अंदर के मुख्य पेज और पीछे के कवर पेज पर दिया गया है।

आपको प्रिस्क्रिप्शन दवा का लाभ उठाने के लिए आमतौर पर नेटवर्क फ़ार्मिसियों का उपयोग करना चाहिए। लाभ, फार्मूलरी, फ़ार्मिसी नेटवर्क और/या सह भुगतान/सह बीमा 1 जनवरी 2025 को और वर्ष के दौरान समय-समय पर बदल सकते हैं।

**Wellcare Dual Access (HMO D-SNP), Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Access Harmony (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP), Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP), Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP), Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP), Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP), Wellcare Fidelis Dual Plus (HMO D-SNP) फार्मूलरी क्या है?**

इस दस्तावेज़ में, हम दवा सूची और फार्मूलरी शब्दों का उपयोग एक ही मतलब में करते हैं। फार्मूलरी, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की एक टीम के परामर्श से हमारे प्लान द्वारा चयनित कवर की गई दवाओं की एक सूची है, जो उन प्रिस्क्रिप्शन थेरेपीज़ का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रोग्राम का एक आवश्यक हिस्सा माना जाता है। हमारे प्लान में आम तौर पर हमारी फार्मूलरी में सूचीबद्ध दवाओं को शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि दवा चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो, प्रिस्क्रिप्शन प्लान नेटवर्क फ़ार्मैसी या हो, और अन्य प्लान के नियमों का पालन किया गया हो। अपने प्रिस्क्रिप्शन फ़िल करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने कवरेज के साक्ष्य की समीक्षा करें।

## **क्या फार्मूलरी बदली जा सकती है?**

दवा कवरेज में अधिकांश बदलाव 1 जनवरी को होते हैं, लेकिन हम वर्ष के दौरान फार्मूलरी में दवाओं को जोड़ या निकाल सकते हैं, उन्हें अलग-अलग लागत-साझाकरण टीयर पर ले जा सकते हैं, या नए प्रतिबंध जोड़ सकते हैं। इन बदलावों को करते समय हमें Medicare नियमों का पालन करना होगा। हमारी वेबसाइट पर मासिक रूप से फार्मूलरी के अपडेट पोस्ट किए जाते हैं, जो अंदर के मुख्य पेज और पीछे के कवर पेजों पर दिखाई देते हैं।

**इस वर्ष आपको प्रभावित करने वाले बदलाव:** नीचे दिए गए मामलों में, आप वर्ष के दौरान कवरेज बदलावों से प्रभावित होंगे:

- **ब्रांड नाम वाली दवाओं और मूल जैविक उत्पादों के कुछ नए संस्करणों का तत्काल प्रतिस्थापन।** हम किसी दवा को अपनी फार्मूलरी से तुरंत निकाल सकते हैं यदि हम उसकी जगह उस दवा का कोई नया संस्करण ला रहे हैं, जो समान या कम प्रतिबंधों के साथ आएगा। जब हम अपनी फार्मूलरी में किसी दवा का नया संस्करण जोड़ते हैं, तो हम ब्रांड नाम वाली दवा या मूल जैविक उत्पाद को अपनी फार्मूलरी में रखने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन तुरंत ही नए प्रतिबंध जोड़ सकते हैं।

हम ये तत्काल बदलाव केवल तभी कर सकते हैं जब हम किसी ब्रांड नाम वाली दवा का नया जेनेरिक संस्करण जोड़ रहे हों, या किसी मूल जैविक उत्पाद के कुछ नए बायोसिमिलर संस्करण जोड़ रहे हों, जो पहले से ही फार्मूलरी में था (उदाहरण के लिए, एक विनिमेय बायोसिमिलर जोड़ना जिसे किसी फ़ार्मैसी द्वारा नए प्रिस्क्रिप्शन के बिना मूल जैविक उत्पाद के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है)।

यदि आप वर्तमान में ब्रांड नाम वाली दवा या मूल जैविक उत्पाद ले रहे हैं, तो हम तत्काल बदलाव करने से पहले आपको पूर्व सूचित नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम आपको हमारे द्वारा किए गए विशिष्ट बदलाव(बदलावों) के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

यदि हम ऐसा बदलाव करते हैं, तो आप या आपके दवा निर्धारित करने वाले व्यक्ति हमसे एक अपवाद बनाने और आपके लिए बदली जा रही दवा को कवर करना जारी रखने के लिए कह सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, नीचे दिए गए अनुभाग को देखें जिसका शीर्षक है “मैं Wellcare Dual Access (HMO D-SNP), Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Access Harmony (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP), Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP), Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP), Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP), Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP), Wellcare Fidelis Dual Plus (HMO D-SNP) की फार्मूलरी के लिए अपवाद का अनुरोध कैसे करूं?”

इनमें से कुछ दवाइयां आपके लिए नई हो सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए, नीचे दिए गए अनुभाग को देखें जिसका शीर्षक है “मूल जैविक उत्पाद क्या हैं और वे बायोसिमिलर से कैसे संबंधित हैं?”

- **बाज़ार से निकाली गई दवाएं।** यदि निर्माता द्वारा किसी दवा को बिक्री से हटा दिया जाता है या Food and Drug Administration (FDA) सुरक्षा या प्रभावशीलता के कारणों से उसे वापस लेने का निर्णय लेता है, तो हम तुरंत उस दवा को अपनी फार्मूलरी से निकाल सकते हैं और बाद में उस दवा को लेने वाले सदस्यों को इसकी सूचना दे सकते हैं।
- **अन्य बदलाव।** हम ऐसे अन्य बदलाव भी कर सकते हैं जो वर्तमान में दवा ले रहे सदस्यों को प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए, हम जेनेरिक के समान जोड़ते समय किसी ब्रांड नाम वाली दवा को फार्मूलरी से निकाल सकते हैं, या बायोसिमिलर जोड़ते समय किसी मूल जैविक उत्पाद को निकाल सकते हैं। हम ब्रांड नाम वाली दवा या मूल जैविक उत्पाद पर नए प्रतिबंध भी लागू कर सकते हैं, या उसे अलग लागत-साझाकरण टीयर पर ले जा सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। हम नए क्लिनिकल दिशानिर्देशों के आधार पर बदलाव कर सकते हैं। यदि हम अपनी फार्मूलरी से किसी दवा को निकालते हैं या किसी दवा पर पूर्व अनुमति, मात्रा की सीमा और/या स्टेप थेरेपी प्रतिबंध जोड़ते हैं, तो हमें बदलाव के प्रभावी होने से कम से कम 30 दिन पहले प्रभावित सदस्यों को इस बदलाव के बारे में सूचित करना होगा। वैकल्पिक रूप से, जब कोई सदस्य दवा की रिफ़िल का अनुरोध करता है, तो उन्हें दवा की 30-दिन की आपूर्ति और बदलाव की सूचना मिल सकती है।

यदि हम इन अन्य बदलावों को करते हैं, तो आप या आपका दवा निर्धारित करने वाला व्यक्ति हमसे आपके लिए अपवाद बनाने और आपके द्वारा ली जा रही दवा को कवर करना जारी रखने के लिए कह सकता है। हम आपको जो सूचना प्रदान करेंगे, उसमें अपवाद का अनुरोध करने के तरीके के बारे में भी जानकारी शामिल होगी, और आप नीचे दिए गए अनुभाग में भी जानकारी पा सकते हैं जिसका शीर्षक है “मैं Wellcare Dual Access (HMO D-SNP), Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Access Harmony (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP), Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP), Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP), Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP), Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP), Wellcare Fidelis Dual Plus (HMO D-SNP) की फार्मूलरी के लिए अपवाद का अनुरोध कैसे करूं?”

**यदि आप वर्तमान में दवा ले रहे हैं तो ये बदलाव आपको प्रभावित नहीं करेंगे।** आम तौर पर, यदि आप हमारे 2025 फार्मूलरी पर कोई दवा ले रहे हैं जिसे वर्ष की शुरुआत में कवर किया गया था, तो हम ऊपर वर्णित के अलावा 2025 कवरेज वर्ष के दौरान दवा के कवरेज को बंद या कम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये दवाएं समान लागत-साझाकरण पर उपलब्ध रहेंगी और कवरेज वर्ष की शेष अवधि के लिए इन्हें लेने वाले सदस्यों पर कोई नया प्रतिबंध नहीं होगा। इस वर्ष आपको उन बदलावों के बारे में सीधे सूचना नहीं मिलेगी जो आप पर प्रभाव नहीं डालते हैं। हालांकि, अगले वर्ष 1 जनवरी को ऐसे बदलाव आप पर प्रभाव डालेंगे, और दवाओं में किसी भी बदलाव के लिए नए लाभ वर्ष के लिए फार्मूलरी की जांच करना महत्वपूर्ण है।

संलग्न फार्मूलरी 02/01/2025 से जारी की गई है। हमारे प्लान में शामिल दवाओं के बारे में अपडेट की गई जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी अंदर के मुख्य पेज और पीछे के कवर पेजों पर दी गई है।

इस फार्मूलरी को मासिक आधार पर अपडेट किया जाएगा और हमारे वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। अपडेट और प्रिंट की गई फार्मूलरी प्राप्त करने के लिए या हमारे प्लान द्वारा कवर की गई दवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं या अंदर के मुख्य पेज और पीछे के कवर पेजों पर हमारी संपर्क जानकारी पर सदस्य सेवाओं को कॉल करें।

## **मैं फार्मूलरी का उपयोग कैसे करूं?**

फार्मूलरी में अपनी दवा खोजने के दो तरीके हैं:

### **चिकित्सकीय स्थिति**

फार्मूलरी पेज 1 से शुरू होती है। इस फार्मूलरी में दवा को उन चिकित्सकीय स्थितियों के प्रकार के आधार पर श्रेणियों में बांटा गया है जिनके उपचार के लिए उनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, हृदय की स्थिति के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं को “कार्डियोवैस्कुलर, हाइपरटेंशन / लिपिड” श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। यदि आप जानते हैं कि आपकी दवा का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पेज 1 से शुरू होने वाली सूची में श्रेणी का नाम देखें। फिर अपनी दवा की श्रेणी के नाम के नीचे देखें।

### **वर्णानुक्रमिक सूची**

यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आपको किस श्रेणी में देखना है, तो आपको पेज क्रम-INDEX-1 से शुरू होने वाली क्रम-सूची में अपनी दवा को देखना चाहिए। क्रम-सूची इस दस्तावेज़ में शामिल सभी दवाओं की वर्णानुक्रमिक सूची प्रदान करती है। क्रम-सूची में ब्रांड नाम वाली दवाएं और जेनेरिक दवाएं दोनों सूचीबद्ध हैं। क्रम-सूची में देखें और अपनी दवा खोजें। आपकी दवा के आगे आपको पेज की संख्या दिखाई देगी जहां आप कवरेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्रम-सूची में सूचीबद्ध पेज पर जाएं और सूची के पहले कॉलम में अपनी दवा का नाम देखें।



## जेनेरिक दवाएं क्या हैं?

हमारे प्लान में ब्रांड नाम वाली दवाओं और जेनेरिक दवाओं दोनों को शामिल किया गया है। जेनेरिक दवा को FDA द्वारा स्वीकृत किया जाता है क्योंकि इसमें ब्रांड नाम वाली दवा के समान ही सक्रिय सामग्री होती है। आम तौर पर, जेनेरिक दवाएं भी उतनी ही अच्छी तरह से काम करती हैं और आमतौर पर उनकी कीमत ब्रांड नाम वाली दवाओं की तुलना में कम होती है। कई ब्रांड नाम वाली दवाओं के लिए जेनेरिक दवा विकल्प उपलब्ध हैं। राज्य के कानून के आधार पर, जेनेरिक दवाओं को आमतौर पर नए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता के बिना फ़ार्मसी में ब्रांड नाम वाली दवा के स्थान पर बेचा जा सकता है।

## मूल जैविक उत्पाद क्या हैं और वे बायोसिमिलर से किस प्रकार संबंधित हैं?

फार्मूलरी में, जब हम दवाओं का संदर्भ लेते हैं, तो इसका मतलब दवा या जैविक उत्पाद हो सकता है। जैविक उत्पाद ऐसी दवाएं हैं जो सामान्य दवाओं की तुलना में अधिक पेचीदा होती हैं। चूंकि जैविक उत्पाद सामान्य दवाओं की तुलना में अधिक पेचीदा होते हैं, इसलिए जेनेरिक रूप के बजाय उनके विकल्प होते हैं जिन्हें बायोसिमिलर कहा जाता है। आम तौर पर, बायोसिमिलर मूल जैविक उत्पाद की तरह ही काम करते हैं और इनकी लागत भी कम होती है। कुछ मूल जैविक उत्पादों के लिए बायोसिमिलर विकल्प मौजूद हैं। कुछ बायोसिमिलर विनिमेय बायोसिमिलर हैं और राज्य के कानूनों के आधार पर, उन्हें नए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता के बिना फ़ार्मसी में मूल जैविक उत्पाद के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे जेनेरिक दवाओं को ब्रांड नाम वाली दवाओं के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

- दवा के प्रकारों की चर्चा के लिए, कृपया कवरेज के साक्ष्य, चैप्टर 5, अनुभाग 3.1 देखें, “‘दवा सूची’ बताती है कि कौन सी भाग D दवाएँ कवर की गई हैं।”

## क्या मेरे कवरेज पर कोई प्रतिबंध हैं?

कुछ कवर की गई दवाओं के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं या कवरेज सीमाएं हो सकती हैं। इन आवश्यकताओं और सीमाओं में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- **पूर्व अनुमति:** हमारे प्लान के तहत आपको या आपके दवा निर्धारित करने वाले व्यक्ति को कुछ दवाओं के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन फ़िल करने से पहले हमारे प्लान से स्वीकृति प्राप्त करना होगी। यदि आपको स्वीकृति नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि आपके प्लान में दवा शामिल न हो।
- **मात्रा की सीमा:** कुछ विशेष दवाओं के लिए, हमारा प्लान उस दवा की मात्रा को सीमित करता है जिसे हमारा प्लान कवर करेगा। उदाहरण के लिए, हमारा प्लान rizatriptan 5mg के लिए प्रति प्रिस्क्रिप्शन 18 गोलियां प्रदान करता है। यह मानक एक महीने या तीन महीने की आपूर्ति के अतिरिक्त हो सकता है।
- **स्टेप थेरेपी:** कुछ मामलों में, हमारे प्लान के तहत आपको अपनी चिकित्सकीय स्थिति के उपचार के लिए पहले कुछ दवाओं का उपयोग करना होगा, उसके बाद ही हम उस स्थिति के लिए अन्य दवा का कवरेज देंगे। उदाहरण के लिए, यदि दवा A और दवा B दोनों ही आपकी चिकित्सकीय स्थिति का उपचार करती हैं, तो हमारा प्लान दवा B को कवर नहीं कर सकता है, जब तक कि आप पहले दवा A का उपयोग न कर लें। यदि दवा A आपके लिए काम नहीं करती है, तो हमारा प्लान दवा B को कवर करेगा।

आप पेज 1 से शुरू होने वाली फार्मूलरी को देखकर पता लगा सकते हैं कि आपकी दवा के लिए कोई अतिरिक्त आवश्यकताएं या सीमाएं हैं या नहीं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विशिष्ट कवर की गई दवाओं पर लागू प्रतिबंधों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन दस्तावेज पोस्ट किए हैं जो हमारी पूर्व अनुमति और स्टेप थेरेपी प्रतिबंधों को स्पष्ट करते हैं। आप हमें एक कॉपी भेजने के लिए भी कह सकते हैं। हमारी संपर्क जानकारी, साथ ही फार्मूलरी को आखिरी बार अपडेट करने का दिनांक, अंदर के मुख्य पेज और पीछे के कवर पेज पर दिया गया है।

आप हमारे प्लान से इन प्रतिबंधों या सीमाओं में अपवाद बनाने या अन्य समान दवाओं की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं जो आपकी स्वास्थ्य स्थिति का इलाज कर सकती हैं। अनुभाग देखें, “मैं Wellcare Dual Access (HMO D-SNP), Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Access Harmony (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP), Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP), Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP), Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP), Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP), Wellcare Fidelis Dual Plus (HMO D-SNP) की फार्मूलरी के लिए अपवाद का अनुरोध कैसे करूं?” अपवाद का अनुरोध कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए पेज VIII देखें।

## यदि मेरी दवा फार्मूलरी में नहीं है तो क्या होगा?

यदि आपकी दवा इस फार्मूलरी (कवर की गई दवाओं की सूची) में शामिल नहीं है, तो आपको सबसे पहले सदस्य सेवाओं से संपर्क करना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या आपकी दवा कवर की गई है या नहीं।

यदि आपको पता चले कि हमारे प्लान में आपकी दवा शामिल नहीं है, तो आपके पास दो विकल्प हैं:

- आप सदस्य सेवाओं से हमारे प्लान में शामिल समान दवाओं की सूची मांग सकते हैं। जब आपको सूची प्राप्त हो जाए, तो उसे अपने चिकित्सक को दिखाएं और उनसे हमारे प्लान के अंतर्गत आने वाली समान दवा लिखने के लिए कहें।
- आप हमारे प्लान से एक अपवाद बनाने और आपकी दवा को कवर करने के लिए कह सकते हैं। अपवाद का अनुरोध कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए नीचे देखें।

**मैं Wellcare Dual Access (HMO D-SNP), Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Access Harmony (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP), Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP), Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP), Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP), Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP), Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP), Wellcare Fidelis Dual Plus (HMO D-SNP) की फार्मूलरी के लिए अपवाद का अनुरोध कैसे करूं?**

आप हमारे प्लान से हमारे कवरेज नियमों में अपवाद बनाने के लिए कह सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के अपवाद हैं जिनके लिए आप हमसे अनुरोध कर सकते हैं।

- आप हमसे किसी दवा को कवर करने के लिए कह सकते हैं, भले ही वह हमारी फार्मूलरी में उपलब्ध न हो। यदि स्वीकृति मिल जाती है, तो इस दवा को पूर्व-निर्धारित लागत-साझाकरण स्तर पर कवर किया जाएगा, और आप हमसे कम लागत-साझाकरण स्तर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए नहीं कह सकेंगे।
- आप हमसे पूर्व अनुमति, स्टेप थेरेपी, या आपकी दवा पर मात्रा की सीमा सहित कवरेज प्रतिबंध को हटाने के लिए कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ विशेष दवाओं के लिए, हमारा प्लान दवा की मात्रा को सीमित करता है जिसे हम कवर करेंगे। यदि आपकी दवा की मात्रा सीमित है, तो आप हमसे सीमा हटाने और अधिक मात्रा कवर करने के लिए कह सकते हैं।

आम तौर पर, हमारा प्लान आपके अपवाद के अनुरोध को केवल तभी स्वीकार करेगा, जब प्लान की फार्मूलरी में शामिल वैकल्पिक दवाएं, या प्रतिबंध लागू करना आपके लिए उतना प्रभावी नहीं होगा और/या आपको प्रतिकूल प्रभाव देगा।

आपको या आपके दवा निर्धारित करने वाले व्यक्ति को हमसे संपर्क करके फार्मूलरी अपवाद के लिए पूछना चाहिए, जिसमें कवरेज प्रतिबंध का अपवाद भी शामिल है। **जब आप अपवाद का अनुरोध करते हैं, तो आपके दवा निर्धारित करने वाले व्यक्ति को यह बताना होगा कि आपको अपवाद की आवश्यकता क्यों है।** आम तौर पर, हमें आपके दवा निर्धारित करने वाले व्यक्ति का समर्थन कथन प्राप्त होने के 72 घंटों के अंदर अपना निर्णय लेना होगा। यदि आप मानते हैं, और हम भी इससे सहमत हैं, कि निर्णय के लिए 72 घंटे तक इंतज़ार करने से आपके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है, तो आप शीघ्र निर्णय की मांग कर सकते हैं। यदि हम सहमत होते हैं, या यदि आपके दवा निर्धारित करने वाले व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने के लिए कहते हैं, तो हमें आपके अपवाद निर्धारित करने वाले व्यक्ति का समर्थन कथन प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर आपको निर्णय देना होगा।

## **यदि मेरी दवा फार्मूलरी पर नहीं है या उस पर कोई प्रतिबंध है तो मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?**

हमारे प्लान में नए या निरंतर सदस्य के रूप में आप ऐसी दवाएं ले रहे होंगे जो हमारी फार्मूलरी में नहीं हैं। या, हो सकता है कि आप कोई ऐसी दवा ले रहे हों जो हमारी फार्मूलरी में है, लेकिन उसके कवरेज पर प्रतिबंध है, जैसे कि पूर्व अनुमति। आपको अपने दवा निर्धारित करने वाले व्यक्ति से कवरेज निर्णय का अनुरोध करने के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि यह दिखाया जा सके कि आप स्वीकृति के मानदंडों को पूरा करते हैं, वैकल्पिक दवा पर स्विच करना जिसे हम कवर करते हैं, या फार्मूलरी अपवाद का अनुरोध करना ताकि हम आपके द्वारा ली जाने वाली दवा को कवर कर सकें। जब तक आप और आपके चिकित्सक आपके लिए सही उपचार का निर्धारण करते हैं, तब तक हम कुछ मामलों में आपकी दवा का खर्च, हमारे प्लान के सदस्य बनने के पहले 90 दिनों के दौरान कवर कर सकते हैं।

आपकी प्रत्येक दवा के लिए जो हमारी फार्मूलरी में नहीं है या जिस पर कवरेज प्रतिबंध है, हम एक 30-दिन के अस्थायी आपूर्ति को कवर करेंगे। यदि आपका प्रिस्क्रिप्शन कम दिनों के लिए लिखा गया है, तो हम अधिकतम 30 दिनों तक दवा की आपूर्ति के लिए रिफ़िल की अनुमति देंगे। यदि कवरेज स्वीकृत नहीं है, तो आपकी पहली 30-दिन की आपूर्ति के बाद, हम इन दवाओं के लिए भुगतान नहीं करेंगे, भले ही आप 90 दिनों से कम समय से प्लान के सदस्य रहे हों।

यदि आप किसी दीर्घकालिक देखभाल की सुविधा के निवासी हैं और आपको ऐसी दवा की आवश्यकता है जो हमारी फार्मूलरी में नहीं है या यदि आपकी दवा प्राप्त करने की क्षमता सीमित है, लेकिन आप हमारे प्लान में सदस्यता के पहले 90 दिन पार कर चुके हैं, तो हम उस दवा की 31-दिन की आपातकालीन आपूर्ति को कवर करेंगे, जब तक आप फार्मूलरी अपवाद का पालन करते हैं।

यदि आप देखभाल के स्तर में बदलाव का अनुभव करते हैं (जैसे कि छुट्टी दे दी जाना या दीर्घकालिक देखभाल की सुविधा में भर्ती होना), तो आपका चिकित्सक या फ़ार्मैसी हमारे प्रदाता सेवा केंद्र को कॉल कर सकते हैं और एक बार के ओवरराइड का अनुरोध कर सकते हैं। यह एक बार का ओवरराइड 30 दिन की आपूर्ति तक होगा (जब तक कि आपके पास कम दिनों के लिए लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन न हो)।

## अधिक जानकारी के लिए

अपने प्लान के प्रिस्क्रिप्शन दवा के कवरेज के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कवरेज के साक्ष्य और अन्य प्लान संबंधित सामग्रियों की समीक्षा करें।

यदि आपको हमारे प्लान के बारे में कोई प्रश्न हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी, साथ ही फार्मूलरी को आखिरी बार अपडेट करने का दिनांक, अंदर के मुख्य पेज और पीछे के कवर पेज पर दिया गया है।

यदि आपके पास Medicare की प्रिस्क्रिप्शन दवा के कवरेज के बारे में सामान्य प्रश्न हैं, तो कृपया Medicare को 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) पर दिन में 24 घंटे/सप्ताह में 7 दिन कॉल करें। TTY उपयोगकर्ताओं को 1-877-486-2048 पर कॉल करना चाहिए। या, <http://www.medicare.gov> पर जाएं।

## हमारे प्लान की फार्मूलरी

नीचे दी गई फार्मूलरी हमारे प्लान द्वारा कवर की गई दवाओं के बारे में कवरेज जानकारी प्रदान करती है। यदि आपको सूची में अपनी दवा ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो पेज क्रम-INDEX-1 से शुरू होने वाली क्रम-सूची देखें।

चार्ट के पहले कॉलम में दवा का नाम सूचीबद्ध है। ब्रांड नाम वाली दवाओं को बड़े अक्षरों में सूचीबद्ध किया जाता है (उदाहरण के लिए, ELIQUIS) और जेनेरिक दवाओं को छोटे-छोटे इटैलिक में सूचीबद्ध किया जाता है (उदाहरण के लिए, *simvastatin*)।

आवश्यकताएं/सीमाएं कॉलम में दी गई जानकारी आपको बताती है कि क्या हमारे प्लान में आपकी दवा के कवरेज के लिए कोई विशेष आवश्यकताएं हैं।

- **NM** का मतलब है कि दवा आपके मासिक मेल सेवा लाभ के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। यह आपकी फार्मूलरी के आवश्यकताएं/सीमाएं कॉलम में नोट किया गया है। आप अपनी फार्मूलरी में मौजूद अधिकांश दवाओं की एक महीने से अधिक की आपूर्ति मेल सेवा के माध्यम से कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया कवरेज के साक्ष्य का चैप्टर 5 देखें।
- **PA** का मतलब है पूर्व अनुमति: कृपया विवरण के लिए पेज VII देखें।
- **PA-NS** का मतलब है नई शुरुआत के लिए पूर्व अनुमति: इसका मतलब है कि यदि यह दवा आपके लिए नई है, तो आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन फ़िल करने से पहले हमसे स्वीकृति प्राप्त करना होगा। यदि आप नामांकन के समय यह दवा ले रहे हैं, तो आपको स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- **B/D** का मतलब है Medicare B या D के अंतर्गत कवर: यह दवा Medicare Part B या भाग D के अंतर्गत भुगतान के लिए पात्र हो सकती है। आपको (या आपके चिकित्सक को) इस दवा के लिए अपना प्रिस्क्रिप्शन फ़िल करने से पहले यह निर्धारित करने के लिए हमसे पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है कि यह दवा Medicare Part D के अंतर्गत कवर की गई है। पूर्व स्वीकृति के बिना, हम इस दवा को शायद शामिल नहीं कर सकते हैं।
- **QL** का मतलब है मात्रा की सीमाएं: कृपया विवरण के लिए पेज VII देखें।
- **LA** का मतलब सीमित पहुंच वाली दवा से है। यह प्रिस्क्रिप्शन केवल कुछ फ़ार्मैसी पर उपलब्ध हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपनी फ़ार्मैसी निर्देशिका से परामर्श लें या इस फार्मूलरी के अंदर के मुख्य पेज और पीछे के कवर पर सूचीबद्ध टेलीफ़ोन नंबर पर सदस्य सेवाओं को कॉल करें, 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच, प्रतिनिधि सप्ताह में सात दिन, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध हैं, 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच, प्रतिनिधि सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध हैं।
- **ST** का मतलब है स्टेप थेरेपी: विवरण के लिए कृपया पेज VII देखें।
- **^** का मतलब है दवा केवल 30 दिन की आपूर्ति के लिए ही उपलब्ध हो सकती है।

## दवा स्तर सह भुगतान/सह बीमा की राशि

प्रिस्क्रिप्शन दवा को एक टीयर में में समूहीकृत किया गया है। यह जानने के लिए कि आपकी दवा किस टीयर में है, पेज 1 से शुरू होने वाले फार्मूलरी के दवा टीयर कॉलम को देखें। प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपके सदस्य द्वारा किए गए खर्च के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, जिसमें लागू होने वाली कटौतीयोग्य शामिल है, कृपया अपने कवरेज के साक्ष्य और अन्य प्लान संबंधित सामग्रियों को देखें।

- **टियर 1 (सिंगल टियर)** में सभी जेनेरिक और ब्रांड दवाएं शामिल हैं।
  - सह भुगतान: \$0

अपने लागू सह भुगतान/सह बीमा और राशि के लिए कवरेज के साक्ष्य या लाभों के सारांश को देखें।

## Table of Contents

अटोनोमिक / CNS औषधहिरू, न्युरोलोजी / साइक.....	3
इन्डोक्राइन/मधुमेह.....	22
इम्युनोलोजी, खोप / बायोटेक्नोलोजी.....	29
एन्टि- इन्फेक्टिभि.....	33
एन्टिनिओप्लास्टिक / इम्युनोसप्रेसन्ट औषधहिरू.....	45
कान, नाक / घाँटीको औषधि.....	59
कार्डियोभास्कुलर, हाइपरटेन्सन / लपिडिस.....	59
ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी.....	69
डर्माटोलोजिकिल्स/टोपिकल थेरापी.....	73
डायग्नोस्टिक्स / वविधि एजेन्टहिरू.....	78
नेत्र रोग विज्ञान.....	81
प्रसूति विज्ञान / स्त्री रोग.....	84
भटिमनिहिरू, हेमेटनिकिक्स / इलेक्ट्रोलाइट्स.....	92
मस्कुलोस्केलेटल / वातविज्ञान.....	94
युरोजोजिकिल्स.....	97
वविधि आपूर्तहिरू.....	98
श्वासप्रश्वास र एलर्जी.....	99





दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
<b>अटोनोमिक / CNS औषधहिर, न्युरोलोजी / साइक</b>		
<b>एन्टकिन्भल्सेन्ट्स</b>		
APTIOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5 ML	\$0 (1)	QL (600 ML per 30 days)
BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (1)	QL (600 ML per 30 days); ^
BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days); ^
carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg	\$0 (1)	
carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml, 100 mg/5 ml (5 ml), 200 mg/10 ml	\$0 (1)	
carbamazepine oral tablet 200 mg	\$0 (1)	
carbamazepine oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400 mg	\$0 (1)	
carbamazepine oral tablet, chewable 100 mg	\$0 (1)	
clobazam oral suspension 2.5 mg/ml	\$0 (1)	PA-NS; QL (480 ML per 30 days)
clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
clonazepam oral tablet 2 mg	\$0 (1)	QL (300 EA per 30 days)
clonazepam oral tablet, disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
clonazepam oral tablet, disintegrating 2 mg	\$0 (1)	QL (300 EA per 30 days)
DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (360 EA per 30 days); ^
DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 250 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (360 EA per 30 days); ^
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 500 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20 mg, 2.5 mg, 5-7.5-10 mg	\$0 (1)	
DILANTIN EXTENDED ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
DILANTIN INFATABS ORAL TABLET,CHEWABLE 50 MG	\$0 (1)	
DILANTIN ORAL CAPSULE 30 MG	\$0 (1)	
DILANTIN-125 ORAL SUSPENSION 125 MG/5 ML	\$0 (1)	
divalproex oral capsule, delayed rel sprinkle 125 mg	\$0 (1)	
divalproex oral tablet extended release 24 hr 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
divalproex oral tablet,delayed release (dr/ec) 125 mg, 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML	\$0 (1)	PA-NS; LA
epitol oral tablet 200 mg	\$0 (1)	
EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML	\$0 (1)	PA-NS
ethosuximide oral capsule 250 mg	\$0 (1)	
ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml	\$0 (1)	
felbamate oral suspension 600 mg/5 ml	\$0 (1)	
felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg	\$0 (1)	
FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (360 ML per 30 days); ^
FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML	\$0 (1)	QL (720 ML per 30 days); ^
FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days); ^
FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
gabapentin oral capsule 100 mg, 400 mg	\$0 (1)	QL (270 EA per 30 days)
gabapentin oral capsule 300 mg	\$0 (1)	QL (360 EA per 30 days)
gabapentin oral solution 250 mg/5 ml, 250 mg/5 ml (5 ml), 300 mg/6 ml (6 ml)	\$0 (1)	QL (2160 ML per 30 days)
gabapentin oral tablet 600 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
gabapentin oral tablet 800 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
gabapentin oral tablet extended release 24 hr 300 mg	\$0 (1)	PA; QL (180 EA per 30 days)
gabapentin oral tablet extended release 24 hr 600 mg	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days)
lacosamide intravenous solution 200 mg/20 ml	\$0 (1)	QL (1200 ML per 30 days); ^
lacosamide oral solution 10 mg/ml	\$0 (1)	QL (1200 ML per 30 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयिर्	आवश्यकताएं/सीमाएं
lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
lacosamide oral tablet 50 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg	\$0 (1)	
lamotrigine oral tablet extended release 24hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 250 mg, 300 mg, 50 mg	\$0 (1)	
lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg	\$0 (1)	
lamotrigine oral tablet, disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
levetiracetam in nacl (iso-os) intravenous piggyback 1,000 mg/100 ml, 1,500 mg/100 ml, 500 mg/100 ml	\$0 (1)	
levetiracetam intravenous solution 500 mg/5 ml	\$0 (1)	
levetiracetam oral solution 100 mg/ml, 500 mg/5 ml (5 ml)	\$0 (1)	
levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (1)	
levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg, 750 mg	\$0 (1)	
LIBERVANT BUCCAL FILM 10 MG, 12.5 MG, 15 MG, 5 MG, 7.5 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (10 EA per 30 days); ^
methsuximide oral capsule 300 mg	\$0 (1)	
NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML)	\$0 (1)	PA-NS; QL (10 EA per 30 days)
oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)	\$0 (1)	
oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg	\$0 (1)	
phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)	\$0 (1)	PA-NS
phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg	\$0 (1)	PA-NS
phenobarbital sodium injection solution 130 mg/ml, 65 mg/ml	\$0 (1)	
phenytoin oral suspension 100 mg/4 ml, 125 mg/5 ml	\$0 (1)	
phenytoin oral tablet, chewable 50 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg	\$0 (1)	
phenytoin sodium intravenous solution 50 mg/ml	\$0 (1)	
pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
pregabalin oral capsule 200 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
pregabalin oral solution 20 mg/ml	\$0 (1)	QL (900 ML per 30 days)
PRIMIDONE ORAL TABLET 125 MG	\$0 (1)	
primidone oral tablet 250 mg, 50 mg	\$0 (1)	
roovepra oral tablet 500 mg	\$0 (1)	
rufinamide oral suspension 40 mg/ml	\$0 (1)	PA-NS; QL (2400 ML per 30 days); ^
rufinamide oral tablet 200 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (480 EA per 30 days)
rufinamide oral tablet 400 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (240 EA per 30 days); ^
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG, 250 MG, 500 MG, 750 MG	\$0 (1)	
SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg	\$0 (1)	
topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg	\$0 (1)	
topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
valproate sodium intravenous solution 500 mg/5 ml (100 mg/ml)	\$0 (1)	
valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml, 250 mg/5 ml (5 ml), 500 mg/10 ml (10 ml)	\$0 (1)	
valproic acid oral capsule 250 mg	\$0 (1)	
VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML)	\$0 (1)	PA-NS; QL (10 EA per 30 days)
vigabatrin oral powder in packet 500 mg	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
vigabatrin oral tablet 500 mg	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
vigadrone oral powder in packet 500 mg	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
vigadrone oral tablet 500 mg	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
vigpoder oral powder in packet 500 mg	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1)	\$0 (1)	QL (56 EA per 28 days); ^
XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days); ^
XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days); ^
XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14)	\$0 (1)	QL (28 EA per 180 days)
XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14)	\$0 (1)	QL (28 EA per 180 days); ^
ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML	\$0 (1)	PA-NS
zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	\$0 (1)	PA-NS; QL (1100 ML per 30 days); ^
<b>एन्टिपार्कनिंसोनजिम एजेन्टहू</b>		
benztropine injection solution 1 mg/ml	\$0 (1)	
benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (1)	PA
bromocriptine oral capsule 5 mg	\$0 (1)	
bromocriptine oral tablet 2.5 mg	\$0 (1)	
carbidopa oral tablet 25 mg	\$0 (1)	
carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg	\$0 (1)	
carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg	\$0 (1)	
carbidopa-levodopa oral tablet,disintegrating 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg	\$0 (1)	
entacapone oral tablet 200 mg	\$0 (1)	
NEUPRO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 1 MG/24 HOUR, 2 MG/24 HOUR, 3 MG/24 HOUR, 4 MG/24 HOUR, 6 MG/24 HOUR, 8 MG/24 HOUR	\$0 (1)	
pramipexole oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg	\$0 (1)	
pramipexole oral tablet extended release 24 hr 0.375 mg, 0.75 mg, 1.5 mg, 2.25 mg, 3 mg	\$0 (1)	
rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0 (1)	
ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg	\$0 (1)	
ropinirole oral tablet extended release 24 hr 12 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg	\$0 (1)	
selegiline hcl oral capsule 5 mg	\$0 (1)	
selegiline hcl oral tablet 5 mg	\$0 (1)	
trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg	\$0 (1)	PA
<b>नन-नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स</b>		
buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
butorphanol injection solution 1 mg/ml, 2 mg/ml	\$0 (1)	
celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
celecoxib oral capsule 400 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
diclofenac potassium oral tablet 50 mg	\$0 (1)	
diclofenac sodium oral tablet extended release 24 hr 100 mg	\$0 (1)	
diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (1)	
diclofenac sodium topical gel 1 %	\$0 (1)	QL (1000 GM per 28 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
diclofenac sodium topical solution in metered-dose pump 20 mg/gram /actuation(2 %)	\$0 (1)	QL (224 GM per 28 days)
diclofenac-misoprostol oral tablet,ir,delayed rel,biphasic 50-200 mg-mcg, 75-200 mg-mcg	\$0 (1)	
diflunisal oral tablet 500 mg	\$0 (1)	
etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg	\$0 (1)	
etodolac oral tablet 400 mg, 500 mg	\$0 (1)	
etodolac oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 500 mg, 600 mg	\$0 (1)	
flurbiprofen oral tablet 100 mg	\$0 (1)	
ibu oral tablet 600 mg, 800 mg	\$0 (1)	
ibuprofen oral suspension 100 mg/5 ml	\$0 (1)	
ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg	\$0 (1)	
meloxicam oral tablet 15 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
meloxicam oral tablet 7.5 mg	\$0 (1)	
nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg	\$0 (1)	
nalbuphine injection solution 10 mg/ml, 20 mg/ml	\$0 (1)	
naloxone injection solution 0.4 mg/ml	\$0 (1)	
naloxone injection syringe 0.4 mg/ml, 1 mg/ml	\$0 (1)	
naloxone nasal spray,non-aerosol 4 mg/actuation	\$0 (1)	
naltrexone oral tablet 50 mg	\$0 (1)	
naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg, 500 mg	\$0 (1)	
naproxen oral tablet,delayed release (dr/ec) 375 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
naproxen sodium oral tablet 275 mg, 550 mg	\$0 (1)	
oxaprozin oral tablet 600 mg	\$0 (1)	
piroxicam oral capsule 10 mg, 20 mg	\$0 (1)	
sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg	\$0 (1)	
tramadol oral tablet 50 mg	\$0 (1)	QL (240 EA per 30 days)
tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg	\$0 (1)	QL (240 EA per 30 days)
VIVITROL INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 380 MG	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025



दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
<b>नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स</b>		
acetaminophen-codeine oral solution 120 mg-12 mg /5 ml (5 ml), 120-12 mg/5 ml, 300 mg-30 mg /12.5 ml	\$0 (1)	QL (2700 ML per 30 days)
acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg	\$0 (1)	QL (360 EA per 30 days)
acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days)
endocet oral tablet 10-325 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
endocet oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg	\$0 (1)	QL (360 EA per 30 days)
endocet oral tablet 7.5-325 mg	\$0 (1)	QL (240 EA per 30 days)
fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg	\$0 (1)	PA; QL (120 EA per 30 days); ^
fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg	\$0 (1)	PA; QL (120 EA per 30 days)
fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr	\$0 (1)	PA; QL (10 EA per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral solution 10-325 mg/15 ml, 7.5-325 mg/15 ml	\$0 (1)	QL (2700 ML per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg	\$0 (1)	QL (240 EA per 30 days)
hydrocodone-ibuprofen oral tablet 7.5-200 mg	\$0 (1)	QL (150 EA per 30 days)
hydromorphone oral liquid 1 mg/ml	\$0 (1)	QL (600 ML per 30 days)
hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
methadone intensol oral concentrate 10 mg/ml	\$0 (1)	PA; QL (90 ML per 30 days)
methadone oral concentrate 10 mg/ml	\$0 (1)	PA; QL (90 ML per 30 days)
methadone oral solution 10 mg/5 ml, 5 mg/5 ml	\$0 (1)	PA; QL (450 ML per 30 days)
methadone oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days)
morphine (pf) intravenous patient control.analgesia soln 30 mg/30 ml (1 mg/ml)	\$0 (1)	
morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)	\$0 (1)	QL (180 ML per 30 days)
morphine injection syringe 4 mg/ml	\$0 (1)	
morphine intravenous solution 10 mg/ml, 4 mg/ml, 50 mg/ml	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
morphine intravenous syringe 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml	\$0 (1)	
MORPHINE INTRAVENOUS SYRINGE 8 MG/ML	\$0 (1)	
morphine oral solution 10 mg/5 ml, 20 mg/5 ml (4 mg/ml)	\$0 (1)	QL (900 ML per 30 days)
morphine oral tablet 15 mg, 30 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
morphine oral tablet extended release 100 mg, 15 mg, 200 mg, 30 mg, 60 mg	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days)
oxycodone oral capsule 5 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
oxycodone oral concentrate 20 mg/ml	\$0 (1)	QL (180 ML per 30 days)
oxycodone oral solution 5 mg/5 ml	\$0 (1)	QL (900 ML per 30 days)
oxycodone oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg	\$0 (1)	QL (360 EA per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg	\$0 (1)	QL (240 EA per 30 days)
<b>मांसपेशीलाई आराम दनि / एन्टिसिपासमोडकि थेरापी</b>		
baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (1)	
cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	PA
dantrolene oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg	\$0 (1)	
tizanidine oral tablet 2 mg, 4 mg	\$0 (1)	
<b>माइग्रेन / क्लस्टर हेडेक थेरापी</b>		
AIMOVIG AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML	\$0 (1)	PA; QL (1 ML per 30 days)
dihydroergotamine injection solution 1 mg/ml	\$0 (1)	^
dihydroergotamine nasal spray, non-aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)	\$0 (1)	PA; QL (8 ML per 28 days)
ergotamine-caffeine oral tablet 1-100 mg	\$0 (1)	QL (40 EA per 28 days)
naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg	\$0 (1)	QL (18 EA per 28 days)
NURTEC ODT ORAL TABLET, DISINTEGRATING 75 MG	\$0 (1)	PA; QL (16 EA per 30 days); ^
rizatriptan oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (18 EA per 30 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
rizatriptan oral tablet,disintegrating 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (18 EA per 30 days)
sumatriptan nasal spray,non-aerosol 20 mg/actuation, 5 mg/actuation	\$0 (1)	QL (18 EA per 28 days)
sumatriptan succinate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	QL (18 EA per 28 days)
sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 4 mg/0.5 ml, 6 mg/0.5 ml	\$0 (1)	QL (8 ML per 28 days)
sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml, 6 mg/0.5 ml	\$0 (1)	QL (8 ML per 28 days)
sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml	\$0 (1)	QL (8 ML per 28 days)
zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (18 EA per 28 days)
zolmitriptan oral tablet,disintegrating 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (18 EA per 28 days)
<b>वविधि न्यूरोलोजिकल थेरापी</b>		
AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 12 MG	\$0 (1)	PA; QL (120 EA per 30 days); ^
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 18 MG, 30 MG, 36 MG, 42 MG, 48 MG	\$0 (1)	PA; QL (30 EA per 30 days); ^
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 24 MG	\$0 (1)	PA; QL (60 EA per 30 days); ^
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 6 MG	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days); ^
AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 12-18-24-30 MG	\$0 (1)	PA; QL (28 EA per 180 days); ^
AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 6 MG (14)-12 MG (14)-24 MG (14)	\$0 (1)	PA; QL (42 EA per 28 days); ^
dalfampridine oral tablet extended release 12 hr 10 mg	\$0 (1)	PA; QL (60 EA per 30 days)
dimethyl fumarate oral capsule,delayed release(dr/ec) 120 mg	\$0 (1)	PA; QL (14 EA per 7 days); ^
dimethyl fumarate oral capsule,delayed release(dr/ec) 120 mg (14)- 240 mg (46)	\$0 (1)	PA; QL (120 EA per 180 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
dimethyl fumarate oral capsule,delayed release(dr/ec) 240 mg	\$0 (1)	PA; QL (60 EA per 30 days); ^
donepezil oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	
donepezil oral tablet 23 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
donepezil oral tablet,disintegrating 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	
fingolimod oral capsule 0.5 mg	\$0 (1)	PA; QL (30 EA per 30 days); ^
galantamine oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
galantamine oral solution 4 mg/ml	\$0 (1)	
galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml	\$0 (1)	PA; QL (30 ML per 30 days); ^
glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml	\$0 (1)	PA; QL (12 ML per 28 days); ^
glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml	\$0 (1)	PA; QL (30 ML per 30 days); ^
glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml	\$0 (1)	PA; QL (12 ML per 28 days); ^
memantine oral capsule,sprinkle,er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg	\$0 (1)	PA
memantine oral solution 2 mg/ml	\$0 (1)	PA
memantine oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	PA
NAMZARIC ORAL CAP,SPRINKLE,ER 24HR DOSE PACK 7/14/21/28 MG-10 MG	\$0 (1)	
NAMZARIC ORAL CAPSULE,SPRINKLE,ER 24HR 14-10 MG, 21-10 MG, 28-10 MG, 7-10 MG	\$0 (1)	
NUEDEXTA ORAL CAPSULE 20-10 MG	\$0 (1)	PA; QL (60 EA per 30 days); ^
OCREVUS INTRAVENOUS SOLUTION 30 MG/ML	\$0 (1)	PA; QL (20 ML per 180 days); ^
RADICAVA ORS ORAL SUSPENSION 105 MG/5 ML	\$0 (1)	PA; ^
RADICAVA ORS STARTER KIT SUSP ORAL SUSPENSION 105 MG/5 ML	\$0 (1)	PA; ^
rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
teriflunomide oral tablet 14 mg, 7 mg	\$0 (1)	PA; QL (30 EA per 30 days); ^
tetrabenazine oral tablet 12.5 mg	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days); ^
tetrabenazine oral tablet 25 mg	\$0 (1)	PA; QL (120 EA per 30 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
<b>साइकोथेराप्युटिक औषधिरू</b>		
ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 720 MG/2.4 ML	\$0 (1)	QL (2.4 ML per 56 days)
ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 960 MG/3.2 ML	\$0 (1)	QL (3.2 ML per 56 days)
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 300 MG, 400 MG	\$0 (1)	QL (1 EA per 28 days)
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 300 MG, 400 MG	\$0 (1)	QL (1 EA per 28 days)
alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (1)	QL (150 EA per 30 days)
amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (1)	
amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
aripiprazole oral solution 1 mg/ml	\$0 (1)	QL (900 ML per 30 days)
aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
aripiprazole oral tablet,disintegrating 10 mg, 15 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 675 MG/2.4 ML	\$0 (1)	QL (4.8 ML per 365 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 1,064 MG/3.9 ML	\$0 (1)	QL (3.9 ML per 56 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 441 MG/1.6 ML	\$0 (1)	QL (1.6 ML per 28 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 662 MG/2.4 ML	\$0 (1)	QL (2.4 ML per 28 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 882 MG/3.2 ML	\$0 (1)	QL (3.2 ML per 28 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg	\$0 (1)	PA; QL (30 EA per 30 days)
armodafinil oral tablet 50 mg	\$0 (1)	PA; QL (60 EA per 30 days)
asenapine maleate sublingual tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC 45-105 MG	\$0 (1)	ST; QL (60 EA per 30 days)
BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg	\$0 (1)	
bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 300 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
bupirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg	\$0 (1)	
CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG, 42 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
chlorpromazine injection solution 25 mg/ml	\$0 (1)	
chlorpromazine oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml	\$0 (1)	
chlorpromazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
citalopram oral solution 10 mg/5 ml	\$0 (1)	
citalopram oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	
clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (1)	PA-NS
clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (180 EA per 30 days)
clorazepate dipotassium oral tablet 3.75 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (90 EA per 30 days)
clorazepate dipotassium oral tablet 7.5 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (360 EA per 30 days)
clozapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
clozapine oral tablet,disintegrating 100 mg	\$0 (1)	QL (270 EA per 30 days)
clozapine oral tablet,disintegrating 12.5 mg, 25 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
clozapine oral tablet,disintegrating 150 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
clozapine oral tablet,disintegrating 200 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
COBENFY ORAL CAPSULE 100-20 MG, 125-30 MG, 50-20 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days); ^
COBENFY STARTER PACK ORAL CAPSULE,DOSE PACK 50 MG-20 MG /100 MG-20 MG	\$0 (1)	QL (56 EA per 180 days); ^
desipramine oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (1)	
desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
dexmethylphenidate oral capsule,er biphasic 50-50 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
dexmethylphenidate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
dextroamphetamine sulfate oral capsule, extended release 10 mg, 15 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
dextroamphetamine sulfate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
dextroamphetamine sulfate oral tablet 15 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
dextroamphetamine sulfate oral tablet 20 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
dextroamphetamine sulfate oral tablet 30 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
dextroamphetamine-amphetamine oral capsule,extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 20 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
diazepam injection solution 5 mg/ml	\$0 (1)	
diazepam injection syringe 5 mg/ml	\$0 (1)	
diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml	\$0 (1)	PA-NS; QL (240 ML per 30 days)
diazepam oral concentrate 5 mg/ml	\$0 (1)	PA-NS; QL (240 ML per 30 days)
diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml), 5 mg/5 ml (1 mg/ml, 5 ml)	\$0 (1)	PA-NS; QL (1200 ML per 30 days)
diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (1)	
doxepin oral concentrate 10 mg/ml	\$0 (1)	
doxepin oral tablet 3 mg, 6 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG	\$0 (1)	
duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days); ^
escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml	\$0 (1)	
escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (1)	
FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	\$0 (1)	ST; QL (60 EA per 30 days); ^
FANAPT ORAL TABLETS, DOSE PACK 1MG(2)-2MG(2)-4MG(2)-6MG(2)	\$0 (1)	ST; QL (8 EA per 180 days)
FETZIMA ORAL CAPSULE, EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26)	\$0 (1)	QL (28 EA per 180 days)
FETZIMA ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	
fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)	\$0 (1)	
fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml	\$0 (1)	
fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml	\$0 (1)	
fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml	\$0 (1)	
fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml	\$0 (1)	
fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	
fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 4 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
guanfacine oral tablet extended release 24 hr 3 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml, 50 mg/ml(1ml)	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025



दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml	\$0 (1)	
haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml	\$0 (1)	
haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (1)	
imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,092 MG/3.5 ML	\$0 (1)	QL (3.5 ML per 180 days)
INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,560 MG/5 ML	\$0 (1)	QL (5 ML per 180 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML	\$0 (1)	QL (0.75 ML per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML	\$0 (1)	QL (1 ML per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML	\$0 (1)	QL (1.5 ML per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML	\$0 (1)	QL (0.25 ML per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML	\$0 (1)	QL (0.5 ML per 28 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/0.88 ML	\$0 (1)	QL (0.88 ML per 90 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 410 MG/1.32 ML	\$0 (1)	QL (1.32 ML per 90 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 546 MG/1.75 ML	\$0 (1)	QL (1.75 ML per 90 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 819 MG/2.63 ML	\$0 (1)	QL (2.63 ML per 90 days)
lisdexamfetamine oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
lisdexamfetamine oral capsule 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
lisdexamfetamine oral tablet, chewable 10 mg, 20 mg, 30 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
lisdexamfetamine oral tablet, chewable 40 mg, 50 mg, 60 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयिर्	आवश्यकताएं/सीमाएं
lithium carbonate oral tablet 300 mg	\$0 (1)	
lithium carbonate oral tablet extended release 300 mg, 450 mg	\$0 (1)	
lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml	\$0 (1)	
lorazepam injection solution 2 mg/ml, 4 mg/ml	\$0 (1)	
lorazepam injection syringe 2 mg/ml	\$0 (1)	
lorazepam intensol oral concentrate 2 mg/ml	\$0 (1)	QL (150 ML per 30 days)
lorazepam oral concentrate 2 mg/ml	\$0 (1)	QL (150 ML per 30 days)
lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (1)	QL (150 EA per 30 days)
loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg	\$0 (1)	
lurasidone oral tablet 120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
lurasidone oral tablet 80 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
MARPLAN ORAL TABLET 10 MG	\$0 (1)	
methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml	\$0 (1)	QL (900 ML per 30 days)
methylphenidate hcl oral solution 5 mg/5 ml	\$0 (1)	QL (1800 ML per 30 days)
methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
methylphenidate hcl oral tablet extended release 10 mg, 20 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 18 mg, 18 mg (bx rating), 27 mg, 27 mg (bx rating), 36 mg, 36 mg (bx rating), 54 mg, 54 mg (bx rating)	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
methylphenidate hcl oral tablet, chewable 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg, 7.5 mg	\$0 (1)	
mirtazapine oral tablet, disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg	\$0 (1)	
modafinil oral tablet 100 mg	\$0 (1)	PA; QL (30 EA per 30 days)
modafinil oral tablet 200 mg	\$0 (1)	PA; QL (60 EA per 30 days)
molindone oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg	\$0 (1)	
nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (1)	
nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml	\$0 (1)	
NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
olanzapine intramuscular recon soln 10 mg	\$0 (1)	QL (3 EA per 1 day)
olanzapine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
olanzapine oral tablet 15 mg, 20 mg, 7.5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
olanzapine oral tablet,disintegrating 10 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
olanzapine oral tablet,disintegrating 15 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg, 3 mg, 9 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml	\$0 (1)	QL (900 ML per 30 days)
paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
paroxetine hcl oral tablet 30 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (1)	
phenelzine oral tablet 15 mg	\$0 (1)	
pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (1)	
protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	
quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg	\$0 (1)	
QUETIAPINE ORAL TABLET 150 MG	\$0 (1)	
quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
quetiapine oral tablet extended release 24 hr 300 mg, 400 mg, 50 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 12.5 MG/2 ML, 25 MG/2 ML, 37.5 MG/2 ML, 50 MG/2 ML	\$0 (1)	QL (2 EA per 28 days)
risperidone oral solution 1 mg/ml	\$0 (1)	
risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg	\$0 (1)	
risperidone oral tablet,disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
risperidone oral tablet,disintegrating 1 mg, 2 mg, 3 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
risperidone oral tablet,disintegrating 4 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6 MG/24 HOUR	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
sertraline oral concentrate 20 mg/ml	\$0 (1)	
sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
SODIUM OXYBATE ORAL SOLUTION 500 MG/ML	\$0 (1)	PA; LA; QL (540 ML per 30 days); ^
temazepam oral capsule 15 mg	\$0 (1)	PA; QL (60 EA per 30 days)
temazepam oral capsule 30 mg, 7.5 mg	\$0 (1)	PA; QL (30 EA per 30 days)
thioridazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (1)	
tranylcypromine oral tablet 10 mg	\$0 (1)	
trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg	\$0 (1)	
trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (1)	
trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
venlafaxine oral capsule,extended release 24hr 150 mg, 37.5 mg, 75 mg	\$0 (1)	
venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (1)	
VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	\$0 (1)	PA-NS; QL (600 ML per 30 days); ^
vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
ziprasidone mesylate intramuscular recon soln 20 mg/ml (final conc.)	\$0 (1)	
zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (28 EA per 365 days); ^
ZURZUVAE ORAL CAPSULE 30 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (14 EA per 365 days); ^
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 210 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (2.4 EA per 30 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 300 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (2 EA per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 405 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (1 EA per 28 days)
<b>इन्डोक्राइन/मधुमेह</b>		
<b>एड्रेनल हार्मोन</b>		
dexamethasone intensol oral drops 1 mg/ml	\$0 (1)	
dexamethasone oral elixir 0.5 mg/5 ml	\$0 (1)	
dexamethasone oral solution 0.5 mg/5 ml	\$0 (1)	
dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg	\$0 (1)	
dexamethasone sodium phos (pf) injection solution 10 mg/ml	\$0 (1)	
dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 4 mg/ml	\$0 (1)	
dexamethasone sodium phosphate injection syringe 4 mg/ml	\$0 (1)	
fludrocortisone oral tablet 0.1 mg	\$0 (1)	
hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (1)	
methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml, 80 mg/ml	\$0 (1)	
methylprednisolone oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (1)	B/D
methylprednisolone oral tablets,dose pack 4 mg	\$0 (1)	
methylprednisolone sodium succ injection recon soln 125 mg, 40 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
methylprednisolone sodium succ intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg	\$0 (1)	
prednisolone oral solution 15 mg/5 ml	\$0 (1)	
prednisolone sodium phosphate oral solution 15 mg/5 ml (3 mg/ml), 15 mg/5 ml (5 ml), 25 mg/5 ml (5 mg/ml), 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)	\$0 (1)	
prednisone intensol oral concentrate 5 mg/ml	\$0 (1)	
prednisone oral solution 5 mg/5 ml	\$0 (1)	
prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg	\$0 (1)	
prednisone oral tablets,dose pack 10 mg, 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg (48 pack)	\$0 (1)	
SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL (PF) INJECTION RECON SOLN 1,000 MG/8 ML, 100 MG/2 ML, 250 MG/2 ML, 500 MG/4 ML	\$0 (1)	
<b>एन्टिथाइरोइड एजेन्टहू</b>		
methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	
propylthiouracil oral tablet 50 mg	\$0 (1)	
<b>थाइरोइड हर्मोनहू</b>		
euthyrox oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	\$0 (1)	
levo-t oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	\$0 (1)	
levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	\$0 (1)	
levoxyl oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	\$0 (1)	
liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg	\$0 (1)	
SYNTHROID ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
unithroid oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	\$0 (1)	
<b>मधुमेह थेरापी</b>		
acarbose oral tablet 100 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
acarbose oral tablet 25 mg	\$0 (1)	QL (360 EA per 30 days)
acarbose oral tablet 50 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
alcohol pads topical pads, medicated	\$0 (1)	
BYDUREON BCISE SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 2 MG/0.85 ML	\$0 (1)	PA; QL (3.4 ML per 28 days)
diazoxide oral suspension 50 mg/ml	\$0 (1)	^
FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
glimepiride oral tablet 1 mg	\$0 (1)	QL (240 EA per 30 days)
glimepiride oral tablet 2 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
glimepiride oral tablet 4 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
glipizide oral tablet 10 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
glipizide oral tablet 5 mg	\$0 (1)	QL (240 EA per 30 days)
glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg	\$0 (1)	QL (240 EA per 30 days)
glipizide oral tablet extended release 24hr 5 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg	\$0 (1)	QL (240 EA per 30 days)
glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
GVOKE HYOPEN 1-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML	\$0 (1)	
GVOKE HYOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML	\$0 (1)	
GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML	\$0 (1)	
GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML	\$0 (1)	
GVOKE SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2 ML	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML	\$0 (1)	
HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3 ML)	\$0 (1)	
INSULIN ASP PRT-INSULIN ASPART SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)	\$0 (1)	
INSULIN ASP PRT-INSULIN ASPART SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML (70-30)	\$0 (1)	
INSULIN ASPART U-100 SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML	\$0 (1)	
INSULIN ASPART U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	\$0 (1)	
INSULIN ASPART U-100 SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (1)	
INSULIN DEGLUDEC SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML), 200 UNIT/ML (3 ML)	\$0 (1)	
INSULIN DEGLUDEC SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (1)	
INSULIN GLARGINE U-300 CONC SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5 ML), 300 UNIT/ML (3 ML)	\$0 (1)	
INSULIN GLARGINE-YFGN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	\$0 (1)	
JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG, 50-500 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025



दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
metformin oral tablet 1,000 mg	\$0 (1)	QL (75 EA per 30 days)
metformin oral tablet 500 mg	\$0 (1)	QL (150 EA per 30 days)
metformin oral tablet 850 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg	\$0 (1)	Generic for Glucophage XR; QL (120 EA per 30 days)
metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg	\$0 (1)	Generic for Glucophage XR; QL (60 EA per 30 days)
MOUNJARO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/0.5 ML, 12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5 MG/0.5 ML	\$0 (1)	PA; QL (2 ML per 28 days)
nateglinide oral tablet 120 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
nateglinide oral tablet 60 mg	\$0 (1)	QL (180 EA per 30 days)
NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30)	\$0 (1)	(brand RELION not covered)
NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)	\$0 (1)	(brand RELION not covered)
NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	\$0 (1)	(brand RELION not covered)
NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML	\$0 (1)	(brand RELION not covered)
NOVOLIN R FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	\$0 (1)	(brand RELION not covered)
NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (1)	(brand RELION not covered)
OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML)	\$0 (1)	PA; QL (3 ML per 28 days)
OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG(2 MG/1.5 ML)	\$0 (1)	PA; QL (1.8 ML per 30 days)
pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
pioglitazone-glimepiride oral tablet 30-2 mg, 30-4 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
pioglitazone-metformin oral tablet 15-500 mg, 15-850 mg	\$0 (1)	QL (90 EA per 30 days)
repaglinide oral tablet 0.5 mg	\$0 (1)	QL (960 EA per 30 days)
repaglinide oral tablet 1 mg	\$0 (1)	QL (480 EA per 30 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
repaglinide oral tablet 2 mg	\$0 (1)	QL (240 EA per 30 days)
RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG	\$0 (1)	PA; QL (30 EA per 30 days)
saxagliptin oral tablet 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	
SOLIQUA 100/33 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-33 MCG/ML	\$0 (1)	QL (15 ML per 25 days)
SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5-1,000 MG, 25-5-1,000 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5-1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML	\$0 (1)	PA; QL (2 ML per 28 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 10-500 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
XULTOPHY 100/3.6 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-3.6 MG /ML (3 ML)	\$0 (1)	QL (15 ML per 30 days)
<b>वविधि हार्मोनहू</b>		
ALDURAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 2.9 MG/5 ML	\$0 (1)	PA; ^
cabergoline oral tablet 0.5 mg	\$0 (1)	
calcitonin (salmon) nasal spray,non-aerosol 200 unit/actuation	\$0 (1)	
calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml	\$0 (1)	
calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg	\$0 (1)	
calcitriol oral solution 1 mcg/ml	\$0 (1)	
cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
cinacalcet oral tablet 90 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days); ^
danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg	\$0 (1)	
desmopressin injection solution 4 mcg/ml	\$0 (1)	^
desmopressin nasal spray with pump 10 mcg/spray (0.1 ml)	\$0 (1)	
desmopressin nasal spray,non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)	\$0 (1)	
desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg	\$0 (1)	
doxercalciferol oral capsule 0.5 mcg, 1 mcg, 2.5 mcg	\$0 (1)	
FABRAZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 35 MG, 5 MG	\$0 (1)	PA; ^
KORLYM ORAL TABLET 300 MG	\$0 (1)	PA; LA; ^
LUMIZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 50 MG	\$0 (1)	PA; ^
mifepristone oral tablet 300 mg	\$0 (1)	PA; ^
NAGLAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/5 ML	\$0 (1)	PA; ^
pamidronate intravenous solution 30 mg/10 ml (3 mg/ml), 60 mg/10 ml (6 mg/ml), 90 mg/10 ml (9 mg/ml)	\$0 (1)	
paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg	\$0 (1)	
sapropterin oral powder in packet 100 mg, 500 mg	\$0 (1)	PA; ^
sapropterin oral tablet,soluble 100 mg	\$0 (1)	PA; ^
SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	\$0 (1)	PA; LA
testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml, 200 mg/ml (1 ml)	\$0 (1)	
testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml	\$0 (1)	
testosterone transdermal gel 50 mg/5 gram (1 %)	\$0 (1)	PA; QL (300 GM per 30 days)
testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %)	\$0 (1)	PA; QL (300 GM per 30 days)
testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)	\$0 (1)	PA; QL (150 GM per 30 days)
testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram)	\$0 (1)	PA; QL (300 GM per 30 days)
tolvaptan oral tablet 15 mg, 30 mg	\$0 (1)	PA; ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
zoledronic acid intravenous solution 4 mg/5 ml	\$0 (1)	B/D
<b>इम्यूनोलोजी, खोप / बायोटेक्नोलोजी</b>		
<b>खोपहरू / वविधि इम्यूनोलोजकिल्स</b>		
ABRYSVO (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 120 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML	\$0 (1)	NM
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML	\$0 (1)	NM
AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 120 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
BCG VACCINE, LIVE (PF) PERCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG	\$0 (1)	NM
BEXSERO INTRAMUSCULAR SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
BIVIGAM INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0 (1)	PA; NM; LA; ^
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	\$0 (1)	NM
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	\$0 (1)	NM
DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG-LF/0.5ML	\$0 (1)	NM
DENG VAXIA (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML	\$0 (1)	NM
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 20 MCG/ML	\$0 (1)	B/D; NM
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/ML	\$0 (1)	B/D; NM
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	B/D; NM
GAMASTAN INTRAMUSCULAR SOLUTION 15-18 % RANGE	\$0 (1)	NM

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
GAMMAGARD LIQUID INJECTION SOLUTION 10 %	\$0 (1)	PA; NM; ^
GAMMAGARD S-D (IGA < 1 MCG/ML) INTRAVENOUS RECON SOLN 10 GRAM, 5 GRAM	\$0 (1)	PA; NM; ^
GAMMAKED INJECTION SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %), 10 GRAM/100 ML (10 %), 20 GRAM/200 ML (10 %), 5 GRAM/50 ML (10 %)	\$0 (1)	PA; NM; ^
GAMMAPLEX (WITH SORBITOL) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %	\$0 (1)	PA; NM; LA; ^
GAMMAPLEX INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 10 % (100 ML), 10 % (200 ML)	\$0 (1)	PA; NM; LA; ^
GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %), 10 GRAM/100 ML (10 %), 2.5 GRAM/25 ML (10 %), 20 GRAM/200 ML (10 %), 40 GRAM/400 ML (10 %), 5 GRAM/50 ML (10 %)	\$0 (1)	PA; NM; ^
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 0.5 ML	\$0 (1)	NM
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5 ML	\$0 (1)	NM
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML, 720 ELISA UNIT/0.5 ML	\$0 (1)	NM
HEPLISAV-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	B/D; NM
HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
IMOVAX RABIES VACCINE (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 2.5 UNIT	\$0 (1)	NM
INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25-58-10 LF-MCG-LF/0.5ML	\$0 (1)	NM
IPOLE INJECTION SUSPENSION 40-8-32 UNIT/0.5 ML	\$0 (1)	NM
IXCHIQ (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1,000 TCID50/0.5 ML	\$0 (1)	NM
IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 6 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION 0.5X TO 3.95X 10EXP8 UNIT/0.5	\$0 (1)	NM
KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML	\$0 (1)	NM

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 4 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR KIT 10-5 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10-5 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS RECON SOLN 1,000-12,500 TCID50/0.5 ML	\$0 (1)	NM
MRESVIA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 50 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
OCTAGAM INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 5 %	\$0 (1)	PA; NM; ^
PANZYGA INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 10 % (100 ML), 10 % (200 ML), 10 % (25 ML), 10 % (300 ML), 10 % (50 ML)	\$0 (1)	PA; NM; ^
PEDIARIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML	\$0 (1)	NM
PEDVAX HIB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 7.5 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
PENBRAYA (PF) INTRAMUSCULAR KIT 5-120 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT 15LF-48MCG-62DU -10 MCG/0.5ML	\$0 (1)	NM
PREHEVBRIO (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML	\$0 (1)	B/D; NM
PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3.4-4.2- 3.3CCID50/0.5ML	\$0 (1)	NM
PRIVIGEN INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0 (1)	PA; NM; ^
PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3-4.3-3- 3.99 TCID50/0.5	\$0 (1)	NM
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML	\$0 (1)	NM
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML	\$0 (1)	NM

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT	\$0 (1)	NM
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	B/D; NM
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	B/D; NM
ROTARIX ORAL SUSPENSION 10EXP6 CCID50 /1.5 ML	\$0 (1)	NM
ROTARIX ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP6 CCID50/ML	\$0 (1)	NM
ROTATEQ VACCINE ORAL SOLUTION 2 ML	\$0 (1)	NM
SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM; A third dose may be considered in post-transplant members (PA required).; QL (2 EA per 999 days)
STAMARIL (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,000 UNIT/0.5 ML	\$0 (1)	NM
TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2-2 LF UNIT/0.5 ML	\$0 (1)	NM
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML	\$0 (1)	NM
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2 LF UNIT/0.5 ML	\$0 (1)	NM
TETANUS,DIPHThERIA TOX PED(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-25 LF UNIT/0.5 ML	\$0 (1)	B/D; NM
TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML, 2.4 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
TRUMENBA INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT- 20 MCG/ML	\$0 (1)	NM
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	NM

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML	\$0 (1)	NM
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML	\$0 (1)	NM
VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,350 UNIT/0.5 ML	\$0 (1)	NM
YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML, 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML(2.5 ML IN 1 VIAL)	\$0 (1)	NM
<b>बायोटेक्नोलोजी औषधहिरू</b>		
ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	PA; LA; ^
ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON SOLN 220 MG	\$0 (1)	PA; LA; ^
BESREMI SUBCUTANEOUS SYRINGE 500 MCG/ML	\$0 (1)	PA-NS; LA; ^
BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG	\$0 (1)	PA; QL (14 EA per 28 days); ^
NIVESTYM INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML	\$0 (1)	PA; ^
NIVESTYM SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML	\$0 (1)	PA; ^
NYVEPRIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML	\$0 (1)	PA; ^
OMNITROPE SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML)	\$0 (1)	PA; ^
OMNITROPE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 5.8 MG	\$0 (1)	PA; ^
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML	\$0 (1)	PA; QL (4 ML per 28 days); ^
PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML	\$0 (1)	PA; QL (2 ML per 28 days); ^
RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML	\$0 (1)	PA
RETACRIT INJECTION SOLUTION 40,000 UNIT/ML	\$0 (1)	PA; ^
<b>एन्टि-इन्फेक्टभि</b>		
<b>एन्टिफिङ्गल एजेन्टहिरू</b>		
ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML	\$0 (1)	B/D
amphotericin b injection recon soln 50 mg	\$0 (1)	B/D
casprofungin intravenous recon soln 50 mg, 70 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025



दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
clotrimazole mucous membrane troche 10 mg	\$0 (1)	
CRESEMBA ORAL CAPSULE 186 MG, 74.5 MG	\$0 (1)	PA; ^
fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml	\$0 (1)	
fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml, 40 mg/ml	\$0 (1)	
fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg	\$0 (1)	
flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	PA; ^
griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml	\$0 (1)	
griseofulvin microsize oral tablet 500 mg	\$0 (1)	
griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 250 mg	\$0 (1)	
itraconazole oral capsule 100 mg	\$0 (1)	PA; QL (120 EA per 30 days)
ketoconazole oral tablet 200 mg	\$0 (1)	PA
micafungin intravenous recon soln 100 mg, 50 mg	\$0 (1)	
nystatin oral suspension 100,000 unit/ml	\$0 (1)	
nystatin oral tablet 500,000 unit	\$0 (1)	
posaconazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 100 mg	\$0 (1)	PA; QL (96 EA per 30 days); ^
terbinafine hcl oral tablet 250 mg	\$0 (1)	
voriconazole intravenous recon soln 200 mg	\$0 (1)	PA; ^
voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)	\$0 (1)	PA; ^
voriconazole oral tablet 200 mg	\$0 (1)	PA; QL (120 EA per 30 days)
voriconazole oral tablet 50 mg	\$0 (1)	PA; QL (480 EA per 30 days)
<b>एन्टिबिडरल</b>		
abacavir oral solution 20 mg/ml	\$0 (1)	
abacavir oral tablet 300 mg	\$0 (1)	
abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg	\$0 (1)	
acyclovir oral capsule 200 mg	\$0 (1)	
acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml	\$0 (1)	
acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg	\$0 (1)	
acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml	\$0 (1)	B/D

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
adefovir oral tablet 10 mg	\$0 (1)	
amantadine hcl oral capsule 100 mg	\$0 (1)	
amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml	\$0 (1)	
amantadine hcl oral tablet 100 mg	\$0 (1)	
APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG	\$0 (1)	^
atazanavir oral capsule 150 mg, 200 mg, 300 mg	\$0 (1)	
BARACLUDE ORAL SOLUTION 0.05 MG/ML	\$0 (1)	^
BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG	\$0 (1)	^
CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG	\$0 (1)	^
COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG	\$0 (1)	^
darunavir oral tablet 600 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days); ^
darunavir oral tablet 800 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days); ^
DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG	\$0 (1)	^
DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days); ^
DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG	\$0 (1)	^
EDURANT ORAL TABLET 25 MG	\$0 (1)	^
efavirenz oral tablet 600 mg	\$0 (1)	
efavirenz-emtricitabin-tenofov oral tablet 600-200-300 mg	\$0 (1)	^
efavirenz-lamivu-tenofov disop oral tablet 400-300-300 mg, 600-300-300 mg	\$0 (1)	^
emtricitabine oral capsule 200 mg	\$0 (1)	
emtricitabine-tenofov (tdf) oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days); ^
emtricitabine-tenofov (tdf) oral tablet 200-300 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (1)	
entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0 (1)	
etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg	\$0 (1)	^
EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG	\$0 (1)	^
famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
fosamprenavir oral tablet 700 mg	\$0 (1)	
FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG	\$0 (1)	^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयिर	आवश्यकताएं/सीमाएं
ganciclovir sodium intravenous recon soln 500 mg	\$0 (1)	
GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG	\$0 (1)	^
INTELENCE ORAL TABLET 25 MG	\$0 (1)	
ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG	\$0 (1)	^
ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	\$0 (1)	^
ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG	\$0 (1)	^
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG	\$0 (1)	^
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG	\$0 (1)	
JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG	\$0 (1)	^
lamivudine oral solution 10 mg/ml	\$0 (1)	
lamivudine oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg	\$0 (1)	
lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg	\$0 (1)	
LEDIPASVIR-SOFOSBUVIR ORAL TABLET 90-400 MG	\$0 (1)	PA; QL (28 EA per 28 days); ^
LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	\$0 (1)	
LIVTENCITY ORAL TABLET 200 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5 ml	\$0 (1)	
lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg, 200-50 mg	\$0 (1)	
maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg	\$0 (1)	^
nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml	\$0 (1)	
nevirapine oral tablet 200 mg	\$0 (1)	
nevirapine oral tablet extended release 24 hr 400 mg	\$0 (1)	
NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	\$0 (1)	
ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG	\$0 (1)	^
oseltamivir oral capsule 30 mg	\$0 (1)	QL (168 EA per 365 days)
oseltamivir oral capsule 45 mg, 75 mg	\$0 (1)	QL (84 EA per 365 days)
oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml	\$0 (1)	QL (1080 ML per 365 days)
PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150-100 MG	\$0 (1)	QL (20 EA per 90 days)
PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 300 MG (150 MG X 2)-100 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 90 days)
PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG	\$0 (1)	^
PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG	\$0 (1)	PA; QL (30 EA per 30 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG-MG	\$0 (1)	^
PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML	\$0 (1)	QL (400 ML per 30 days); ^
PREZISTA ORAL TABLET 150 MG	\$0 (1)	QL (240 EA per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 75 MG	\$0 (1)	QL (480 EA per 30 days)
RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION	\$0 (1)	QL (120 EA per 365 days)
REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET 50 MG	\$0 (1)	^
ribavirin oral capsule 200 mg	\$0 (1)	
ribavirin oral tablet 200 mg	\$0 (1)	
rimantadine oral tablet 100 mg	\$0 (1)	
ritonavir oral tablet 100 mg	\$0 (1)	
RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 600 MG	\$0 (1)	^
SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML	\$0 (1)	^
SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG	\$0 (1)	
SELZENTRY ORAL TABLET 75 MG	\$0 (1)	^
SOFOSBUVIR-VELPATASVIR ORAL TABLET 400-100 MG	\$0 (1)	PA; QL (28 EA per 28 days); ^
STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG	\$0 (1)	^
SUNLENCA ORAL TABLET 300 MG, 300 MG (4-TABLET PACK)	\$0 (1)	^
SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG	\$0 (1)	
tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg	\$0 (1)	
TIVICAY ORAL TABLET 10 MG	\$0 (1)	
TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	\$0 (1)	^
TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG	\$0 (1)	^
TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG	\$0 (1)	^
TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 60-5-30 MG	\$0 (1)	
TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG	\$0 (1)	^
TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33 ML (150 MG/ML)	\$0 (1)	^
valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg	\$0 (1)	
valganciclovir oral recon soln 50 mg/ml	\$0 (1)	^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
valganciclovir oral tablet 450 mg	\$0 (1)	
VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG	\$0 (1)	^
VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG	\$0 (1)	^
VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM)	\$0 (1)	^
VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 250 MG	\$0 (1)	^
VIREAD ORAL TABLET 200 MG	\$0 (1)	
zidovudine oral capsule 100 mg	\$0 (1)	
zidovudine oral syrup 10 mg/ml	\$0 (1)	
zidovudine oral tablet 300 mg	\$0 (1)	
<b>एरथ्रोमाइसिन / अन्य म्याक्रोलाइड्स</b>		
azithromycin intravenous recon soln 500 mg	\$0 (1)	
azithromycin oral packet 1 gram	\$0 (1)	
azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml	\$0 (1)	
azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack), 500 mg, 500 mg (3 pack), 600 mg	\$0 (1)	
clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml	\$0 (1)	
clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
clarithromycin oral tablet extended release 24 hr 500 mg	\$0 (1)	
DIFICID ORAL TABLET 200 MG	\$0 (1)	QL (20 EA per 10 days); ^
ery-tab oral tablet, delayed release (dr/ec) 250 mg, 333 mg	\$0 (1)	
erythrocin (as stearate) oral tablet 250 mg	\$0 (1)	
ERYTHROCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG	\$0 (1)	
erythromycin oral capsule, delayed release (dr/ec) 250 mg	\$0 (1)	
erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
erythromycin oral tablet, delayed release (dr/ec) 250 mg, 333 mg, 500 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
<b>क्वनीलोन्स</b>		
ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (1)	
ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml	\$0 (1)	
ciprofloxacin oral suspension,microcapsule recon 500 mg/5 ml	\$0 (1)	
levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml	\$0 (1)	
levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml	\$0 (1)	
levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml	\$0 (1)	
levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (1)	
moxifloxacin oral tablet 400 mg	\$0 (1)	
moxifloxacin-sod.chloride(iso) intravenous piggyback 400 mg/250 ml	\$0 (1)	
<b>टेट्रासाइक्लिनिस</b>		
demeclocycline oral tablet 150 mg, 300 mg	\$0 (1)	
doxy-100 intravenous recon soln 100 mg	\$0 (1)	
doxycycline hyclate intravenous recon soln 100 mg	\$0 (1)	
doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg	\$0 (1)	
doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg	\$0 (1)	
doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg, 50 mg	\$0 (1)	
doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (1)	
minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (1)	
minocycline oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (1)	
tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
<b>पेन्सलिनिस</b>		
amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml	\$0 (1)	
amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg	\$0 (1)	
amoxicillin oral tablet,chewable 125 mg, 250 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 250-62.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml, 600-42.9 mg/5 ml	\$0 (1)	
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg	\$0 (1)	
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet extended release 12 hr 1,000-62.5 mg	\$0 (1)	
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg	\$0 (1)	
ampicillin oral capsule 500 mg	\$0 (1)	
ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 125 mg, 2 gram, 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
ampicillin sodium intravenous recon soln 1 gram, 2 gram	\$0 (1)	
ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram	\$0 (1)	
ampicillin-sulbactam intravenous recon soln 1.5 gram, 3 gram	\$0 (1)	
BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML	\$0 (1)	
dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
nafcillin in dextrose iso-osm intravenous piggyback 2 gram/100 ml	\$0 (1)	
nafcillin injection recon soln 1 gram, 2 gram	\$0 (1)	
nafcillin injection recon soln 10 gram	\$0 (1)	^
oxacillin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram	\$0 (1)	
PENICILLIN G POT IN DEXTROSE INTRAVENOUS PIGGYBACK 2 MILLION UNIT/50 ML, 3 MILLION UNIT/50 ML	\$0 (1)	
penicillin g potassium injection recon soln 20 million unit, 5 million unit	\$0 (1)	
penicillin g sodium injection recon soln 5 million unit	\$0 (1)	
penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
pfizerpen-g injection recon soln 20 million unit, 5 million unit	\$0 (1)	
piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 13.5 gram, 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram	\$0 (1)	
<b>मूत्रमार्गसम्बन्धी एजेन्टहू</b>		
methenamine hippurate oral tablet 1 gram	\$0 (1)	
nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 50 mg	\$0 (1)	
nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule 100 mg	\$0 (1)	
trimethoprim oral tablet 100 mg	\$0 (1)	
<b>वविधि एन्टिडिफेक्टि</b>		
albendazole oral tablet 200 mg	\$0 (1)	^
amikacin injection solution 1,000 mg/4 ml, 500 mg/2 ml	\$0 (1)	
ARIKAYCE INHALATION SUSPENSION FOR NEBULIZATION 590 MG/8.4 ML	\$0 (1)	PA; LA; ^
atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml	\$0 (1)	
atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg, 62.5-25 mg	\$0 (1)	
aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram	\$0 (1)	
CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML	\$0 (1)	PA; LA; QL (84 ML per 56 days); ^
chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg	\$0 (1)	
clindamycin in 5 % dextrose intravenous piggyback 300 mg/50 ml, 600 mg/50 ml, 900 mg/50 ml	\$0 (1)	
clindamycin phosphate injection solution 150 mg/ml	\$0 (1)	
COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG	\$0 (1)	
colistin (colistimethate na) injection recon soln 150 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 10 days)
dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg	\$0 (1)	
daptomycin intravenous recon soln 500 mg	\$0 (1)	^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025



दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
EMVERM ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG	\$0 (1)	^
ertapenem injection recon soln 1 gram	\$0 (1)	QL (14 EA per 14 days)
ethambutol oral tablet 100 mg, 400 mg	\$0 (1)	
gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 100 mg/100 ml, 60 mg/50 ml, 80 mg/100 ml, 80 mg/50 ml	\$0 (1)	
gentamicin injection solution 40 mg/ml	\$0 (1)	
gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution 20 mg/2 ml	\$0 (1)	
hydroxychloroquine oral tablet 200 mg	\$0 (1)	
imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
isoniazid oral solution 50 mg/5 ml	\$0 (1)	
isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg	\$0 (1)	
ivermectin oral tablet 3 mg	\$0 (1)	PA; QL (20 EA per 30 days)
linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml	\$0 (1)	
linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml	\$0 (1)	QL (1800 ML per 30 days); ^
linezolid oral tablet 600 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
linezolid-0.9% sodium chloride intravenous parenteral solution 600 mg/300 ml	\$0 (1)	
mefloquine oral tablet 250 mg	\$0 (1)	
meropenem intravenous recon soln 1 gram	\$0 (1)	QL (30 EA per 10 days)
meropenem intravenous recon soln 500 mg	\$0 (1)	QL (10 EA per 10 days)
metro i.v. intravenous piggyback 500 mg/100 ml	\$0 (1)	
metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml	\$0 (1)	
metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
neomycin oral tablet 500 mg	\$0 (1)	
nitazoxanide oral tablet 500 mg	\$0 (1)	QL (12 EA per 30 days); ^
pentamidine inhalation recon soln 300 mg	\$0 (1)	B/D; QL (1 EA per 28 days)
pentamidine injection recon soln 300 mg	\$0 (1)	
praziquantel oral tablet 600 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG	\$0 (1)	
PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG (15 MG BASE)	\$0 (1)	
pyrazinamide oral tablet 500 mg	\$0 (1)	
pyrimethamine oral tablet 25 mg	\$0 (1)	PA; ^
quinine sulfate oral capsule 324 mg	\$0 (1)	PA
rifabutin oral capsule 150 mg	\$0 (1)	
rifampin intravenous recon soln 600 mg	\$0 (1)	
rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg	\$0 (1)	
SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG	\$0 (1)	PA; LA; ^
STREPTOMYCIN INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1 GRAM	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
tigecycline intravenous recon soln 50 mg	\$0 (1)	^
tinidazole oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
tobramycin in 0.225 % nacl inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml	\$0 (1)	PA; QL (280 ML per 28 days); ^
tobramycin sulfate injection recon soln 1.2 gram	\$0 (1)	
tobramycin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml	\$0 (1)	
TRECTOR ORAL TABLET 250 MG	\$0 (1)	
VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM CHL INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/200 ML	\$0 (1)	QL (4000 ML per 10 days)
VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM CHL INTRAVENOUS PIGGYBACK 500 MG/100 ML	\$0 (1)	QL (1000 ML per 10 days)
VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM CHL INTRAVENOUS PIGGYBACK 750 MG/150 ML	\$0 (1)	QL (4050 ML per 10 days)
vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg	\$0 (1)	QL (20 EA per 10 days)
vancomycin intravenous recon soln 1.25 gram	\$0 (1)	QL (48 EA per 30 days)
vancomycin intravenous recon soln 1.5 gram	\$0 (1)	QL (42 EA per 30 days)
vancomycin intravenous recon soln 10 gram, 5 gram	\$0 (1)	QL (2 EA per 10 days)
vancomycin intravenous recon soln 500 mg	\$0 (1)	QL (10 EA per 10 days)
vancomycin intravenous recon soln 750 mg	\$0 (1)	QL (27 EA per 10 days)
vancomycin oral capsule 125 mg	\$0 (1)	QL (40 EA per 10 days)
vancomycin oral capsule 250 mg	\$0 (1)	QL (80 EA per 10 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days); ^
<b>सल्फास / सम्बन्धति एजेन्टहू</b>		
sulfadiazine oral tablet 500 mg	\$0 (1)	
sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution 400-80 mg/5 ml	\$0 (1)	
sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml	\$0 (1)	
sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg, 800-160 mg	\$0 (1)	
<b>सेफालोस्पोरनि स</b>		
cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
cefaclor oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml	\$0 (1)	
cefadroxil oral capsule 500 mg	\$0 (1)	
cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml	\$0 (1)	
cefazolin in dextrose (iso-os) intravenous piggyback 1 gram/50 ml	\$0 (1)	
cefazolin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 100 gram, 300 gram, 500 mg	\$0 (1)	
cefazolin intravenous recon soln 1 gram	\$0 (1)	
cefdinir oral capsule 300 mg	\$0 (1)	
cefdinir oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml	\$0 (1)	
cefepime in dextrose,iso-osm intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/100 ml	\$0 (1)	
cefepime injection recon soln 1 gram, 2 gram	\$0 (1)	
cefixime oral capsule 400 mg	\$0 (1)	
cefixime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml	\$0 (1)	
cefoxitin in dextrose, iso-osm intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml	\$0 (1)	
cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
cefepodoxime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 50 mg/5 ml	\$0 (1)	
cefepodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg	\$0 (1)	
cefprozil oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml	\$0 (1)	
cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram	\$0 (1)	
ceftriaxone in dextrose,iso-os intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml	\$0 (1)	
ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
ceftriaxone intravenous recon soln 1 gram, 2 gram	\$0 (1)	
cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg	\$0 (1)	
cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram	\$0 (1)	
cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml	\$0 (1)	
tazicef injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram	\$0 (1)	
tazicef intravenous recon soln 1 gram, 2 gram	\$0 (1)	
TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN 400 MG, 600 MG	\$0 (1)	^
<b>एन्टिबिओप्लास्टिक / इम्युनोसप्रेसन्ट औषधहिरू</b>		
<b>एन्टिबिओप्लास्टिक / इम्युनोसप्रेसन्ट औषधहिरू</b>		
abiraterone oral tablet 250 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)
abiraterone oral tablet 500 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (240 EA per 30 days); ^
ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK 90 MG (7)-180 MG (23)	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 180 days); ^
anastrozole oral tablet 1 mg	\$0 (1)	
AUGTYRO ORAL CAPSULE 160 MG, 40 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (240 EA per 30 days); ^
AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
azacitidine injection recon soln 100 mg	\$0 (1)	B/D; ^
azathioprine oral tablet 50 mg	\$0 (1)	B/D
BALVERSA ORAL TABLET 3 MG, 4 MG, 5 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; ^
BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	\$0 (1)	B/D; ^
bexarotene oral capsule 75 mg	\$0 (1)	PA-NS; ^
bexarotene topical gel 1 %	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 GM per 30 days); ^
bicalutamide oral tablet 50 mg	\$0 (1)	
BORTEZOMIB INJECTION RECON SOLN 1 MG, 2.5 MG	\$0 (1)	B/D; ^
bortezomib injection recon soln 3.5 mg	\$0 (1)	B/D; ^
BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (180 EA per 30 days); ^
BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (330 EA per 30 days); ^
BOSULIF ORAL TABLET 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (90 EA per 30 days); ^
BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 40 MG, 60 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयिर्	आवश्यकताएं/सीमाएं
CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
carboplatin intravenous solution 10 mg/ml	\$0 (1)	B/D
cisplatin intravenous solution 1 mg/ml	\$0 (1)	B/D
COLUMVI INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML	\$0 (1)	B/D; ^
COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1)	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (56 EA per 28 days); ^
COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3)	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (112 EA per 28 days); ^
COMETRIQ ORAL CAPSULE 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY)	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (84 EA per 28 days); ^
COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
COTELLIC ORAL TABLET 20 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (63 EA per 28 days); ^
cyclophosphamide intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 500 mg	\$0 (1)	B/D
cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	B/D
CYCLOPHOSPHAMIDE ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	\$0 (1)	B/D
cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	B/D
cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml	\$0 (1)	B/D
cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg	\$0 (1)	B/D
cytarabine injection solution 20 mg/ml	\$0 (1)	
dasatinib oral tablet 100 mg, 140 mg, 50 mg, 80 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
dasatinib oral tablet 20 mg, 70 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
DAURISMO ORAL TABLET 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
DAURISMO ORAL TABLET 25 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
docetaxel intravenous solution 160 mg/16 ml (10 mg/ml), 160 mg/8 ml (20 mg/ml), 20 mg/2 ml (10 mg/ml), 20 mg/ml (1 ml), 80 mg/4 ml (20 mg/ml), 80 mg/8 ml (10 mg/ml)	\$0 (1)	B/D; ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
doxorubicin intravenous solution 10 mg/5 ml, 2 mg/ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml	\$0 (1)	B/D
doxorubicin, peg-liposomal intravenous suspension 2 mg/ml	\$0 (1)	B/D; ^
DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG	\$0 (1)	
ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG	\$0 (1)	PA-NS
ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG	\$0 (1)	PA-NS
ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG	\$0 (1)	PA-NS
ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH)	\$0 (1)	PA-NS
ELLENC INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/100 ML, 50 MG/25 ML	\$0 (1)	B/D
ELREXFIO SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/ML	\$0 (1)	PA-NS; ^
ENVARUS XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 0.75 MG, 1 MG, 4 MG	\$0 (1)	B/D
EPKINLY SUBCUTANEOUS SOLUTION 4 MG/0.8 ML, 48 MG/0.8 ML	\$0 (1)	B/D; ^
ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
ERLEADA ORAL TABLET 240 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
ERLEADA ORAL TABLET 60 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
erlotinib oral tablet 100 mg, 150 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
erlotinib oral tablet 25 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (90 EA per 30 days); ^
etoposide intravenous solution 20 mg/ml	\$0 (1)	B/D
EULEXIN ORAL CAPSULE 125 MG	\$0 (1)	^
everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (150 EA per 30 days); ^
everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 3 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (90 EA per 30 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 5 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.25 mg	\$0 (1)	B/D
everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg	\$0 (1)	B/D; ^
exemestane oral tablet 25 mg	\$0 (1)	
EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG	\$0 (1)	PA-NS; ^
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG	\$0 (1)	PA-NS
fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 2.5 gram/50 ml, 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml	\$0 (1)	
FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days); ^
FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (84 EA per 28 days); ^
FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (21 EA per 28 days); ^
fulvestrant intramuscular syringe 250 mg/5 ml	\$0 (1)	B/D; ^
GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
gefitinib oral tablet 250 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
gemcitabine intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 200 mg	\$0 (1)	B/D
gemcitabine intravenous solution 1 gram/26.3 ml (38 mg/ml), 2 gram/52.6 ml (38 mg/ml), 200 mg/5.26 ml (38 mg/ml)	\$0 (1)	B/D
GEMCITABINE INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/ML	\$0 (1)	B/D
gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg	\$0 (1)	B/D
gengraf oral solution 100 mg/ml	\$0 (1)	B/D
GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
GLEOSTINE ORAL CAPSULE 10 MG, 40 MG	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025



दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
GLEOSTINE ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (1)	^
hydroxyurea oral capsule 500 mg	\$0 (1)	
IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days); ^
IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days); ^
ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 30 MG, 45 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
imatinib oral tablet 100 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (180 EA per 30 days); ^
imatinib oral tablet 400 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
IMBRUVICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (324 ML per 30 days); ^
IMBRUVICA ORAL TABLET 420 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
IMBRUVICA ORAL TABLET 560 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
INLYTA ORAL TABLET 1 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
INLYTA ORAL TABLET 5 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (5 EA per 28 days); ^
INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
irinotecan intravenous solution 100 mg/5 ml, 300 mg/15 ml, 40 mg/2 ml, 500 mg/25 ml	\$0 (1)	B/D
ITOVEBI ORAL TABLET 3 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
ITOVEBI ORAL TABLET 9 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
IWILFIN ORAL TABLET 192 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (240 EA per 30 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयिर्	आवश्यकताएं/सीमाएं
JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
JYLAMVO ORAL SOLUTION 2 MG/ML	\$0 (1)	
KADCYLA INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 160 MG	\$0 (1)	B/D; ^
KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	\$0 (1)	PA-NS; ^
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (49 EA per 30 days); ^
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (70 EA per 28 days); ^
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (91 EA per 28 days); ^
KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	\$0 (1)	PA-NS; QL (21 EA per 28 days); ^
KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2)	\$0 (1)	PA-NS; QL (42 EA per 28 days); ^
KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3)	\$0 (1)	PA-NS; QL (63 EA per 28 days); ^
KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG, 25 MG	\$0 (1)	PA-NS; ^
KRAZATI ORAL TABLET 200 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
lanreotide subcutaneous syringe 120 mg/0.5 ml	\$0 (1)	PA-NS; ^
lapatinib oral tablet 250 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (180 EA per 30 days); ^
LAZCLUZE ORAL TABLET 240 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
LAZCLUZE ORAL TABLET 80 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (28 EA per 28 days); ^
LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 4 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
LENVIMA ORAL CAPSULE 12 MG/DAY (4 MG X 3), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1)	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
LENVIMA ORAL CAPSULE 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 8 MG/DAY (4 MG X 2)	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
letrozole oral tablet 2.5 mg	\$0 (1)	
leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml	\$0 (1)	PA-NS
LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG, 20-8.19 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; ^
LORBRENA ORAL TABLET 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
LORBRENA ORAL TABLET 25 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (240 EA per 30 days); ^
LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (90 EA per 30 days); ^
LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG, 7.5 MG	\$0 (1)	PA-NS; ^
LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
LYSODREN ORAL TABLET 500 MG	\$0 (1)	^
LYTGOBI ORAL TABLET 12 MG/DAY (4 MG X 3)	\$0 (1)	PA-NS; QL (84 EA per 28 days); ^
LYTGOBI ORAL TABLET 16 MG/DAY (4 MG X 4)	\$0 (1)	PA-NS; QL (112 EA per 28 days); ^
LYTGOBI ORAL TABLET 20 MG/DAY (4 MG X 5)	\$0 (1)	PA-NS; QL (140 EA per 28 days); ^
MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG	\$0 (1)	LA; ^
megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (10 ml), 400 mg/10 ml (40 mg/ml), 625 mg/5 ml (125 mg/ml)	\$0 (1)	PA
megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	
MEKINIST ORAL RECON SOLN 0.05 MG/ML	\$0 (1)	PA-NS; QL (1200 ML per 30 days); ^
MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
MEKINIST ORAL TABLET 2 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
mercaptapurine oral tablet 50 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
methotrexate sodium (pf) injection recon soln 1 gram	\$0 (1)	B/D
methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml	\$0 (1)	B/D
methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml	\$0 (1)	B/D
methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg	\$0 (1)	
MONJUVI INTRAVENOUS RECON SOLN 200 MG	\$0 (1)	PA-NS; ^
mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg	\$0 (1)	B/D
mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution 200 mg/ml	\$0 (1)	B/D; ^
mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg	\$0 (1)	B/D
mycophenolate sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 180 mg, 360 mg	\$0 (1)	B/D
mycophenolic acid dr 180 mg tb	\$0 (1)	B/D; mycophenolate sodium = mycophenolic acid
mycophenolic acid dr 360 mg tb	\$0 (1)	B/D; mycophenolate sodium = mycophenolic acid
NERLYNX ORAL TABLET 40 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; ^
nilutamide oral tablet 150 mg	\$0 (1)	^
NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (3 EA per 28 days); ^
NUBEQA ORAL TABLET 300 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
NULOJIX INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG	\$0 (1)	^
octreotide acetate injection solution 1,000 mcg/ml, 500 mcg/ml	\$0 (1)	PA; ^
octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 mcg/ml	\$0 (1)	PA
octreotide acetate injection syringe 100 mcg/ml (1 ml), 50 mcg/ml (1 ml), 500 mcg/ml (1 ml)	\$0 (1)	PA
ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
OGSIVEO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (56 EA per 28 days); ^
OGSIVEO ORAL TABLET 50 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (180 EA per 30 days); ^
OJEMDA ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 25 MG/ML	\$0 (1)	PA-NS; QL (96 ML per 28 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
OJEMDA ORAL TABLET 400 MG/WEEK (100 MG X 4)	\$0 (1)	PA-NS; QL (16 EA per 28 days); ^
OJEMDA ORAL TABLET 500 MG/WEEK (100 MG X 5)	\$0 (1)	PA-NS; QL (20 EA per 28 days); ^
OJEMDA ORAL TABLET 600 MG/WEEK (100 MG X 6)	\$0 (1)	PA-NS; QL (24 EA per 28 days); ^
OJJAARA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (14 EA per 28 days)
ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 28 days); ^
ORSERDU ORAL TABLET 345 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
ORSERDU ORAL TABLET 86 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (90 EA per 30 days); ^
oxaliplatin intravenous recon soln 100 mg, 50 mg	\$0 (1)	B/D
oxaliplatin intravenous solution 100 mg/20 ml, 200 mg/40 ml, 50 mg/10 ml (5 mg/ml)	\$0 (1)	B/D
paclitaxel intravenous concentrate 6 mg/ml	\$0 (1)	B/D
paraplatin intravenous solution 10 mg/ml	\$0 (1)	B/D
pazopanib oral tablet 200 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (120 EA per 30 days); ^
PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (28 EA per 28 days); ^
pemetrexed disodium intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (1)	B/D; ^
pemetrexed disodium intravenous recon soln 100 mg	\$0 (1)	B/D
PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	\$0 (1)	PA-NS; QL (28 EA per 28 days); ^
PIQRAY ORAL TABLET 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2)	\$0 (1)	PA-NS; QL (56 EA per 28 days); ^
POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days); ^
PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET 0.2 MG, 1 MG	\$0 (1)	B/D
PURIXAN ORAL SUSPENSION 20 MG/ML	\$0 (1)	^
QINLOCK ORAL TABLET 50 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
RETEVMO ORAL TABLET 120 MG, 160 MG, 80 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
RETEVMO ORAL TABLET 40 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
REZUROCK ORAL TABLET 200 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (150 EA per 30 days); ^
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET 50 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (336 EA per 28 days); ^
RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (1)	PA-NS; ^
RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (224 EA per 28 days); ^
SANDIMMUNE ORAL SOLUTION 100 MG/ML	\$0 (1)	B/D
SCEMBLIX ORAL TABLET 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (120 EA per 30 days); ^
SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (300 EA per 30 days); ^
SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML)	\$0 (1)	PA; LA; ^
sirolimus oral solution 1 mg/ml	\$0 (1)	B/D; ^
sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (1)	B/D
SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML	\$0 (1)	
SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/0.2 ML, 90 MG/0.3 ML	\$0 (1)	PA-NS; ^
sorafenib oral tablet 200 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (120 EA per 30 days); ^
SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG, 50 MG, 80 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
SPRYCEL ORAL TABLET 20 MG, 70 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
STIVARGA ORAL TABLET 40 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (84 EA per 28 days); ^
sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg	\$0 (1)	PA-NS; QL (28 EA per 28 days); ^
TABLOID ORAL TABLET 40 MG	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	\$0 (1)	PA-NS; ^
tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg	\$0 (1)	B/D
TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION 10 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (840 EA per 28 days); ^
TAGRISSE ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
TALVEY SUBCUTANEOUS SOLUTION 2 MG/ML, 40 MG/ML	\$0 (1)	PA-NS; ^
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.35 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.25 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (1)	
TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (112 EA per 28 days); ^
TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (120 EA per 30 days); ^
TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; ^
TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION 1,200 MG/20 ML (60 MG/ML), 840 MG/14 ML (60 MG/ML)	\$0 (1)	B/D; ^
TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; ^
THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 50 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (28 EA per 28 days); ^
THALOMID ORAL CAPSULE 200 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (56 EA per 28 days); ^
TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; ^
toremifene oral tablet 60 mg	\$0 (1)	
TRAZIMERA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG	\$0 (1)	B/D; ^
tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg	\$0 (1)	^
TRUQAP ORAL TABLET 160 MG, 200 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (64 EA per 28 days); ^
TUKYSA ORAL TABLET 150 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
TUKYSA ORAL TABLET 50 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (300 EA per 30 days); ^
TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (56 EA per 28 days); ^
VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (14 EA per 7 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (7 EA per 7 days); ^
VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (42 EA per 180 days); ^
VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
vincristine intravenous solution 1 mg/ml, 2 mg/2 ml	\$0 (1)	
vinorelbine intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5 ml	\$0 (1)	B/D
VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (300 ML per 30 days); ^
VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
VONJO ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
VORANIGO ORAL TABLET 10 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 EA per 30 days); ^
VORANIGO ORAL TABLET 40 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (30 EA per 30 days); ^
WELIREG ORAL TABLET 40 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; ^
XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
XALKORI ORAL PELLETT 150 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (180 EA per 30 days); ^
XALKORI ORAL PELLETT 20 MG, 50 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (120 EA per 30 days); ^
XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML	\$0 (1)	
XERMELO ORAL TABLET 250 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (84 EA per 28 days); ^
XOSPATA ORAL TABLET 40 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025



दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (20 MG X 5), 40MG TWICE WEEK (80 MG/WEEK), 80 MG/WEEK (20 MG X 4)	\$0 (1)	PA-NS; QL (8 EA per 28 days); ^
XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2)	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (8 EA per 28 days); ^
XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (20 MG X 2), 60 MG/WEEK (20 MG X 3)	\$0 (1)	PA-NS; QL (4 EA per 28 days); ^
XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1)	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (4 EA per 28 days); ^
XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK)	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (24 EA per 28 days); ^
XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK)	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (32 EA per 28 days); ^
XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
XTANDI ORAL TABLET 40 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days); ^
XTANDI ORAL TABLET 80 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
ZEJULA ORAL TABLET 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
ZEJULA ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (240 EA per 30 days); ^
ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	\$0 (1)	B/D; ^
ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (1)	PA-NS; QL (120 EA per 30 days); ^
ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
<b>सहायक एजेन्टहू</b>		
leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg	\$0 (1)	
MESNEX ORAL TABLET 400 MG	\$0 (1)	^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML)	\$0 (1)	B/D; ^
<b>कान, नाक / घाँटीको औषधि</b>		
<b>ओटक सिस्टेरोइड / एन्टिबायोटिक</b>		
ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension 0.3-0.1 %	\$0 (1)	QL (7.5 ML per 7 days)
neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%	\$0 (1)	
neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%	\$0 (1)	
<b>विविध एजेन्टहरू</b>		
azelastine nasal spray,non-aerosol 137 mcg (0.1 %), 205.5 mcg (0.15 %)	\$0 (1)	QL (60 ML per 30 days)
chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash 0.12 %	\$0 (1)	
ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 21 mcg (0.03 %)	\$0 (1)	QL (30 ML per 30 days)
ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 42 mcg (0.06 %)	\$0 (1)	QL (45 ML per 30 days)
kourzeq dental paste 0.1 %	\$0 (1)	
olopatadine nasal spray,non-aerosol 0.6 %	\$0 (1)	
periogard mucous membrane mouthwash 0.12 %	\$0 (1)	
triamcinolone acetonide dental paste 0.1 %	\$0 (1)	
<b>विविध ओटक तयारीहरू</b>		
acetic acid otic (ear) solution 2 %	\$0 (1)	
flac otic oil otic (ear) drops 0.01 %	\$0 (1)	
fluocinolone acetonide oil otic (ear) drops 0.01 %	\$0 (1)	
ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %	\$0 (1)	
<b>कार्डियोभास्कुलर, हाइपरटेन्सन / लपिडिस</b>		
<b>एन्टिअरिथमिक एजेन्टहरू</b>		
amiodarone intravenous solution 50 mg/ml	\$0 (1)	
amiodarone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg	\$0 (1)	
disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg	\$0 (1)	
flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg	\$0 (1)	
mexiletine oral capsule 150 mg, 200 mg, 250 mg	\$0 (1)	
MULTAQ ORAL TABLET 400 MG	\$0 (1)	
pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg	\$0 (1)	
propafenone oral capsule,extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg	\$0 (1)	
propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg	\$0 (1)	
quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg	\$0 (1)	
sorine oral tablet 240 mg, 80 mg	\$0 (1)	
sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg	\$0 (1)	
sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg	\$0 (1)	
<b>एन्टिहाइपरटेन्सिभ थेरापी</b>		
acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg	\$0 (1)	
aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg	\$0 (1)	
amiloride oral tablet 5 mg	\$0 (1)	
amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg	\$0 (1)	
amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	
amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg	\$0 (1)	
amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
amlodipine-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
amlodipine-valsartan-hcthiiazid oral tablet 10-160- 12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg, 50-25 mg	\$0 (1)	
benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	\$0 (1)	
benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg, 5-6.25 mg	\$0 (1)	
betaxolol oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	
bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg	\$0 (1)	
bumetanide injection solution 0.25 mg/ml	\$0 (1)	
bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (1)	
candesartan oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
candesartan oral tablet 32 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 16-12.5 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 32-12.5 mg, 32-25 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
captopril-hydrochlorothiazide oral tablet 25-15 mg, 25-25 mg, 50-15 mg, 50-25 mg	\$0 (1)	
cartia xt oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg	\$0 (1)	
carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg	\$0 (1)	
chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg	\$0 (1)	
clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24 hr, 0.2 mg/24 hr, 0.3 mg/24 hr	\$0 (1)	
diltiazem hcl intravenous solution 5 mg/ml	\$0 (1)	
diltiazem hcl oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg	\$0 (1)	
diltiazem hcl oral capsule,extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg	\$0 (1)	
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	\$0 (1)	
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg	\$0 (1)	
diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg	\$0 (1)	
diltiazem hcl oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
dilt-xr oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg	\$0 (1)	
doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (1)	
EDARBI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
EDARBYCLOR ORAL TABLET 40-12.5 MG, 40-25 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (1)	
enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-12.5 mg	\$0 (1)	
eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
felodipine oral tablet extended release 24 hr 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	
fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	
fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg	\$0 (1)	
furosemide injection solution 10 mg/ml	\$0 (1)	
furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)	\$0 (1)	
furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (1)	
guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (1)	
hydralazine injection solution 20 mg/ml	\$0 (1)	
hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg	\$0 (1)	
hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg	\$0 (1)	
irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 300-12.5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	
KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg	\$0 (1)	
lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg	\$0 (1)	
losartan oral tablet 100 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
losartan oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 50-12.5 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
matzim la oral tablet extended release 24 hr 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	\$0 (1)	
metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	
metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg	\$0 (1)	
metoprolol tartrate intravenous solution 5 mg/5 ml	\$0 (1)	
metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (1)	
metyrosine oral capsule 250 mg	\$0 (1)	PA; ^
minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg	\$0 (1)	
moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg	\$0 (1)	
nadolol oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (1)	
nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
nebivolol oral tablet 20 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
nicardipine oral capsule 20 mg, 30 mg	\$0 (1)	
nifedipine oral tablet extended release 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg	\$0 (1)	
nifedipine oral tablet extended release 30 mg, 60 mg, 90 mg	\$0 (1)	
nimodipine oral capsule 30 mg	\$0 (1)	
olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
olmesartan oral tablet 5 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
olmesartan-amlodipin-hcthiazyd oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
olmesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (1)	
pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	
prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (1)	
propranolol oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg	\$0 (1)	
propranolol oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml), 40 mg/5 ml (8 mg/ml)	\$0 (1)	
propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg	\$0 (1)	
quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	\$0 (1)	
quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg	\$0 (1)	
ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	
spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
spironolacton-hydrochlorothiaz oral tablet 25-25 mg	\$0 (1)	
taztia xt oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg	\$0 (1)	
telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
telmisartan-amlodipine oral tablet 40-10 mg, 40-5 mg, 80-10 mg, 80-5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 40-12.5 mg, 80-25 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 80-12.5 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (1)	
tiadyt er oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	\$0 (1)	
timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (1)	
torse mide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg	\$0 (1)	
treprostinil sodium injection solution 1 mg/ml, 10 mg/ml, 2.5 mg/ml, 5 mg/ml	\$0 (1)	PA; ^
triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg	\$0 (1)	
triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg	\$0 (1)	
valsartan oral tablet 160 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
valsartan oral tablet 320 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
verapamil intravenous solution 2.5 mg/ml	\$0 (1)	
verapamil intravenous syringe 2.5 mg/ml	\$0 (1)	
verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct 100 mg, 200 mg, 300 mg	\$0 (1)	
verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 360 mg	\$0 (1)	
verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (1)	
verapamil oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg	\$0 (1)	
<b>कोगुलेशन थेरापी</b>		
aspirin-dipyridamole oral capsule, er multiphase 12 hr 25-200 mg	\$0 (1)	
BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG	\$0 (1)	
cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg	\$0 (1)	
clopidogrel oral tablet 75 mg	\$0 (1)	
dabigatran etexilate oral capsule 110 mg, 150 mg, 75 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (1)	
DOPTELET (10 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	\$0 (1)	PA; LA; ^
DOPTELET (15 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	\$0 (1)	PA; LA; ^
DOPTELET (30 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	\$0 (1)	PA; LA; ^
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS)	\$0 (1)	QL (74 EA per 180 days)
ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025



दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG	\$0 (1)	QL (74 EA per 30 days)
enoxaparin subcutaneous solution 300 mg/3 ml	\$0 (1)	
enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 120 mg/0.8 ml, 150 mg/ml, 30 mg/0.3 ml, 40 mg/0.4 ml, 60 mg/0.6 ml, 80 mg/0.8 ml	\$0 (1)	
fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml, 5 mg/0.4 ml, 7.5 mg/0.6 ml	\$0 (1)	^
fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml	\$0 (1)	
heparin (porcine) in 5 % dex intravenous parenteral solution 20,000 unit/500 ml (40 unit/ml), 25,000 unit/250 ml(100 unit/ml), 25,000 unit/500 ml (50 unit/ml)	\$0 (1)	
heparin (porcine) injection solution 1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000 unit/ml, 5,000 unit/ml	\$0 (1)	
HEPARIN(PORCINE) IN 0.45% NACL INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 12,500 UNIT/250 ML	\$0 (1)	
heparin(porcine) in 0.45% nacl intravenous parenteral solution 25,000 unit/250 ml, 25,000 unit/500 ml	\$0 (1)	
jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg	\$0 (1)	
pentoxifylline oral tablet extended release 400 mg	\$0 (1)	
prasugrel oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 12.5 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (360 EA per 30 days); ^
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 25 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (180 EA per 30 days); ^
PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg	\$0 (1)	
XARELTO DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 15 MG (42)- 20 MG (9)	\$0 (1)	QL (51 EA per 180 days)
XARELTO ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1 MG/ML	\$0 (1)	QL (775 ML per 28 days)
XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 15 MG, 2.5 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
<b>नाइट्रेट्स</b>		
isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	\$0 (1)	
isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (1)	
isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg	\$0 (1)	
nitro-bid transdermal ointment 2 %	\$0 (1)	
nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg	\$0 (1)	
nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr	\$0 (1)	
<b>लपिडि/कोलेस्ट्रॉल घटाउने एजेन्टहू</b>		
amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
cholestyramine (with sugar) oral powder 4 gram	\$0 (1)	
cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4 gram	\$0 (1)	
cholestyramine light oral powder 4 gram	\$0 (1)	
cholestyramine light oral powder in packet 4 gram	\$0 (1)	
cholestyramine-aspartame oral powder in packet 4 gram	\$0 (1)	
colesevelam oral powder in packet 3.75 gram	\$0 (1)	
colesevelam oral tablet 625 mg	\$0 (1)	
colestipol oral granules 5 gram	\$0 (1)	
colestipol oral packet 5 gram	\$0 (1)	
colestipol oral tablet 1 gram	\$0 (1)	
ezetimibe oral tablet 10 mg	\$0 (1)	
ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg, 43 mg, 67 mg	\$0 (1)	
fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg	\$0 (1)	
fenofibric acid (choline) oral capsule, delayed release(dr/ec) 135 mg, 45 mg	\$0 (1)	
fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
fluvastatin oral tablet extended release 24 hr 80 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
gemfibrozil oral tablet 600 mg	\$0 (1)	
lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (1)	
pitavastatin calcium oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
PRALUENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML	\$0 (1)	PA
pravastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
prevalite oral powder 4 gram	\$0 (1)	
prevalite oral powder in packet 4 gram	\$0 (1)	
rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg, 80 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GRAM, 1 GRAM	\$0 (1)	
<b>वविधि कार्डियोभास्कुलर एजेन्टहरू</b>		
CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML	\$0 (1)	QL (450 ML per 30 days)
CORLANOR ORAL TABLET 5 MG, 7.5 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
digoxin oral solution 50 mcg/ml (0.05 mg/ml)	\$0 (1)	
digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg), 62.5 mcg (0.0625 mg)	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-103 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
ivabradine oral tablet 5 mg, 7.5 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
ranolazine oral tablet extended release 12 hr 1,000 mg, 500 mg	\$0 (1)	
VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
VYNDAQEL ORAL CAPSULE 20 MG	\$0 (1)	PA

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
<b>ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी</b>		
<b>अल्सर थेरापी</b>		
dexlansoprazole oral capsule,biphase delayed releas 30 mg, 60 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
esomeprazole magnesium oral capsule,delayed release(dr/ec) 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
famotidine (pf) intravenous solution 20 mg/2 ml	\$0 (1)	
famotidine (pf)-nacl (iso-os) intravenous piggyback 20 mg/50 ml	\$0 (1)	
famotidine intravenous solution 10 mg/ml	\$0 (1)	
famotidine oral suspension for reconstitution 40 mg/5 ml (8 mg/ml)	\$0 (1)	
famotidine oral tablet 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	
lansoprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 15 mg, 30 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg	\$0 (1)	
nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg	\$0 (1)	
omeprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
pantoprazole intravenous recon soln 40 mg	\$0 (1)	
pantoprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
rabeprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 20 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
sucralfate oral suspension 100 mg/ml	\$0 (1)	
sucralfate oral tablet 1 gram	\$0 (1)	
<b>एन्टडायरयिल / एन्टसिपास्मोडक्स</b>		
dicyclomine oral capsule 10 mg	\$0 (1)	
dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml	\$0 (1)	
dicyclomine oral tablet 20 mg	\$0 (1)	
diphenoxylate-atropine oral liquid 2.5-0.025 mg/5 ml	\$0 (1)	
diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg	\$0 (1)	
glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
loperamide oral capsule 2 mg	\$0 (1)	
<b>वविधि ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल एजेन्टहू</b>		
alose tron oral tablet 0.5 mg	\$0 (1)	PA; QL (60 EA per 30 days)
alose tron oral tablet 1 mg	\$0 (1)	PA; QL (60 EA per 30 days); ^
aprepitant oral capsule 125 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (1)	B/D
aprepitant oral capsule,dose pack 125 mg (1)- 80 mg (2)	\$0 (1)	B/D
balsalazide oral capsule 750 mg	\$0 (1)	
betaine oral powder 1 gram/scoop	\$0 (1)	LA; ^
budesonide oral capsule,delayed,extend.release 3 mg	\$0 (1)	
budesonide oral tablet,delayed and ext.release 9 mg	\$0 (1)	PA; QL (30 EA per 30 days); ^
compro rectal suppository 25 mg	\$0 (1)	
constulose oral solution 10 gram/15 ml	\$0 (1)	
CREON ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000 -60,000 UNIT, 24,000-76,000 -120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000 UNIT, 36,000-114,000-180,000 UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT	\$0 (1)	
cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml	\$0 (1)	
dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	B/D; QL (60 EA per 30 days)
enulose oral solution 10 gram/15 ml	\$0 (1)	
GATTEX 30-VIAL SUBCUTANEOUS KIT 5 MG	\$0 (1)	PA; LA; ^
GATTEX ONE-VIAL SUBCUTANEOUS KIT 5 MG	\$0 (1)	PA; ^
gavilyte-c oral recon soln 240-22.72-6.72 -5.84 gram	\$0 (1)	
gavilyte-g oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram	\$0 (1)	
generlac oral solution 10 gram/15 ml	\$0 (1)	
granisetron (pf) intravenous solution 1 mg/ml (1 ml)	\$0 (1)	
granisetron hcl intravenous solution 1 mg/ml, 1 mg/ml (1 ml)	\$0 (1)	
granisetron hcl oral tablet 1 mg	\$0 (1)	B/D
hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
hydrocortisone topical cream with perineal applicator 1 %, 2.5 %	\$0 (1)	
INFLECTRA INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	\$0 (1)	PA; QL (20 EA per 30 days); ^
lactulose oral solution 10 gram/15 ml, 10 gram/15 ml (15 ml), 20 gram/30 ml	\$0 (1)	
LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
lubiprostone oral capsule 24 mcg, 8 mcg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
meclizine oral tablet 12.5 mg, 25 mg	\$0 (1)	
mesalamine oral capsule (with del rel tablets) 400 mg	\$0 (1)	
mesalamine oral capsule,extended release 24hr 0.375 gram	\$0 (1)	
mesalamine oral tablet,delayed release (dr/ec) 1.2 gram, 800 mg	\$0 (1)	
mesalamine rectal enema 4 gram/60 ml	\$0 (1)	
mesalamine rectal suppository 1,000 mg	\$0 (1)	
mesalamine with cleansing wipe rectal enema kit 4 gram/60 ml	\$0 (1)	
metoclopramide hcl injection solution 5 mg/ml	\$0 (1)	
metoclopramide hcl injection syringe 5 mg/ml	\$0 (1)	
metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml	\$0 (1)	
metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	
MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
nitroglycerin rectal ointment 0.4 % (w/w)	\$0 (1)	QL (30 GM per 30 days)
OICALIVA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
ondansetron hcl (pf) injection solution 4 mg/2 ml	\$0 (1)	
ondansetron hcl (pf) injection syringe 4 mg/2 ml	\$0 (1)	
ondansetron hcl intravenous solution 2 mg/ml	\$0 (1)	
ondansetron hcl oral solution 4 mg/5 ml	\$0 (1)	
ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg	\$0 (1)	
ondansetron oral tablet,disintegrating 4 mg, 8 mg	\$0 (1)	
peg 3350-electrolytes oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
peg-electrolyte soln oral recon soln 420 gram	\$0 (1)	
PLENVU ORAL POWDER IN PACKET, SEQUENTIAL 140-9-5.2 GRAM	\$0 (1)	
prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml)	\$0 (1)	
prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	
prochlorperazine rectal suppository 25 mg	\$0 (1)	
procto-med hc topical cream with perineal applicator 2.5 %	\$0 (1)	
proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %	\$0 (1)	
proctozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %	\$0 (1)	
RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 % (W/W)	\$0 (1)	QL (30 GM per 30 days)
scopolamine base transdermal patch 3 day 1 mg over 3 days	\$0 (1)	PA; QL (10 EA per 30 days)
SKYRIZI INTRAVENOUS SOLUTION 60 MG/ML	\$0 (1)	PA; QL (30 ML per 180 days); ^
SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 180 MG/1.2 ML (150 MG/ML)	\$0 (1)	PA; QL (1.2 ML per 56 days); ^
SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 360 MG/2.4 ML (150 MG/ML)	\$0 (1)	PA; QL (2.4 ML per 56 days); ^
sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram, 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack (480ml)	\$0 (1)	
SUCRAID ORAL SOLUTION 8,500 UNIT/ML	\$0 (1)	PA; ^
sulfasalazine oral tablet 500 mg	\$0 (1)	
sulfasalazine oral tablet,delayed release (dr/ec) 500 mg	\$0 (1)	
SUPREP BOWEL PREP KIT ORAL RECON SOLN 17.5-3.13-1.6 GRAM	\$0 (1)	
TRULANCE ORAL TABLET 3 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
ursodiol oral capsule 300 mg	\$0 (1)	
ursodiol oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
VOWST ORAL CAPSULE	\$0 (1)	PA; LA; ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
ZENPEP ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 -42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000 UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000- 105,000 UNIT, 3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000- 126,000- 168,000 UNIT, 5,000-17,000- 24,000 UNIT, 60,000-189,600- 252,600 UNIT	\$0 (1)	
<b>डर्माटोलोजिकिल्स/टोपकिल थेरापी</b>		
<b>एन्टिप्सोरियाटिक / एन्टिसिबोरहाइक</b>		
acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg	\$0 (1)	
calcipotriene scalp solution 0.005 %	\$0 (1)	QL (120 ML per 30 days)
calcipotriene topical ointment 0.005 %	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
COSENTYX (2 SYRINGES) SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	\$0 (1)	PA; QL (10 ML per 28 days); ^
COSENTYX PEN (2 PENS) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML	\$0 (1)	PA; QL (10 ML per 28 days); ^
COSENTYX PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML	\$0 (1)	PA; QL (10 ML per 28 days); ^
COSENTYX SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	\$0 (1)	PA; QL (10 ML per 28 days); ^
COSENTYX SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML	\$0 (1)	PA; QL (2.5 ML per 28 days); ^
COSENTYX UNOREADY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML (150 MG/ML)	\$0 (1)	PA; QL (10 ML per 28 days); ^
selenium sulfide topical lotion 2.5 %	\$0 (1)	
SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML	\$0 (1)	PA; QL (6 ML per 365 days); ^
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	\$0 (1)	PA; QL (6 ML per 365 days); ^
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML	\$0 (1)	PA; QL (0.5 ML per 28 days); ^
STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML	\$0 (1)	PA; QL (0.5 ML per 28 days); ^
STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/ML	\$0 (1)	PA; QL (1 ML per 28 days); ^
TREMFYA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/2 ML	\$0 (1)	PA; QL (2 ML per 28 days); ^
TREMFYA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML	\$0 (1)	PA; QL (2 ML per 28 days); ^
TREMFYA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML, 200 MG/2 ML	\$0 (1)	PA; QL (2 ML per 28 days); ^
<b>टोपकिल एन्टिफिङ्गल्स</b>		
ciclopirox topical cream 0.77 %	\$0 (1)	QL (90 GM per 28 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025



दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
ciclopirox topical gel 0.77 %	\$0 (1)	QL (100 GM per 28 days)
ciclopirox topical suspension 0.77 %	\$0 (1)	QL (60 ML per 28 days)
clotrimazole topical cream 1 %	\$0 (1)	QL (45 GM per 28 days)
clotrimazole topical solution 1 %	\$0 (1)	QL (30 ML per 28 days)
clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %	\$0 (1)	QL (45 GM per 28 days)
clotrimazole-betamethasone topical lotion 1-0.05 %	\$0 (1)	QL (60 ML per 28 days)
ketoconazole topical cream 2 %	\$0 (1)	QL (60 GM per 28 days)
ketoconazole topical shampoo 2 %	\$0 (1)	QL (120 ML per 28 days)
klayesta topical powder 100,000 unit/gram	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
naftifine topical cream 1 %	\$0 (1)	QL (90 GM per 28 days)
naftifine topical cream 2 %	\$0 (1)	QL (60 GM per 28 days)
naftifine topical gel 2 %	\$0 (1)	QL (60 GM per 28 days)
nyamyc topical powder 100,000 unit/gram	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
nystatin topical cream 100,000 unit/gram	\$0 (1)	QL (30 GM per 28 days)
nystatin topical ointment 100,000 unit/gram	\$0 (1)	QL (30 GM per 28 days)
nystatin topical powder 100,000 unit/gram	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
nystop topical powder 100,000 unit/gram	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
<b>टोपिकल एन्टिबियाक्टेरियल्स</b>		
gentamicin topical cream 0.1 %	\$0 (1)	QL (30 GM per 30 days)
gentamicin topical ointment 0.1 %	\$0 (1)	QL (30 GM per 30 days)
mupirocin topical ointment 2 %	\$0 (1)	QL (44 GM per 30 days)
sulfacetamide sodium (acne) topical suspension 10 %	\$0 (1)	
<b>टोपिकल कोर्टिकोस्टेरोइड्स</b>		
ala-cort topical cream 1 %	\$0 (1)	
alclometasone topical cream 0.05 %	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
alclometasone topical ointment 0.05 %	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %	\$0 (1)	QL (135 GM per 30 days)
betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %	\$0 (1)	QL (120 ML per 30 days)
betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %	\$0 (1)	QL (135 GM per 30 days)
betamethasone valerate topical cream 0.1 %	\$0 (1)	QL (135 GM per 30 days)
betamethasone valerate topical lotion 0.1 %	\$0 (1)	QL (120 ML per 30 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
betamethasone valerate topical ointment 0.1 %	\$0 (1)	QL (135 GM per 30 days)
betamethasone, augmented topical cream 0.05 %	\$0 (1)	QL (150 GM per 30 days)
betamethasone, augmented topical gel 0.05 %	\$0 (1)	QL (150 GM per 30 days)
betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %	\$0 (1)	QL (120 ML per 30 days)
betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %	\$0 (1)	QL (150 GM per 30 days)
clobetasol scalp solution 0.05 %	\$0 (1)	QL (100 ML per 28 days)
clobetasol topical cream 0.05 %	\$0 (1)	QL (120 GM per 28 days)
clobetasol topical gel 0.05 %	\$0 (1)	QL (60 GM per 28 days)
clobetasol topical ointment 0.05 %	\$0 (1)	QL (120 GM per 28 days)
clobetasol topical shampoo 0.05 %	\$0 (1)	QL (118 ML per 28 days)
clobetasol-emollient topical cream 0.05 %	\$0 (1)	QL (120 GM per 28 days)
clodan topical shampoo 0.05 %	\$0 (1)	QL (118 ML per 28 days)
desonide topical lotion 0.05 %	\$0 (1)	QL (118 ML per 30 days)
fluocinolone and shower cap scalp oil 0.01 %	\$0 (1)	QL (118.28 ML per 30 days)
fluocinolone topical cream 0.01 %, 0.025 %	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
fluocinolone topical oil 0.01 %	\$0 (1)	QL (118.28 ML per 30 days)
fluocinolone topical ointment 0.025 %	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
fluocinolone topical solution 0.01 %	\$0 (1)	QL (120 ML per 30 days)
fluocinonide topical cream 0.05 %	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
fluocinonide topical gel 0.05 %	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
fluocinonide topical ointment 0.05 %	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
fluocinonide topical solution 0.05 %	\$0 (1)	QL (120 ML per 30 days)
fluocinonide-e topical cream 0.05 %	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
fluocinonide-emollient topical cream 0.05 %	\$0 (1)	QL (120 GM per 30 days)
fluticasone propionate topical cream 0.05 %	\$0 (1)	
halobetasol propionate topical cream 0.05 %	\$0 (1)	QL (100 GM per 30 days)
halobetasol propionate topical ointment 0.05 %	\$0 (1)	QL (100 GM per 30 days)
hydrocortisone topical cream 1 %, 2.5 %	\$0 (1)	
hydrocortisone topical lotion 2 %, 2.5 %	\$0 (1)	
hydrocortisone topical ointment 2.5 %	\$0 (1)	
mometasone topical cream 0.1 %	\$0 (1)	
mometasone topical ointment 0.1 %	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
mometasone topical solution 0.1 %	\$0 (1)	
triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %	\$0 (1)	
triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %	\$0 (1)	
triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %	\$0 (1)	
triderm topical cream 0.5 %	\$0 (1)	
<b>टोपिकल स्क्वाबसिाइड्स / पेडिक्युलसिाइड्स</b>		
malathion topical lotion 0.5 %	\$0 (1)	
permethrin topical cream 5 %	\$0 (1)	QL (60 GM per 30 days)
<b>मुँहासेका लाग थिरेपी</b>		
acutane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	\$0 (1)	
adapalene topical cream 0.1 %	\$0 (1)	QL (45 GM per 30 days)
adapalene topical gel 0.3 %	\$0 (1)	QL (45 GM per 30 days)
adapalene topical gel with pump 0.3 %	\$0 (1)	QL (45 GM per 30 days)
amnestem oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (1)	
azelaic acid topical gel 15 %	\$0 (1)	QL (50 GM per 30 days)
claravis oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	\$0 (1)	
clindamycin phosphate topical gel 1 %	\$0 (1)	QL (75 GM per 30 days)
clindamycin phosphate topical gel, once daily 1 %	\$0 (1)	QL (75 ML per 30 days)
clindamycin phosphate topical lotion 1 %	\$0 (1)	QL (60 ML per 30 days)
clindamycin phosphate topical solution 1 %	\$0 (1)	QL (60 ML per 30 days)
clindamycin phosphate topical swab 1 %	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1.2 % (1 % base) -5 %	\$0 (1)	QL (45 GM per 30 days)
clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1-5 %	\$0 (1)	QL (50 GM per 30 days)
clindamycin-benzoyl peroxide topical gel with pump 1-5 %	\$0 (1)	QL (50 GM per 30 days)
ery pads topical swab 2 %	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
erythromycin with ethanol topical solution 2 %	\$0 (1)	QL (60 ML per 30 days)
erythromycin-benzoyl peroxide topical gel 3-5 %	\$0 (1)	
isotretinoin oral capsule 10 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
metronidazole topical cream 0.75 %	\$0 (1)	QL (45 GM per 30 days)
metronidazole topical gel 0.75 %	\$0 (1)	QL (45 GM per 30 days)
metronidazole topical lotion 0.75 %	\$0 (1)	QL (59 ML per 30 days)
myorisan oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	\$0 (1)	
neuac topical gel 1.2 %(1 % base) -5 %	\$0 (1)	QL (45 GM per 30 days)
tazarotene topical cream 0.1 %	\$0 (1)	PA; QL (60 GM per 30 days)
tazarotene topical gel 0.05 %, 0.1 %	\$0 (1)	PA
tretinoin microspheres topical gel 0.04 %, 0.1 %	\$0 (1)	PA; QL (50 GM per 30 days)
tretinoin microspheres topical gel with pump 0.04 %, 0.1 %	\$0 (1)	PA; QL (50 GM per 30 days)
tretinoin topical cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %	\$0 (1)	PA; QL (45 GM per 30 days)
tretinoin topical gel 0.01 %, 0.025 %, 0.05 %	\$0 (1)	PA; QL (45 GM per 30 days)
zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	\$0 (1)	
<b>वविधि डर्माटोलोजकिल्स</b>		
ammonium lactate topical cream 12 %	\$0 (1)	
ammonium lactate topical lotion 12 %	\$0 (1)	
dermacinrx lidocan topical adhesive patch,medicated 5 %	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days)
DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/1.14 ML	\$0 (1)	PA; QL (4.56 ML per 28 days); ^
DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML	\$0 (1)	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML	\$0 (1)	PA; QL (1.5 ML per 30 days); ^
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/1.14 ML	\$0 (1)	PA; QL (4.56 ML per 28 days); ^
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/2 ML	\$0 (1)	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
fluorouracil topical cream 5 %	\$0 (1)	QL (40 GM per 30 days)
fluorouracil topical solution 2 %, 5 %	\$0 (1)	QL (10 ML per 30 days)
glydo mucous membrane jelly in applicator 2 %	\$0 (1)	QL (60 ML per 30 days)
imiquimod topical cream in packet 5 %	\$0 (1)	QL (24 EA per 28 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
lidocaine (pf) injection solution 10 mg/ml (1 %), 15 mg/ml (1.5 %), 20 mg/ml (2 %), 40 mg/ml (4 %), 5 mg/ml (0.5 %)	\$0 (1)	
lidocaine hcl injection solution 10 mg/ml (1 %), 20 mg/ml (2 %), 5 mg/ml (0.5 %)	\$0 (1)	
lidocaine hcl laryngotracheal solution 4 %	\$0 (1)	QL (50 ML per 30 days)
lidocaine hcl mucous membrane jelly 2 %	\$0 (1)	QL (60 ML per 30 days)
lidocaine hcl mucous membrane solution 2 %	\$0 (1)	
lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)	\$0 (1)	QL (50 ML per 30 days)
lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days)
lidocaine topical ointment 5 %	\$0 (1)	QL (50 GM per 30 days)
lidocaine viscous mucous membrane solution 2 %	\$0 (1)	
lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %	\$0 (1)	QL (30 GM per 30 days)
lidocan iii topical adhesive patch,medicated 5 %	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days)
lidocan iv topical adhesive patch,medicated 5 %	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days)
lidocan v topical adhesive patch,medicated 5 %	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days)
PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 %	\$0 (1)	PA-NS; QL (60 GM per 30 days); ^
pimecrolimus topical cream 1 %	\$0 (1)	QL (100 GM per 30 days)
podofilox topical solution 0.5 %	\$0 (1)	QL (7 ML per 28 days)
REGRANEX TOPICAL GEL 0.01 %	\$0 (1)	QL (15 GM per 30 days); ^
SANTYL TOPICAL OINTMENT 250 UNIT/GRAM	\$0 (1)	QL (180 GM per 30 days)
silver sulfadiazine topical cream 1 %	\$0 (1)	
ssd topical cream 1 %	\$0 (1)	
tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %	\$0 (1)	QL (100 GM per 30 days)
tridacaine ii topical adhesive patch,medicated 5 %	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days)
tridacaine topical adhesive patch,medicated 5 %	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days)
VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 %	\$0 (1)	PA-NS; LA; QL (60 GM per 30 days); ^
<b>डायग्नोस्टिक्स / वविधि एजेन्टहरू</b>		
<b>धूम्रपान नविकारकहरू</b>		
bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg	\$0 (1)	
NICOTROL INHALATION CARTRIDGE 10 MG	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
NICOTROL NS NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/ML	\$0 (1)	
varenicline tartrate oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 1 mg (56 pack)	\$0 (1)	
varenicline tartrate oral tablets, dose pack 0.5 mg (11)- 1 mg (42)	\$0 (1)	
<b>वविधि एजेन्टह्रू</b>		
acamprosate oral tablet, delayed release (dr/ec) 333 mg	\$0 (1)	
acetic acid irrigation solution 0.25 %	\$0 (1)	
anagrelide oral capsule 0.5 mg, 1 mg	\$0 (1)	
carglumic acid oral tablet, dispersible 200 mg	\$0 (1)	PA; LA; ^
cevimeline oral capsule 30 mg	\$0 (1)	
CHEMET ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (1)	
CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	\$0 (1)	B/D
d10 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
d2.5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
deferasirox oral granules in packet 180 mg, 360 mg, 90 mg	\$0 (1)	PA; ^
deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg, 90 mg	\$0 (1)	PA
deferasirox oral tablet, dispersible 125 mg	\$0 (1)	PA
deferasirox oral tablet, dispersible 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	PA; ^
dextrose 10 % and 0.2 % nacl intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
dextrose 10 % in water (d10w) intravenous parenteral solution 10 %	\$0 (1)	
dextrose 5 % in water (d5w) intravenous parenteral solution	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
dextrose 5 % in water (d5w) intravenous piggyback 5 %	\$0 (1)	
dextrose 5 %-lactated ringers intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
dextrose 5%-0.2 % sod chloride intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
dextrose 5%-0.3 % sod.chloride intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
dextrose 50 % in water (d50w) intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
dextrose 50 % in water (d50w) intravenous syringe	\$0 (1)	
dextrose 70 % in water (d70w) intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (1)	
droxidopa oral capsule 100 mg	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days)
droxidopa oral capsule 200 mg, 300 mg	\$0 (1)	PA; QL (180 EA per 30 days)
ENDARI ORAL POWDER IN PACKET 5 GRAM	\$0 (1)	PA; LA; ^
glutamine (sickle cell) oral powder in packet 5 gram	\$0 (1)	PA; ^
INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (1)	PA; LA; ^
kionex (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml	\$0 (1)	
levocarnitine (with sugar) oral solution 100 mg/ml	\$0 (1)	
levocarnitine oral solution 100 mg/ml	\$0 (1)	
levocarnitine oral tablet 330 mg	\$0 (1)	
LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM, 5 GRAM	\$0 (1)	
midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	
nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (1)	PA; ^
pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg	\$0 (1)	
PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION 1,000 MG (+/-)/20 ML	\$0 (1)	PA; LA; ^
riluzole oral tablet 50 mg	\$0 (1)	
risedronate oral tablet 30 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
sodium chloride 0.9 % intravenous parenteral solution	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
sodium chloride 0.9 % intravenous piggyback	\$0 (1)	
sodium chloride irrigation solution 0.9 %	\$0 (1)	
sodium phenylbutyrate oral powder 0.94 gram/gram	\$0 (1)	PA; ^
sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg	\$0 (1)	PA; ^
sodium polystyrene sulfonate oral powder	\$0 (1)	
sps (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml	\$0 (1)	
sps (with sorbitol) rectal enema 30-40 gram/120 ml	\$0 (1)	
trientine oral capsule 250 mg	\$0 (1)	PA; ^
water for irrigation, sterile irrigation solution	\$0 (1)	
zoledronic acid-mannitol-water intravenous piggyback 5 mg/100 ml	\$0 (1)	
<b>नेत्र रोग वज्जान</b>		
<b>अन्य ग्लुकोमा औषधहिरू</b>		
brinzolamide ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %	\$0 (1)	
COMBIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.2-0.5 %	\$0 (1)	
dorzolamide ophthalmic (eye) drops 2 %	\$0 (1)	
dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) drops 22.3-6.8 mg/ml	\$0 (1)	
latanoprost ophthalmic (eye) drops 0.005 %	\$0 (1)	
LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 %	\$0 (1)	
RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 %	\$0 (1)	
ROCKLATAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02-0.005 %	\$0 (1)	
travoprost ophthalmic (eye) drops 0.004 %	\$0 (1)	
<b>एन्टबियोटकिस</b>		
ak-poly-bac ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram	\$0 (1)	
bacitracin ophthalmic (eye) ointment 500 unit/gram	\$0 (1)	
bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram	\$0 (1)	
ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops 0.3 %	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025



दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram (0.5 %)	\$0 (1)	
gatifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %	\$0 (1)	
gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3 % (3 mg/gram)	\$0 (1)	
gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %	\$0 (1)	
moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %	\$0 (1)	
moxifloxacin ophthalmic (eye) drops, viscous 0.5 %	\$0 (1)	
neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g	\$0 (1)	
neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml	\$0 (1)	
ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %	\$0 (1)	
polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit- 1 mg/ml	\$0 (1)	
tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %	\$0 (1)	
<b>एन्टिबिडरल</b>		
trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %	\$0 (1)	
ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 %	\$0 (1)	
<b>ग्लुकोमाका लागि भौखिक औषधहरू</b>		
acetazolamide oral capsule, extended release 500 mg	\$0 (1)	
acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg	\$0 (1)	
methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	
<b>नन-स्टेरोइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी एजेन्टहरू</b>		
bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.075 %, 0.09 %	\$0 (1)	
diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops 0.1 %	\$0 (1)	
flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops 0.03 %	\$0 (1)	
ketorolac ophthalmic (eye) drops 0.4 %, 0.5 %	\$0 (1)	
PROLENSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.07 %	\$0 (1)	
<b>बटि-ब्लकर्स</b>		
betaxolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %	\$0 (1)	
carteolol ophthalmic (eye) drops 1 %	\$0 (1)	
levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
timolol maleate ophthalmic (eye) drops 0.25 %, 0.5 %	\$0 (1)	
timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution 0.25 %, 0.5 %	\$0 (1)	
<b>वविधि नेत्र रोग वज्जान</b>		
atropine ophthalmic (eye) drops 1 %	\$0 (1)	
azelastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %	\$0 (1)	
cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %	\$0 (1)	
cyclosporine ophthalmic (eye) dropperette 0.05 %	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
CYSTARAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.44 %	\$0 (1)	PA; LA; ^
OXERVATE OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.002 %	\$0 (1)	PA; ^
pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %	\$0 (1)	
sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %	\$0 (1)	
sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %	\$0 (1)	
sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)	\$0 (1)	
XDEMVI OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.25 %	\$0 (1)	PA; QL (10 ML per 42 days); ^
<b>सम्पेथोममिटकिस</b>		
ALPHAGAN P OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.1 %	\$0 (1)	
apraclonidine ophthalmic (eye) drops 0.5 %	\$0 (1)	
brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.15 %, 0.2 %	\$0 (1)	
<b>स्टेरोड-एन्टबियोटकि संयोजनहू</b>		
neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%	\$0 (1)	
neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %	\$0 (1)	
neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %	\$0 (1)	
neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml	\$0 (1)	
TOBRADEX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.3-0.1 %	\$0 (1)	
tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
<b>स्टेरोइड्स</b>		
dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 0.1 %	\$0 (1)	
difluprednate ophthalmic (eye) drops 0.05 %	\$0 (1)	
fluorometholone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.1 %	\$0 (1)	
loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension 0.2 %	\$0 (1)	
prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %	\$0 (1)	
prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 1 %	\$0 (1)	
<b>प्रसूतविज्ञान / स्त्री रोग</b>		
<b>एस्ट्रोजेन्स / प्रोजेस्टिन्स</b>		
camila oral tablet 0.35 mg	\$0 (1)	
deblitane oral tablet 0.35 mg	\$0 (1)	
DEPO-SUBQ PROVERA 104 SUBCUTANEOUS SYRINGE 104 MG/0.65 ML	\$0 (1)	
dotti transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	\$0 (1)	
emzahh oral tablet 0.35 mg	\$0 (1)	
errin oral tablet 0.35 mg	\$0 (1)	
estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (1)	
estradiol transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	\$0 (1)	
estradiol transdermal patch weekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	\$0 (1)	
estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1 mg/gram)	\$0 (1)	
estradiol vaginal tablet 10 mcg	\$0 (1)	
estradiol valerate intramuscular oil 20 mg/ml, 40 mg/ml	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg	\$0 (1)	
fyavolv oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg	\$0 (1)	
gallifrey oral tablet 5 mg	\$0 (1)	
heather oral tablet 0.35 mg	\$0 (1)	
incassia oral tablet 0.35 mg	\$0 (1)	
jinteli oral tablet 1-5 mg-mcg	\$0 (1)	
lyleq oral tablet 0.35 mg	\$0 (1)	
lyllana transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	\$0 (1)	
lyza oral tablet 0.35 mg	\$0 (1)	
medroxyprogesterone intramuscular suspension 150 mg/ml	\$0 (1)	
medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml	\$0 (1)	
medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	
mimvey oral tablet 1-0.5 mg	\$0 (1)	
nora-be oral tablet 0.35 mg	\$0 (1)	
norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg	\$0 (1)	
norethindrone acetate oral tablet 5 mg	\$0 (1)	
norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg	\$0 (1)	
PREMARIN VAGINAL CREAM 0.625 MG/GRAM	\$0 (1)	
progesterone intramuscular oil 50 mg/ml	\$0 (1)	
progesterone micronized oral capsule 100 mg, 200 mg	\$0 (1)	
sharobel oral tablet 0.35 mg	\$0 (1)	
yuva fem vaginal tablet 10 mcg	\$0 (1)	
<b>मौखिक गर्भनरीधकहरू / सम्बन्धति एजेन्टहरू</b>		
altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	\$0 (1)	
alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	\$0 (1)	
alyacen 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
amethia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)	\$0 (1)	
apri oral tablet 0.15-0.03 mg	\$0 (1)	
aranelle (28) oral tablet 0.5/1/0.5-35 mg-mcg	\$0 (1)	
ashlyna oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)	\$0 (1)	
aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg	\$0 (1)	
aurovela fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	
aurovela fe 1-20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	
aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg	\$0 (1)	
azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	\$0 (1)	
balziva (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg	\$0 (1)	
blisovi 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)	\$0 (1)	
blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	
blisovi fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	
briellyn oral tablet 0.4-35 mg-mcg	\$0 (1)	
camrese lo oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)	\$0 (1)	
camrese oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)	\$0 (1)	
cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg	\$0 (1)	
cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg	\$0 (1)	
dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	\$0 (1)	
dasetta 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	\$0 (1)	
daysee oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)	\$0 (1)	
desog-e.estradiol/e.estradiol oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	\$0 (1)	
desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयिर्	आवश्यकताएं/सीमाएं
dolishale oral tablet 90-20 mcg (28)	\$0 (1)	
drospirenone-e.estradiol-lm.fa oral tablet 3-0.02-0.451 mg (24) (4)	\$0 (1)	
drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg, 3-0.03 mg	\$0 (1)	
elinest oral tablet 0.3-30 mg-mcg	\$0 (1)	
enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)	\$0 (1)	
enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg	\$0 (1)	
estarylla oral tablet 0.25-35 mg-mcg	\$0 (1)	
ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg, 1-50 mg-mcg	\$0 (1)	
falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg	\$0 (1)	
finzala oral tablet,chewable 1 mg-20 mcg(24) /75 mg (4)	\$0 (1)	
gemmily oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)	\$0 (1)	
hailey 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)	\$0 (1)	
hailey fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	
hailey fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	
iclevia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)	\$0 (1)	
introvale oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)	\$0 (1)	
isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg	\$0 (1)	
jasmiel (28) oral tablet 3-0.02 mg	\$0 (1)	
jolessa oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)	\$0 (1)	
juleber oral tablet 0.15-0.03 mg	\$0 (1)	
junel 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg	\$0 (1)	
junel 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg	\$0 (1)	
junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	
junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयिर्	आवश्यकताएं/सीमाएं
junal fe 24 oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)	\$0 (1)	
kaitlib fe oral tablet,chewable 0.8mg-25mcg(24) and 75 mg (4)	\$0 (1)	
kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	\$0 (1)	
kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	\$0 (1)	
kelnor 1/50 (28) oral tablet 1-50 mg-mcg	\$0 (1)	
kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	\$0 (1)	
l norgest/e.estradiol-e.estradiol oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7), 0.15 mg-20 mcg/ 0.15 mg-25 mcg, 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)	\$0 (1)	
larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg	\$0 (1)	
larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg	\$0 (1)	
larin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)	\$0 (1)	
larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	
larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	
layolis fe oral tablet,chewable 0.8mg-25mcg(24) and 75 mg (4)	\$0 (1)	
lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg	\$0 (1)	
levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)	\$0 (1)	
levonorgestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.1-20 mg-mcg, 0.15-0.03 mg, 90-20 mcg (28)	\$0 (1)	
levonorgestrel-ethinyl estradiol oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)	\$0 (1)	
levonorg-eth estradiol triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)	\$0 (1)	
levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg	\$0 (1)	
loryna (28) oral tablet 3-0.02 mg	\$0 (1)	
low-ogestrel (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg	\$0 (1)	
lutera (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg	\$0 (1)	
marlissa (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
mibelas 24 fe oral tablet,chewable 1 mg-20 mcg(24) /75 mg (4)	\$0 (1)	
microgestin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg	\$0 (1)	
microgestin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg	\$0 (1)	
microgestin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)	\$0 (1)	
microgestin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	
microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	
mili oral tablet 0.25-35 mg-mcg	\$0 (1)	
mono-linyah oral tablet 0.25-35 mg-mcg	\$0 (1)	
necon 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg	\$0 (1)	
nikki (28) oral tablet 3-0.02 mg	\$0 (1)	
noreth-ethinyl estradiol-iron oral tablet,chewable 0.4mg-35mcg(21) and 75 mg (7), 0.8mg-25mcg(24) and 75 mg (4)	\$0 (1)	
norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg, 1.5-30 mg-mcg	\$0 (1)	
norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7), 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9), 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	
norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet,chewable 1 mg-20 mcg(24) /75 mg (4)	\$0 (1)	
norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg, 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28), 0.25-35 mg-mcg	\$0 (1)	
nortrel 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg	\$0 (1)	
nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)	\$0 (1)	
nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	\$0 (1)	
nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	\$0 (1)	
nylia 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	\$0 (1)	
nylia 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	\$0 (1)	
nymyo oral tablet 0.25-35 mg-mcg	\$0 (1)	
ocella oral tablet 3-0.03 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025



दवा का नाम	दवा का टयिर	आवश्यकताएं/सीमाएं
philith oral tablet 0.4-35 mg-mcg	\$0 (1)	
pimtreea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	\$0 (1)	
pirmella oral tablet 1-35 mg-mcg	\$0 (1)	
portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg	\$0 (1)	
reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	\$0 (1)	
rivelsa oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-20 mcg/ 0.15 mg-25 mcg	\$0 (1)	
setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)	\$0 (1)	
sprintec (28) oral tablet 0.25-35 mg-mcg	\$0 (1)	
sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg	\$0 (1)	
syeda oral tablet 3-0.03 mg	\$0 (1)	
tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)	\$0 (1)	
tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	\$0 (1)	
tilia fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)	\$0 (1)	
tri-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)	\$0 (1)	
tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)	\$0 (1)	
tri-linyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)	\$0 (1)	
tri-lo-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg	\$0 (1)	
tri-lo-marzia oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg	\$0 (1)	
tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg	\$0 (1)	
tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg	\$0 (1)	
tri-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)	\$0 (1)	
tri-nymyo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)	\$0 (1)	
tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)	\$0 (1)	
trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)	\$0 (1)	
tri-vylibra lo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
tri-vylibra oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)	\$0 (1)	
turqoz (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg	\$0 (1)	
velivet triphasic regimen (28) oral tablet 0.1/.125/.15-25 mg-mcg	\$0 (1)	
vestura (28) oral tablet 3-0.02 mg	\$0 (1)	
vienva oral tablet 0.1-20 mg-mcg	\$0 (1)	
viorele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	\$0 (1)	
vyfemla (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg	\$0 (1)	
vylibra oral tablet 0.25-35 mg-mcg	\$0 (1)	
wera (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg	\$0 (1)	
wymzya fe oral tablet,chewable 0.4mg-35mcg(21) and 75 mg (7)	\$0 (1)	
zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	\$0 (1)	
zumandimine (28) oral tablet 3-0.03 mg	\$0 (1)	
<b>वविधि प्रसूत विज्ञान / स्त्री रोग</b>		
clindamycin phosphate vaginal cream 2 %	\$0 (1)	
eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr	\$0 (1)	
etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr	\$0 (1)	
haloette vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr	\$0 (1)	
LILETTA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 20.4 MCG/24 HR (8 YRS) 52 MG	\$0 (1)	
metronidazole vaginal gel 0.75 % (37.5mg/5 gram)	\$0 (1)	
NEXPLANON SUBDERMAL IMPLANT 68 MG	\$0 (1)	
norelgestromin-ethin.estradiol transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr	\$0 (1)	
terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %	\$0 (1)	
terconazole vaginal suppository 80 mg	\$0 (1)	
tranexamic acid oral tablet 650 mg	\$0 (1)	
xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr	\$0 (1)	
zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयिर्	आवश्यकताएं/सीमाएं
<b>भटिमनिह्र, हेमेटनिक्स / इलेक्ट्रोलाइट्स</b>		
<b>इलेक्ट्रोलाइट्स</b>		
klor-con 10 oral tablet extended release 10 meq	\$0 (1)	
klor-con 8 oral tablet extended release 8 meq	\$0 (1)	
klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals 10 meq	\$0 (1)	
klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals 15 meq	\$0 (1)	
klor-con m20 oral tablet,er particles/crystals 20 meq	\$0 (1)	
klor-con oral packet 20 meq	\$0 (1)	
lactated ringers intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
MAGNESIUM SULFATE IN D5W INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/100 ML	\$0 (1)	
magnesium sulfate in water intravenous parenteral solution 20 gram/500 ml (4 %), 40 gram/1,000 ml (4 %)	\$0 (1)	
magnesium sulfate in water intravenous piggyback 2 gram/50 ml (4 %), 4 gram/100 ml (4 %), 4 gram/50 ml (8 %)	\$0 (1)	
magnesium sulfate injection solution 500 mg/ml (50 %)	\$0 (1)	
magnesium sulfate injection syringe 500 mg/ml (50 %)	\$0 (1)	
potassium chlorid-d5-0.45%nacl intravenous parenteral solution 10 meq/l, 20 meq/l, 30 meq/l, 40 meq/l	\$0 (1)	
potassium chloride in 0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l, 40 meq/l	\$0 (1)	
potassium chloride in 5 % dex intravenous parenteral solution 20 meq/l	\$0 (1)	
potassium chloride in water intravenous piggyback 10 meq/50 ml, 20 meq/50 ml	\$0 (1)	
potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml, 2 meq/ml (20 ml)	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि र	आवश्यकताएं/सीमाएं
potassium chloride oral capsule, extended release 10 meq, 8 meq	\$0 (1)	
potassium chloride oral liquid 20 meq/15 ml, 40 meq/15 ml	\$0 (1)	
potassium chloride oral packet 20 meq	\$0 (1)	
potassium chloride oral tablet extended release 10 meq, 20 meq, 8 meq	\$0 (1)	
potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 10 meq, 15 meq, 20 meq	\$0 (1)	
potassium chloride-0.45 % nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l	\$0 (1)	
potassium chloride-d5-0.2%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l	\$0 (1)	
potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l, 40 meq/l	\$0 (1)	
sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution 0.45 %	\$0 (1)	
sodium chloride 3 % hypertonic intravenous parenteral solution 3 %	\$0 (1)	
sodium chloride 5 % hypertonic intravenous parenteral solution 5 %	\$0 (1)	
sodium chloride intravenous solution 2.5 meq/ml, 4 meq/ml	\$0 (1)	
<b>भटिमनिह्रू / हेमेटनिकि्स</b>		
fluoride (sodium) oral tablet 1 mg (2.2 mg sod. fluoride)	\$0 (1)	
fluoride (sodium) oral tablet,chewable 1 mg (2.2 mg sod. fluoride)	\$0 (1)	
prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg	\$0 (1)	
<b>वविधि पोषण उत्पादनह्रू</b>		
CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	\$0 (1)	B/D
CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	\$0 (1)	B/D

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	\$0 (1)	B/D
CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 6-5 %	\$0 (1)	B/D
CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %	\$0 (1)	B/D
CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %	\$0 (1)	B/D
electrolyte-148 intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
electrolyte-48 in d5w intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
electrolyte-a intravenous parenteral solution	\$0 (1)	
intralipid intravenous emulsion 20 %	\$0 (1)	B/D
ISOLYTE S PH 7.4 INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	\$0 (1)	
ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	\$0 (1)	
ISOLYTE-S INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	\$0 (1)	
PLASMA-LYTE A INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	\$0 (1)	
PLENAMINE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 15 %	\$0 (1)	B/D
premasol 10 % intravenous parenteral solution 10 %	\$0 (1)	B/D
travasol 10 % intravenous parenteral solution 10 %	\$0 (1)	B/D
TROPHAMINE 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %	\$0 (1)	B/D
<b>मस्क्युलोस्केलेटल / वातवज्जान</b>		
<b>अन्य वातवज्जानसम्बन्धी</b>		
ACTEMRA ACTPEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 162 MG/0.9 ML	\$0 (1)	PA; QL (3.6 ML per 28 days); ^
ACTEMRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 162 MG/0.9 ML	\$0 (1)	PA; QL (3.6 ML per 28 days); ^
BENLYSTA INTRAVENOUS RECON SOLN 120 MG, 400 MG	\$0 (1)	PA; ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
BENLYSTA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 200 MG/ML	\$0 (1)	PA; LA; QL (8 ML per 28 days); ^
BENLYSTA SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/ML	\$0 (1)	PA; LA; QL (8 ML per 28 days); ^
CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	\$0 (1)	PA; QL (6 EA per 180 days); ^
CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS-UV SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	\$0 (1)	PA; QL (4 EA per 180 days); ^
CYLTEZO(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	\$0 (1)	PA; QL (4 EA per 28 days); ^
CYLTEZO(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.2 ML, 20 MG/0.4 ML	\$0 (1)	PA; QL (2 EA per 28 days); ^
CYLTEZO(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML	\$0 (1)	PA; QL (4 EA per 28 days); ^
ENBREL MINI SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML)	\$0 (1)	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5 ML	\$0 (1)	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML)	\$0 (1)	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 50 MG/ML (1 ML)	\$0 (1)	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	\$0 (1)	PA; Only Humira NDCs starting 00074 are covered; QL (6 EA per 180 days); ^
HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	\$0 (1)	PA; Only Humira NDCs starting 00074 are covered; QL (6 EA per 28 days); ^
HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML	\$0 (1)	PA; Only Humira NDCs starting 00074 are covered; QL (6 EA per 28 days); ^
HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	\$0 (1)	PA; Only Humira NDCs starting 00074 are covered; QL (3 EA per 180 days); ^
HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	\$0 (1)	PA; Only Humira NDCs starting 00074 are covered; QL (4 EA per 180 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML	\$0 (1)	PA; Only Humira NDCs starting 00074 are covered; QL (3 EA per 180 days); ^
HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML	\$0 (1)	PA; Only Humira NDCs starting 00074 are covered; QL (6 EA per 28 days); ^
HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	\$0 (1)	PA; Only Humira NDCs starting 00074 are covered; QL (4 EA per 28 days); ^
HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML	\$0 (1)	PA; Only Humira NDCs starting 00074 are covered; QL (2 EA per 28 days); ^
HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.4 ML	\$0 (1)	PA; Only Humira NDCs starting 00074 are covered; QL (6 EA per 28 days); ^
leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
OTEZLA ORAL TABLET 20 MG, 30 MG	\$0 (1)	PA; QL (60 EA per 30 days); ^
OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)- 20 MG (51), 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (47)	\$0 (1)	PA; QL (55 EA per 180 days); ^
penicillamine oral tablet 250 mg	\$0 (1)	^
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 15 MG, 30 MG	\$0 (1)	PA; QL (30 EA per 30 days); ^
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 45 MG	\$0 (1)	PA; QL (84 EA per 180 days); ^
SAVELLA ORAL TABLET 100 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (5)-25 MG(8)-50 MG(42)	\$0 (1)	QL (55 EA per 180 days)
YUFLYMA(CF) AI CROHN'S-UC-HS SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR, KIT 80 MG/0.8 ML	\$0 (1)	PA; QL (3 EA per 180 days); ^
YUFLYMA(CF) AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR, KIT 40 MG/0.4 ML	\$0 (1)	PA; QL (4 EA per 28 days); ^
YUFLYMA(CF) AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR, KIT 80 MG/0.8 ML	\$0 (1)	PA; QL (2 EA per 28 days); ^
YUFLYMA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 20 MG/0.2 ML	\$0 (1)	PA; QL (2 EA per 28 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
YUFLYMA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.4 ML	\$0 (1)	PA; QL (4 EA per 28 days); ^
<b>ओस्टियोपोरोसिस थेरापी</b>		
alendronate oral solution 70 mg/75 ml	\$0 (1)	QL (300 ML per 28 days)
alendronate oral tablet 10 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
alendronate oral tablet 35 mg, 70 mg	\$0 (1)	QL (4 EA per 28 days)
ibandronate intravenous solution 3 mg/3 ml	\$0 (1)	QL (3 ML per 90 days)
ibandronate intravenous syringe 3 mg/3 ml	\$0 (1)	QL (3 ML per 90 days)
ibandronate oral tablet 150 mg	\$0 (1)	QL (1 EA per 30 days)
PROLIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML	\$0 (1)	QL (1 ML per 180 days)
raloxifene oral tablet 60 mg	\$0 (1)	
risedronate oral tablet 150 mg	\$0 (1)	QL (1 EA per 30 days)
risedronate oral tablet 35 mg, 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack)	\$0 (1)	QL (4 EA per 28 days)
risedronate oral tablet 5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
risedronate oral tablet, delayed release (dr/ec) 35 mg	\$0 (1)	QL (4 EA per 28 days)
TERIPARATIDE SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MCG/DOSE (620MCG/2.48ML)	\$0 (1)	PA; Only Teriparatide NDC 47781065289 is covered; QL (2.48 ML per 28 days); ^
<b>गाउट थेरापी</b>		
allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg	\$0 (1)	
colchicine oral capsule 0.6 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
colchicine oral tablet 0.6 mg	\$0 (1)	QL (120 EA per 30 days)
febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg	\$0 (1)	
probenecid oral tablet 500 mg	\$0 (1)	
probenecid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg	\$0 (1)	
<b>युरोजोजकिल्स</b>		
<b>एन्टिकोलिनिर्जकि / एन्टिस्पास्मोडकिल्स</b>		
MYRBETRIQ ORAL SUSPENSION, EXTENDED REL RECON 8 MG/ML	\$0 (1)	QL (300 ML per 28 days)
MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 25 MG, 50 MG	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025



दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
oxybutynin chloride oral tablet 5 mg	\$0 (1)	
oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
solifenacin oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
tolterodine oral capsule,extended release 24hr 2 mg, 4 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
tropium oral tablet 20 mg	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
<b>बेनिग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया(BPH) थेरापी</b>		
alfuzosin oral tablet extended release 24 hr 10 mg	\$0 (1)	
dutasteride oral capsule 0.5 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
dutasteride-tamsulosin oral capsule, er multiphase 24 hr 0.5-0.4 mg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
finasteride oral tablet 5 mg	\$0 (1)	
tamsulosin oral capsule 0.4 mg	\$0 (1)	
<b>वविधि युरोजोजकिल्स</b>		
bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg	\$0 (1)	
CYSTAGON ORAL CAPSULE 150 MG, 50 MG	\$0 (1)	PA; LA
ELMIRON ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (1)	
potassium citrate oral tablet extended release 10 meq (1,080 mg), 15 meq, 5 meq (540 mg)	\$0 (1)	
tadalafil oral tablet 2.5 mg	\$0 (1)	PA; QL (60 EA per 30 days)
tadalafil oral tablet 5 mg	\$0 (1)	PA; QL (30 EA per 30 days)
<b>वविधि आपूरतहिरू</b>		
<b>वविधि आपूरतहिरू</b>		
ASSURE ID INSULIN SAFETY SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	\$0 (1)	
GAUZE PAD TOPICAL BANDAGE 2 X 2 "	\$0 (1)	
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE, 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE	\$0 (1)	BD Preferred

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO KT(GEN5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	\$0 (1)	PA; QL (1 EA per 365 days)
OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	\$0 (1)	PA; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	\$0 (1)	PA; QL (1 EA per 365 days)
OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	\$0 (1)	PA; QL (15 EA per 30 days)
PEN NEEDLE, DIABETIC NEEDLE 29 GAUGE X 1/2"	\$0 (1)	BD Preferred
<b>श्वासप्रश्वास र एलर्जी</b>		
<b>एन्टिहिस्टामाइन / एन्टिएलर्जेनिक एजेन्टहरू</b>		
adrenalin injection solution 1 mg/ml (1 ml)	\$0 (1)	
cetirizine oral solution 1 mg/ml	\$0 (1)	
cyproheptadine oral tablet 4 mg	\$0 (1)	PA
desloratadine oral tablet 5 mg	\$0 (1)	
diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml	\$0 (1)	
diphenhydramine hcl injection syringe 50 mg/ml	\$0 (1)	
epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml, 0.3 mg/0.3 ml	\$0 (1)	QL (4 EA per 30 days)
hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	PA
hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	PA
levocetirizine oral solution 2.5 mg/5 ml	\$0 (1)	
levocetirizine oral tablet 5 mg	\$0 (1)	
promethazine injection solution 25 mg/ml, 50 mg/ml	\$0 (1)	
promethazine oral syrup 6.25 mg/5 ml	\$0 (1)	PA
promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (1)	PA
<b>पल्मोनरी एजेन्टहरू</b>		
acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)	\$0 (1)	B/D
ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (90 EA per 30 days); ^
ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION	\$0 (1)	QL (12 GM per 30 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयोर	आवश्यकताएं/सीमाएं
albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation	\$0 (1)	8.5 gm inhaler; QL (17 GM per 30 days)
albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020503)	\$0 (1)	6.7 gm inhaler; QL (13.4 GM per 30 days)
albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %), 2.5 mg/0.5 ml, 5 mg/ml	\$0 (1)	B/D
albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5 ml	\$0 (1)	
albuterol sulfate oral tablet 2 mg, 4 mg	\$0 (1)	
alyq oral tablet 20 mg	\$0 (1)	PA; QL (60 EA per 30 days); ^
ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (1)	PA; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
ANORO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5-25 MCG/ACTUATION	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
arformoterol inhalation solution for nebulization 15 mcg/2 ml	\$0 (1)	B/D; QL (120 ML per 30 days)
ARNUITY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
ATROVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 17 MCG/ACTUATION	\$0 (1)	QL (25.8 GM per 30 days)
BEVESPI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 9-4.8 MCG	\$0 (1)	QL (10.7 GM per 30 days)
bosentan oral tablet 125 mg, 62.5 mg	\$0 (1)	PA; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE, 50-25 MCG/DOSE	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
breyna inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation	\$0 (1)	QL (30.9 GM per 30 days)
BREZTRI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160-9-4.8 MCG/ACTUATION	\$0 (1)	Retail Inhalation Canister (10.7g inhaler containing 120 inhalations); QL (10.7 GM per 30 days)
budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml	\$0 (1)	B/D
COMBIVENT RESPIMAT INHALATION MIST 20-100 MCG/ACTUATION	\$0 (1)	QL (8 GM per 30 days)

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml	\$0 (1)	B/D
FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML	\$0 (1)	PA; LA; QL (1 ML per 28 days); ^
FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML	\$0 (1)	PA; QL (0.5 ML per 28 days); ^
FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG/ML	\$0 (1)	PA; LA; QL (1 ML per 28 days); ^
flunisolide nasal spray,non-aerosol 25 mcg (0.025 %)	\$0 (1)	QL (50 ML per 30 days)
fluticasone propionate nasal spray,suspension 50 mcg/actuation	\$0 (1)	QL (16 GM per 30 days)
fluticasone propion-salmeterol inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
formoterol fumarate inhalation solution for nebulization 20 mcg/2 ml	\$0 (1)	B/D; QL (120 ML per 30 days)
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2,000 UNIT	\$0 (1)	PA; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3,000 UNIT	\$0 (1)	PA; LA; QL (20 EA per 30 days); ^
icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml	\$0 (1)	PA; QL (27 ML per 30 days); ^
INCRUSE ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5 MCG/ACTUATION	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %	\$0 (1)	B/D
ipratropium-albuterol inhalation solution for nebulization 0.5 mg-3 mg(2.5 mg base)/3 ml	\$0 (1)	B/D
KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 13.4 MG, 5.8 MG	\$0 (1)	PA; QL (56 EA per 28 days); ^
KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 25 MG, 50 MG, 75 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (56 EA per 28 days); ^
KALYDECO ORAL TABLET 150 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (56 EA per 28 days); ^
levalbuterol hcl inhalation solution for nebulization 0.31 mg/3 ml, 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/0.5 ml, 1.25 mg/3 ml	\$0 (1)	B/D
mometasone nasal spray,non-aerosol 50 mcg/actuation	\$0 (1)	QL (34 GM per 30 days)
montelukast oral granules in packet 4 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
montelukast oral tablet 10 mg	\$0 (1)	
montelukast oral tablet,chewable 4 mg, 5 mg	\$0 (1)	
OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (60 EA per 30 days); ^
OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (30 EA per 30 days); ^
ORKAMBI ORAL GRANULES IN PACKET 100-125 MG, 150-188 MG, 75-94 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (56 EA per 28 days); ^
ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (112 EA per 28 days); ^
pirfenidone oral capsule 267 mg	\$0 (1)	PA; QL (270 EA per 30 days); ^
pirfenidone oral tablet 267 mg	\$0 (1)	PA; QL (270 EA per 30 days); ^
pirfenidone oral tablet 801 mg	\$0 (1)	PA; QL (90 EA per 30 days); ^
PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1 MG/ML	\$0 (1)	B/D; ^
roflumilast oral tablet 250 mcg, 500 mcg	\$0 (1)	QL (30 EA per 30 days)
sajazir subcutaneous syringe 30 mg/3 ml	\$0 (1)	PA; LA; QL (27 ML per 30 days); ^
SEREVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50 MCG/DOSE	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg	\$0 (1)	PA; generic for Revatio; QL (90 EA per 30 days)
SYMDEKO ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-150 MG (D)/ 150 MG (N), 50-75 MG (D)/ 75 MG (N)	\$0 (1)	PA; LA; QL (56 EA per 28 days); ^
tadalafil (pulm. hypertension) oral tablet 20 mg	\$0 (1)	PA; generic for Adcirca; QL (60 EA per 30 days); ^
terbutaline oral tablet 2.5 mg, 5 mg	\$0 (1)	
THEO-24 ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24HR 100 MG, 200 MG, 300 MG, 400 MG	\$0 (1)	
theophylline oral elixir 80 mg/15 ml	\$0 (1)	
theophylline oral solution 80 mg/15 ml	\$0 (1)	
theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg	\$0 (1)	
theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg	\$0 (1)	
TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200-62.5-25 MCG	\$0 (1)	QL (60 EA per 30 days)
TRIKAFTA ORAL GRANULES IN PACKET, SEQUENTIAL 100-50-75MG (D) /75 MG (N), 80-40-60 MG (D) /59.5 MG (N)	\$0 (1)	PA; QL (56 EA per 28 days); ^

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

दवा का नाम	दवा का टयि	आवश्यकताएं/सीमाएं
TRIKAFTA ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-50-75 MG(D) /150 MG (N), 50-25-37.5 MG (D)/75 MG (N)	\$0 (1)	PA; LA; QL (84 EA per 28 days); ^
VENTOLIN HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90 MCG/ACTUATION	\$0 (1)	QL (36 GM per 30 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 300 MG/2 ML	\$0 (1)	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 75 MG/0.5 ML	\$0 (1)	PA; QL (1 ML per 28 days); ^
XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG	\$0 (1)	PA; LA; QL (8 EA per 28 days); ^
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	\$0 (1)	PA; LA; QL (8 ML per 28 days); ^
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/2 ML	\$0 (1)	PA; QL (8 ML per 28 days); ^
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML	\$0 (1)	PA; LA; QL (1 ML per 28 days); ^
zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (1)	

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

आप इस तालिका के शुरुआत में जाकर इस तालिका पर दिए गए प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 02/01/2025

## दवाओं की क्रम-सूची

<i>abacavir</i> .....	34	ALUNBRIG.....	45, 46	<i>aspirin-dipyridamole</i> .....	65
<i>abacavir-lamivudine</i> .....	34	<i>alyacen 1/35 (28)</i> .....	85	ASSURE ID INSULIN SAFETY.....	98
ABELCET.....	33	<i>alyacen 7/7/7 (28)</i> .....	85	<i>atazanavir</i> .....	35
ABILIFY ASIMTUFII.....	14	<i>alyq</i> .....	100	<i>atenolol</i> .....	60
ABILIFY MAINTENA.....	14	<i>amantadine hcl</i> .....	35	<i>atenolol-chlorthalidone</i> .....	60
<i>abiraterone</i> .....	45	<i>ambrisentan</i> .....	100	<i>atomoxetine</i> .....	15
ABRYSVO (PF).....	29	<i>amethia</i> .....	86	<i>atorvastatin</i> .....	67
<i>acamprosate</i> .....	79	<i>amikacin</i> .....	41	<i>atovaquone</i> .....	41
<i>acarbose</i> .....	24	<i>amiloride</i> .....	60	<i>atovaquone-proguanil</i> .....	41
<i>accutane</i> .....	76	<i>amiloride-hydrochlorothiazide</i> ...	60	<i>atropine</i> .....	83
<i>acebutolol</i> .....	60	<i>amiodarone</i> .....	59	ATROVENT HFA.....	100
<i>acetaminophen-codeine</i> .....	10	<i>amitriptyline</i> .....	14	<i>aubra eq</i> .....	86
<i>acetazolamide</i> .....	82	<i>amlodipine</i> .....	60	AUGTYRO.....	46
<i>acetic acid</i> .....	59, 79	<i>amlodipine-atorvastatin</i> .....	67	<i>aurovela fe 1.5/30 (28)</i> .....	86
<i>acetylcysteine</i> .....	99	<i>amlodipine-benazepril</i> .....	60	<i>aurovela fe 1-20 (28)</i> .....	86
<i>acitretin</i> .....	73	<i>amlodipine-olmesartan</i> .....	60	AUSTEDO.....	12
ACTEMRA.....	94	<i>amlodipine-valsartan</i> .....	60	AUSTEDO XR.....	12
ACTEMRA ACTPEN.....	94	<i>amlodipine-valsartan-hcthiazyd</i> ..	60	AUSTEDO XR TITRATION	
ACTHIB (PF).....	29	<i>ammonium lactate</i> .....	77	KT(WK1-4).....	12
ACTIMMUNE.....	33	<i>amnesteem</i> .....	76	AUVELITY.....	15
<i>acyclovir</i> .....	34	<i>amoxapine</i> .....	14	<i>aviane</i> .....	86
<i>acyclovir sodium</i> .....	34	<i>amoxicillin</i> .....	39	AYVAKIT.....	46
ADACEL(TDAP		<i>amoxicillin-pot clavulanate</i> .....	40	<i>azacitidine</i> .....	46
ADOLESN/ADULT)(PF).....	29	<i>amphotericin b</i> .....	33	<i>azathioprine</i> .....	46
<i>adapalene</i> .....	76	<i>ampicillin</i> .....	40	<i>azelaic acid</i> .....	76
<i>adefovir</i> .....	35	<i>ampicillin sodium</i> .....	40	<i>azelastine</i> .....	59, 83
ADEMPAS.....	99	<i>ampicillin-sulbactam</i> .....	40	<i>azithromycin</i> .....	38
<i>adrenalin</i> .....	99	<i>anagrelide</i> .....	79	<i>aztreonam</i> .....	41
ADVAIR HFA.....	99	<i>anastrozole</i> .....	46	<i>azurette (28)</i> .....	86
AIMOVIG AUTOINJECTOR.....	11	ANORO ELLIPTA.....	100	<i>bacitracin</i> .....	81
AKEEGA.....	45	<i>apraclonidine</i> .....	83	<i>bacitracin-polymyxin b</i> .....	81
<i>ak-poly-bac</i> .....	81	<i>aprepitant</i> .....	70	<i>baclofen</i> .....	11
<i>ala-cort</i> .....	74	<i>apri</i> .....	86	<i>balsalazide</i> .....	70
<i>albendazole</i> .....	41	APTIOM.....	3	BALVERSA.....	46
<i>albuterol sulfate</i> .....	100	APTIVUS.....	35	<i>balziva (28)</i> .....	86
<i>alclometasone</i> .....	74	<i>aranelle (28)</i> .....	86	BARACLUDGE.....	35
<i>alcohol pads</i> .....	24	ARCALYST.....	33	BCG VACCINE, LIVE (PF).....	29
ALDURAZYME.....	27	AREXVY (PF).....	29	BELSOMRA.....	15
ALECENSA.....	45	<i>arformoterol</i> .....	100	<i>benazepril</i> .....	60
<i>alendronate</i> .....	97	ARIKAYCE.....	41	<i>benazepril-hydrochlorothiazide</i> ..	60
<i>alfuzosin</i> .....	98	<i>aripiprazole</i> .....	14	BENDEKA.....	46
<i>aliskiren</i> .....	60	ARISTADA.....	14	BENLYSTA.....	94, 95
<i>allopurinol</i> .....	97	ARISTADA INITIO.....	14	<i>benztropine</i> .....	7
<i>alosetron</i> .....	70	<i>armodafinil</i> .....	15	BESREMI.....	33
ALPHAGAN P.....	83	ARNUITY ELLIPTA.....	100	<i>betaine</i> .....	70
<i>alprazolam</i> .....	14	<i>asenapine maleate</i> .....	15	<i>betamethasone dipropionate</i> ....	74
<i>altavera (28)</i> .....	85	<i>ashlyna</i> .....	86	<i>betamethasone valerate</i> .....	74, 75

02/01/2025



<i>betamethasone, augmented</i> .....	75	CALQUENCE (ACALABRUTINIB	<i>chlorthalidone</i> .....	61
BETASERON .....	33	MAL).....	<i>cholestyramine (with sugar)</i> .....	67
<i>betaxolol</i> .....	60, 82	<i>camila</i> .....	<i>cholestyramine light</i> .....	67
<i>bethanechol chloride</i> .....	98	<i>camrese</i> .....	<i>cholestyramine-aspartame</i> .....	67
BEVESPI AEROSPHERE.....	100	<i>camrese lo</i> .....	<i>ciclopirox</i> .....	73, 74
<i>bexarotene</i> .....	46	<i>candesartan</i> .....	<i>cilostazol</i> .....	65
BEXSERO.....	29	<i>candesartan-hydrochlorothiazid</i> ..	CIMDUO.....	35
<i>bicalutamide</i> .....	46	CAPLYTA.....	<i>cinacalcet</i> .....	27, 28
BICILLIN L-A.....	40	CAPRELSA.....	<i>ciprofloxacin</i> .....	39
BIKTARVY.....	35	<i>captopril</i> .....	<i>ciprofloxacin hcl</i> .....	39, 81
<i>bisoprolol fumarate</i> .....	61	<i>captopril-hydrochlorothiazide</i> ....	<i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i> .....	39
<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i> ...	61	<i>carbamazepine</i> .....	<i>ciprofloxacin-dexamethasone</i> ....	59
BIVIGAM.....	29	<i>carbidopa</i> .....	<i>cisplatin</i> .....	47
<i>blisovi 24 fe</i> .....	86	<i>carbidopa-levodopa</i> .....	<i>citalopram</i> .....	15
<i>blisovi fe 1.5/30 (28)</i> .....	86	<i>carbidopa-levodopa-</i>	<i>claravis</i> .....	76
<i>blisovi fe 1/20 (28)</i> .....	86	<i>entacapone</i> .....	<i>clarithromycin</i> .....	38
BOOSTRIX TDAP.....	29	<i>carboplatin</i> .....	<i>clindamycin hcl</i> .....	41
BORTEZOMIB.....	46	<i>carglumic acid</i> .....	<i>clindamycin in 5 % dextrose</i> .....	41
<i>bortezomib</i> .....	46	<i>carteolol</i> .....	<i>clindamycin phosphate</i> ... 41, 76, 91	
<i>bosentan</i> .....	100	<i>cartia xt</i> .....	<i>clindamycin-benzoyl peroxide</i> ....	76
BOSULIF.....	46	<i>carvedilol</i> .....	CLINIMIX 5%/D15W SULFITE	
BRAFTOVI.....	46	<i>casprofungin</i> .....	FREE.....	93
BREO ELLIPTA.....	100	CAYSTON.....	CLINIMIX 4.25%/D10W SULF	
<i>breyna</i> .....	100	<i>cefaclor</i> .....	FREE.....	93
BREZTRI AEROSPHERE.....	100	<i>cefadroxil</i> .....	CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT	
<i>briellyn</i> .....	86	<i>cefazolin</i> .....	FREE.....	79
BRILINTA.....	65	<i>cefazolin in dextrose (iso-os)</i> .....	CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-	
<i>brimonidine</i> .....	83	<i>cefdinir</i> .....	FREE).....	94
<i>brinzolamide</i> .....	81	<i>cefepime</i> .....	CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-	
BRIVIACT.....	3	<i>cefepime in dextrose,iso-osm</i> ....	FREE).....	94
<i>bromfenac</i> .....	82	<i>cefixime</i> .....	CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-	
<i>bromocriptine</i> .....	7	<i>cefoxitin</i> .....	FREE).....	94
BRUKINSA.....	46	<i>cefoxitin in dextrose, iso-osm</i> ....	CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-	
<i>budesonide</i> .....	70, 100	<i>cefpodoxime</i> .....	FREE).....	94
<i>bumetanide</i> .....	61	<i>cefprozil</i> .....	<i>clobazam</i> .....	3
<i>buprenorphine hcl</i> .....	10	<i>ceftazidime</i> .....	<i>clobetasol</i> .....	75
<i>buprenorphine-naloxone</i> .....	8	<i>ceftriaxone</i> .....	<i>clobetasol-emollient</i> .....	75
<i>bupropion hcl</i> .....	15	<i>ceftriaxone in dextrose,iso-os</i> ....	<i>clodan</i> .....	75
<i>bupropion hcl (smoking deter)</i> ....	78	<i>cefuroxime axetil</i> .....	<i>clomipramine</i> .....	15
<i>buspiron</i> .....	15	<i>cefuroxime sodium</i> .....	<i>clonazepam</i> .....	3
<i>butorphanol</i> .....	8	<i>celecoxib</i> .....	<i>clonidine</i> .....	61
BYDUREON BCISE.....	24	<i>cephalexin</i> .....	<i>clonidine hcl</i> .....	61
<i>cabergoline</i> .....	27	<i>cetirizine</i> .....	<i>clopidogrel</i> .....	65
CABOMETYX.....	46	<i>cevimeline</i> .....	<i>clorazepate dipotassium</i> .....	15
<i>calcipotriene</i> .....	73	CHEMET.....	<i>clotrimazole</i> .....	34, 74
<i>calcitonin (salmon)</i> .....	27	<i>chlorhexidine gluconate</i> .....	<i>clotrimazole-betamethasone</i> .....	74
<i>calcitriol</i> .....	27	<i>chloroquine phosphate</i> .....	<i>clozapine</i> .....	15, 16
CALQUENCE.....	46	<i>chlorpromazine</i> .....	COARTEM.....	41

COBENFY.....	16	<i>dapsone</i> .....	41	<i>diclofenac potassium</i> .....	8
COBENFY STARTER PACK.....	16	DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC (PF).....	29	<i>diclofenac sodium</i> .....	8, 9, 82
<i>colchicine</i> .....	97	<i>daptomycin</i> .....	41	<i>diclofenac-misoprostol</i> .....	9
<i>colesevelam</i> .....	67	<i>darunavir</i> .....	35	<i>dicloxacillin</i> .....	40
<i>colestipol</i> .....	67	<i>dasatinib</i> .....	47	<i>dicyclomine</i> .....	69
<i>colistin (colistimethate na)</i> .....	41	<i>dasetta 1/35 (28)</i> .....	86	DIFICID.....	38
COLUMVI.....	47	<i>dasetta 7/7/7 (28)</i> .....	86	<i>diflunisal</i> .....	9
COMBIGAN.....	81	DAURISMO.....	47	<i>difluprednate</i> .....	84
COMBIVENT RESPIMAT.....	100	<i>daysee</i> .....	86	<i>digoxin</i> .....	68
COMETRIQ.....	47	<i>deblitane</i> .....	84	<i>dihydroergotamine</i> .....	11
COMPLERA.....	35	<i>deferasirox</i> .....	79	DILANTIN.....	4
<i>compro</i> .....	70	DELSTRIGO.....	35	DILANTIN EXTENDED.....	3
<i>constulose</i> .....	70	<i>demeclocycline</i> .....	39	DILANTIN INFATABS.....	4
COPIKTRA.....	47	DENGVAXIA (PF).....	29	DILANTIN-125.....	4
CORLANOR.....	68	DEPO-SUBQ PROVERA 104.....	84	<i>diltiazem hcl</i> .....	61
COSENTYX.....	73	<i>dermacinrx lidocan</i> .....	77	<i>dilt-xr</i> .....	62
COSENTYX (2 SYRINGES).....	73	DESCOVY.....	35	<i>dimethyl fumarate</i> .....	12, 13
COSENTYX PEN.....	73	<i>desipramine</i> .....	16	<i>diphenhydramine hcl</i> .....	99
COSENTYX PEN (2 PENS).....	73	<i>desloratadine</i> .....	99	<i>diphenoxylate-atropine</i> .....	69
COSENTYX UNOREADY PEN.....	73	<i>desmopressin</i> .....	28	<i>dipyridamole</i> .....	65
COTELLIC.....	47	<i>desog-e.estradiol/e.estradiol</i> .....	86	<i>disopyramide phosphate</i> .....	59
CREON.....	70	<i>desogestrel-ethinyl estradiol</i> .....	86	<i>disulfiram</i> .....	80
CRESEMBA.....	34	<i>desonide</i> .....	75	<i>divalproex</i> .....	4
<i>cromolyn</i> .....	70, 83, 101	<i>desvenlafaxine succinate</i> .....	16	<i>docetaxel</i> .....	47
<i>cryselle (28)</i> .....	86	<i>dexamethasone</i> .....	22	<i>dofetilide</i> .....	60
<i>cyclobenzaprine</i> .....	11	<i>dexamethasone intensol</i> .....	22	<i>dolishale</i> .....	87
<i>cyclophosphamide</i> .....	47	<i>dexamethasone sodium phos (pf)</i> .....	22	<i>donepezil</i> .....	13
CYCLOPHOSPHAMIDE.....	47	<i>dexamethasone sodium phosphate</i> .....	22, 84	DOPTELET (10 TAB PACK).....	65
<i>cyclosporine</i> .....	47, 83	<i>dexlansoprazole</i> .....	69	DOPTELET (15 TAB PACK).....	65
<i>cyclosporine modified</i> .....	47	<i>dexmethylphenidate</i> .....	16	DOPTELET (30 TAB PACK).....	65
CYLTEZO(CF).....	95	<i>dextroamphetamine sulfate</i> .....	16	<i>dorzolamide</i> .....	81
CYLTEZO(CF) PEN.....	95	<i>dextroamphetamine- amphetamine</i> .....	16	<i>dorzolamide-timolol</i> .....	81
CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC- HS.....	95	<i>dextrose 10 % and 0.2 % nacl</i> ....	79	<i>dotti</i> .....	84
CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS-UV.....	95	<i>dextrose 10 % in water (d10w)</i> ...	79	DOVATO.....	35
<i>cyproheptadine</i> .....	99	<i>dextrose 5 % in water (d5w)</i> . 79, 80		<i>doxazosin</i> .....	62
<i>cyred eq</i> .....	86	<i>dextrose 5 %-lactated ringers</i> .....	80	<i>doxepin</i> .....	17
CYSTAGON.....	98	<i>dextrose 5%-0.2 % sod chloride</i> ..	80	<i>doxercalciferol</i> .....	28
CYSTARAN.....	83	<i>dextrose 5%-0.3 % sod.chloride</i> ..	80	<i>doxorubicin</i> .....	48
<i>cytarabine</i> .....	47	<i>dextrose 50 % in water (d50w)</i> ...	80	<i>doxorubicin, peg-liposomal</i> .....	48
<i>d10 %-0.45 % sodium chloride</i> ....	79	<i>dextrose 70 % in water (d70w)</i> ...	80	<i>doxy-100</i> .....	39
<i>d2.5 %-0.45 % sodium chloride</i> ...	79	DIACOMIT.....	3	<i>doxycycline hyclate</i> .....	39
<i>d5 % and 0.9 % sodium chloride</i> . 79		<i>diazepam</i> .....	3, 16	<i>doxycycline monohydrate</i> .....	39
<i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i> .....	79	<i>diazepam intensol</i> .....	16	DRIZALMA SPRINKLE.....	17
<i>dabigatran etexilate</i> .....	65	<i>diazoxide</i> .....	24	<i>dronabinol</i> .....	70
<i>dalfampridine</i> .....	12			<i>drospirenone-e.estradiol-lm.fa</i> ...	87
<i>danazol</i> .....	28			<i>drospirenone-ethinyl estradiol</i> ....	87
<i>dantrolene</i> .....	11			DROXIA.....	48
				<i>droxidopa</i> .....	80

<i>duloxetine</i> .....	17	ENVARBUS XR.....	48	<i>famotidine (pf)-nacl (iso-os)</i> .....	69
DUPIXENT PEN.....	77	EPIDIOLEX.....	4	FANAPT.....	17
DUPIXENT SYRINGE.....	77	<i>epinephrine</i> .....	99	FARXIGA.....	24
<i>dutasteride</i> .....	98	<i>epitol</i> .....	4	FASENRA.....	101
<i>dutasteride-tamsulosin</i> .....	98	EPKINLY.....	48	FASENRA PEN.....	101
EDARBI.....	62	<i>eplerenone</i> .....	62	<i>febuxostat</i> .....	97
EDARBYCLOR.....	62	EPRONTIA.....	4	<i>felbamate</i> .....	4
EDURANT.....	35	<i>ergotamine-caffeine</i> .....	11	<i>felodipine</i> .....	62
<i>efavirenz</i> .....	35	ERIVEDGE.....	48	<i>fenofibrate</i> .....	68
<i>efavirenz-emtricitabin-tenofov</i> ... 35		ERLEADA.....	48	<i>fenofibrate micronized</i> .....	67
<i>efavirenz-lamivu-tenofov disop</i> .. 35		<i>erlotinib</i> .....	48	<i>fenofibrate nanocrystallized</i> .....	67
<i>electrolyte-148</i> .....	94	<i>errin</i> .....	84	<i>fenofibric acid (choline)</i> .....	68
<i>electrolyte-48 in d5w</i> .....	94	<i>ertapenem</i> .....	42	<i>fentanyl</i> .....	10
<i>electrolyte-a</i> .....	94	<i>ery pads</i> .....	76	<i>fentanyl citrate</i> .....	10
ELIGARD.....	48	<i>ery-tab</i> .....	38	FETZIMA.....	17
ELIGARD (3 MONTH).....	48	ERYTHROCIN.....	38	<i>finasteride</i> .....	98
ELIGARD (4 MONTH).....	48	<i>erythrocin (as stearate)</i> .....	38	<i>ingolimod</i> .....	13
ELIGARD (6 MONTH).....	48	<i>erythromycin</i> .....	38, 82	FINTEPLA.....	4
<i>elinest</i> .....	87	<i>erythromycin with ethanol</i> .....	76	<i>finzala</i> .....	87
ELIQUIS.....	65, 66	<i>erythromycin-benzoyl peroxide</i> .. 76		FIRMAGON KIT W DILUENT	
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D		<i>escitalopram oxalate</i> .....	17	SYRINGE.....	49
START.....	65	<i>esomeprazole magnesium</i> .....	69	<i>flac otic oil</i> .....	59
ELLECE.....	48	<i>estarylla</i> .....	87	<i>flecainide</i> .....	60
ELMIRON.....	98	<i>estradiol</i> .....	84	<i>fluconazole</i> .....	34
ELREXFIO.....	48	<i>estradiol valerate</i> .....	84	<i>fluconazole in nacl (iso-osm)</i> .....	34
<i>eluryng</i> .....	91	<i>estradiol-norethindrone acet</i> .....	85	<i>flucytosine</i> .....	34
EMSAM.....	17	<i>ethambutol</i> .....	42	<i>fludrocortisone</i> .....	22
<i>emtricitabine</i> .....	35	<i>ethosuximide</i> .....	4	<i>flunisolide</i> .....	101
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf)</i> .....	35	<i>ethynodiol diac-eth estradiol</i> .....	87	<i>fluocinolone</i> .....	75
EMTRIVA.....	35	<i>etodolac</i> .....	9	<i>fluocinolone acetonide oil</i> .....	59
EMVERM.....	42	<i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i> .....	91	<i>fluocinolone and shower cap</i> .....	75
<i>emzahn</i> .....	84	<i>etoposide</i> .....	48	<i>fluocinonide</i> .....	75
<i>enalapril maleate</i> .....	62	<i>etravirine</i> .....	35	<i>fluocinonide-e</i> .....	75
<i>enalapril-hydrochlorothiazide</i> .....	62	EULEXIN.....	48	<i>fluocinonide-emollient</i> .....	75
ENBREL.....	95	<i>euthyrox</i> .....	23	<i>fluoride (sodium)</i> .....	93
ENBREL MINI.....	95	<i>everolimus (antineoplastic)</i> .. 48, 49		<i>fluorometholone</i> .....	84
ENBREL SURECLICK.....	95	<i>everolimus</i>		<i>fluorouracil</i> .....	49, 77
ENDARI.....	80	<i>(immunosuppressive)</i> .....	49	<i>fluoxetine</i> .....	17
<i>endocet</i> .....	10	EVOTAZ.....	35	<i>fluphenazine decanoate</i> .....	17
ENGERIX-B (PF).....	29	<i>exemestane</i> .....	49	<i>fluphenazine hcl</i> .....	17
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF).....	29	EXKIVITY.....	49	<i>flurbiprofen</i> .....	9
<i>enoxaparin</i> .....	66	<i>ezetimibe</i> .....	67	<i>flurbiprofen sodium</i> .....	82
<i>enpresse</i> .....	87	<i>ezetimibe-simvastatin</i> .....	67	<i>fluticasone propionate</i> .....	75, 101
<i>enskyce</i> .....	87	FABRAZYME.....	28	<i>fluticasone propion-salmeterol</i> ..101	
<i>entacapone</i> .....	8	<i>falmina (28)</i> .....	87	<i>fluvastatin</i> .....	68
<i>entecavir</i> .....	35	<i>famciclovir</i> .....	35	<i>fluvoxamine</i> .....	17
ENTRESTO.....	68	<i>famotidine</i> .....	69	<i>fondaparinux</i> .....	66
<i>enulose</i> .....	70	<i>famotidine (pf)</i> .....	69	<i>formoterol fumarate</i> .....	101

<i>fosamprenavir</i> .....	35	<i>glipizide-metformin</i> .....	24	<i>hydralazine</i> .....	62
<i>fosinopril</i> .....	62	<i>glutamine (sickle cell)</i> .....	80	<i>hydrochlorothiazide</i> .....	62
<i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i> ...	62	<i>glycopyrrolate</i> .....	69	<i>hydrocodone-acetaminophen</i> .....	10
FOTIVDA .....	49	<i>glydo</i> .....	77	<i>hydrocodone-ibuprofen</i> .....	10
FRUZAQLA .....	49	GLYXAMBI .....	24	<i>hydrocortisone</i> .....	22, 70, 71, 75
<i>fulvestrant</i> .....	49	<i>granisetron (pf)</i> .....	70	<i>hydromorphone</i> .....	10
<i>furosemide</i> .....	62	<i>granisetron hcl</i> .....	70	<i>hydroxychloroquine</i> .....	42
FUZEON .....	35	<i>griseofulvin microsize</i> .....	34	<i>hydroxyurea</i> .....	50
<i>fyavolv</i> .....	85	<i>griseofulvin ultramicrosize</i> .....	34	<i>hydroxyzine hcl</i> .....	99
FYCOMPA .....	4	<i>guanfacine</i> .....	17, 62	<i>hydroxyzine pamoate</i> .....	99
<i>gabapentin</i> .....	4	GVOKE .....	24	<i>ibandronate</i> .....	97
<i>galantamine</i> .....	13	GVOKE HYPOPEN 1-PACK .....	24	IBRANCE .....	50
<i>gallifrey</i> .....	85	GVOKE HYPOPEN 2-PACK .....	24	<i>ibu</i> .....	9
GAMASTAN .....	29	GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE .....	24	<i>ibuprofen</i> .....	9
GAMMAGARD LIQUID .....	30	GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE .....	24	<i>icatibant</i> .....	101
GAMMAGARD S-D (IGA < 1 MCG/ML) .....	30	HAEGARDA .....	101	<i>iclevia</i> .....	87
GAMMAKED .....	30	<i>hailey 24 fe</i> .....	87	ICLUSIG .....	50
GAMMAPLEX .....	30	<i>hailey fe 1.5/30 (28)</i> .....	87	IDHIFA .....	50
GAMMAPLEX (WITH SORBITOL) .....	30	<i>hailey fe 1/20 (28)</i> .....	87	<i>imatinib</i> .....	50
GAMUNEX-C .....	30	<i>halobetasol propionate</i> .....	75	IMBRUVICA .....	50
<i>ganciclovir sodium</i> .....	36	<i>haloette</i> .....	91	<i>imipenem-cilastatin</i> .....	42
GARDASIL 9 (PF) .....	30	<i>haloperidol</i> .....	18	<i>imipramine hcl</i> .....	18
<i>gatifloxacin</i> .....	82	<i>haloperidol decanoate</i> .....	17	<i>imiquimod</i> .....	77
GATTEX 30-VIAL .....	70	<i>haloperidol lactate</i> .....	18	IMOVAX RABIES VACCINE (PF) .....	30
GATTEX ONE-VIAL .....	70	HAVRIX (PF) .....	30	<i>incassia</i> .....	85
GAUZE PAD .....	98	<i>heather</i> .....	85	INCRELEX .....	80
<i>gavilyte-c</i> .....	70	<i>heparin (porcine)</i> .....	66	INCRUSE ELLIPTA .....	101
<i>gavilyte-g</i> .....	70	<i>heparin (porcine) in 5 % dex</i> .....	66	<i>indapamide</i> .....	62
GAVRETO .....	49	HEPARIN(PORCINE) IN 0.45% NACL .....	66	INFANRIX (DTAP) (PF) .....	30
<i>gefitinib</i> .....	49	<i>heparin(porcine) in 0.45% nacl</i> ...	66	INFLECTRA .....	71
<i>gemcitabine</i> .....	49	HEPLISAV-B (PF) .....	30	INLYTA .....	50
GEMCITABINE .....	49	HIBERIX (PF) .....	30	INQOVI .....	50
<i>gemfibrozil</i> .....	68	HUMIRA .....	95	INREBIC .....	50
<i>gemmily</i> .....	87	HUMIRA PEN .....	95	INSULIN ASP PRT-INSULIN ASPART .....	25
<i>generlac</i> .....	70	HUMIRA PEN PSOR-UVEITS- ADOL HS .....	95	INSULIN ASPART U-100 .....	25
<i>gengraf</i> .....	49	HUMIRA(CF) .....	96	INSULIN DEGLUDEC .....	25
<i>gentak</i> .....	82	HUMIRA(CF) PEN .....	96	INSULIN GLARGINE U-300 CONC .....	25
<i>gentamicin</i> .....	42, 74, 82	HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC- HS .....	95	INSULIN GLARGINE-YFGN .....	25
<i>gentamicin in nacl (iso-osm)</i> .....	42	HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC .....	95	INSULIN SYRINGE-NEEDLE U- 100 .....	98
<i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i> .....	42	HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV- ADOL HS .....	96	INTELENCE .....	36
GENVOYA .....	36	HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN .....	25	<i>intralipid</i> .....	94
GILOTRIF .....	49	HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN .....	25	<i>introvale</i> .....	87
<i>glatiramer</i> .....	13			INVEGA HAFYERA .....	18
<i>glatopa</i> .....	13			INVEGA SUSTENNA .....	18
GLEOSTINE .....	49, 50			INVEGA TRINZA .....	18
<i>glimepiride</i> .....	24			IPOL .....	30
<i>glipizide</i> .....	24				

<i>ipratropium bromide</i> .....	59, 101	<i>kelnor 1/35 (28)</i> .....	88	<i>leuprolide</i> .....	52
<i>ipratropium-albuterol</i> .....	101	<i>kelnor 1/50 (28)</i> .....	88	<i>levalbuterol hcl</i> .....	101
<i>irbesartan</i> .....	62	KERENDIA.....	62	<i>levetiracetam</i> .....	5
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i> ..	62	<i>ketoconazole</i> .....	34, 74	<i>levetiracetam in nacl (iso-os)</i> .....	5
<i>irinotecan</i> .....	50	<i>ketorolac</i> .....	82	<i>levobunolol</i> .....	82
ISENTRESS.....	36	KEYTRUDA.....	51	<i>levocarnitine</i> .....	80
ISENTRESS HD.....	36	KINRIX (PF).....	30	<i>levocarnitine (with sugar)</i> .....	80
<i>isibloom</i> .....	87	<i>kionex (with sorbitol)</i> .....	80	<i>levocetirizine</i> .....	99
ISOLYTE S PH 7.4.....	94	KISQALI.....	51	<i>levofloxacin</i> .....	39
ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE.....	94	KISQALI FEMARA CO-PACK.....	51	<i>levofloxacin in d5w</i> .....	39
ISOLYTE-S.....	94	<i>klayesta</i> .....	74	<i>levonest (28)</i> .....	88
<i>isoniazid</i> .....	42	<i>klor-con</i> .....	92	<i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i> .....	88
<i>isosorbide dinitrate</i> .....	67	<i>klor-con 10</i> .....	92	<i>levonorg-eth estrad triphasic</i> .....	88
<i>isosorbide mononitrate</i> .....	67	<i>klor-con 8</i> .....	92	<i>levora-28</i> .....	88
<i>isotretinoin</i> .....	76	<i>klor-con m10</i> .....	92	<i>levo-t</i> .....	23
<i>isradipine</i> .....	62	<i>klor-con m15</i> .....	92	<i>levothyroxine</i> .....	23
ITOVEBI.....	50	<i>klor-con m20</i> .....	92	<i>levoxyl</i> .....	23
<i>itraconazole</i> .....	34	KORLYM.....	28	LEXIVA.....	36
<i>ivabradine</i> .....	68	KOSELUGO.....	51	LIBERVANT.....	5
<i>ivermectin</i> .....	42	<i>kourzeq</i> .....	59	<i>lidocaine</i> .....	78
IWILFIN.....	50	KRAZATI.....	51	<i>lidocaine (pf)</i> .....	78
IXCHIQ (PF).....	30	<i>kurvelo (28)</i> .....	88	<i>lidocaine hcl</i> .....	78
IXIARO (PF).....	30	<i>l norgest/e.estradiol-e.estrad</i> .....	88	<i>lidocaine viscous</i> .....	78
JAKAFI.....	51	<i>labetalol</i> .....	62	<i>lidocaine-prilocaine</i> .....	78
<i>jantoven</i> .....	66	<i>lacosamide</i> .....	4, 5	<i>lidocan iii</i> .....	78
JANUMET.....	25	<i>lactated ringers</i> .....	92	<i>lidocan iv</i> .....	78
JANUMET XR.....	25	<i>lactulose</i> .....	71	<i>lidocan v</i> .....	78
JANUVIA.....	25	<i>lamivudine</i> .....	36	LILETTA.....	91
JARDIANCE.....	25	<i>lamivudine-zidovudine</i> .....	36	<i>linezolid</i> .....	42
<i>jasmiel (28)</i> .....	87	<i>lamotrigine</i> .....	5	<i>linezolid in dextrose 5%</i> .....	42
JAYPIRCA.....	51	<i>lanreotide</i> .....	51	<i>linezolid-0.9% sodium chloride</i> ..	42
JENTADUETO.....	25	<i>lansoprazole</i> .....	69	LINZESS.....	71
JENTADUETO XR.....	25	<i>lapatinib</i> .....	51	<i>liothyronine</i> .....	23
<i>jinteli</i> .....	85	<i>larin 1.5/30 (21)</i> .....	88	<i>lisdexamfetamine</i> .....	18
<i>jolessa</i> .....	87	<i>larin 1/20 (21)</i> .....	88	<i>lisinopril</i> .....	63
<i>juleber</i> .....	87	<i>larin 24 fe</i> .....	88	<i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i> .....	63
JULUCA.....	36	<i>larin fe 1.5/30 (28)</i> .....	88	<i>lithium carbonate</i> .....	18, 19
<i>junel 1.5/30 (21)</i> .....	87	<i>larin fe 1/20 (28)</i> .....	88	<i>lithium citrate</i> .....	19
<i>junel 1/20 (21)</i> .....	87	<i>latanoprost</i> .....	81	LIVTENCITY.....	36
<i>junel fe 1.5/30 (28)</i> .....	87	<i>layolis fe</i> .....	88	LOKELMA.....	80
<i>junel fe 1/20 (28)</i> .....	87	LAZCLUZE.....	51	LONSURF.....	52
<i>junel fe 24</i> .....	88	LEDIPASVIR-SOFOSBUVIR.....	36	<i>loperamide</i> .....	70
JYLAMVO.....	51	<i>leflunomide</i> .....	96	<i>lopinavir-ritonavir</i> .....	36
JYNNEOS (PF).....	30	<i>lenalidomide</i> .....	51	<i>lorazepam</i> .....	19
KADCYLA.....	51	LENVIMA.....	51, 52	<i>lorazepam intensol</i> .....	19
<i>kaitlib fe</i> .....	88	<i>lessina</i> .....	88	LORBRENA.....	52
KALYDECO.....	101	<i>letrozole</i> .....	52	<i>loryna (28)</i> .....	88
<i>kariva (28)</i> .....	88	<i>leucovorin calcium</i> .....	58	<i>losartan</i> .....	63

<i>losartan-hydrochlorothiazide</i> .....	63	<i>methenamine hippurate</i> .....	41	MOVANTIK .....	71
<i>loteprednol etabonate</i> .....	84	<i>methimazole</i> .....	23	<i>moxifloxacin</i> .....	39, 82
<i>lovastatin</i> .....	68	<i>methotrexate sodium</i> .....	53	<i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i> ...	39
<i>low-ogestrel (28)</i> .....	88	<i>methotrexate sodium (pf)</i> .....	53	MRESVIA (PF) .....	31
<i>loxapine succinate</i> .....	19	<i>methsuximide</i> .....	5	MULTAQ .....	60
<i>lubiprostone</i> .....	71	<i>methylphenidate hcl</i> .....	19	<i>mupirocin</i> .....	74
LUMAKRAS .....	52	<i>methylprednisolone</i> .....	22	<i>mycophenolate mofetil</i> .....	53
LUMIGAN .....	81	<i>methylprednisolone acetate</i> .....	22	<i>mycophenolate sodium</i> .....	53
LUMIZYME .....	28	<i>methylprednisolone sodium</i>		<i>myorisan</i> .....	77
LUPRON DEPOT .....	52	<i>succ</i> .....	22, 23	MYRBETRIQ .....	97
<i>lurasidone</i> .....	19	<i>metoclopramide hcl</i> .....	71	<i>nabumetone</i> .....	9
<i>lutra (28)</i> .....	88	<i>metolazone</i> .....	63	<i>nadolol</i> .....	63
<i>lyleq</i> .....	85	<i>metoprolol succinate</i> .....	63	<i>nafacillin</i> .....	40
<i>lyllana</i> .....	85	<i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz</i> ..	63	<i>nafacillin in dextrose iso-osm</i> .....	40
LYNPARZA .....	52	<i>metoprolol tartrate</i> .....	63	<i>naftifine</i> .....	74
LYSODREN .....	52	<i>metro i.v.</i> .....	42	NAGLAZYME .....	28
LYTGOBI .....	52	<i>metronidazole</i> .....	42, 77, 91	<i>nalbuphine</i> .....	9
<i>lyza</i> .....	85	<i>metronidazole in nacl (iso-os)</i> .....	42	<i>naloxone</i> .....	9
<i>magnesium sulfate</i> .....	92	<i>metyrosine</i> .....	63	<i>naltrexone</i> .....	9
MAGNESIUM SULFATE IN D5W ..	92	<i>mexiletine</i> .....	60	NAMZARIC .....	13
<i>magnesium sulfate in water</i> .....	92	<i>mibelas 24 fe</i> .....	89	<i>naproxen</i> .....	9
<i>malathion</i> .....	76	<i>micafungin</i> .....	34	<i>naproxen sodium</i> .....	9
<i>maraviroc</i> .....	36	<i>microgestin 1.5/30 (21)</i> .....	89	<i>naratriptan</i> .....	11
<i>marlissa (28)</i> .....	88	<i>microgestin 1/20 (21)</i> .....	89	<i>nateglinide</i> .....	26
MARPLAN .....	19	<i>microgestin 24 fe</i> .....	89	NAYZILAM .....	5
MATULANE .....	52	<i>microgestin fe 1.5/30 (28)</i> .....	89	<i>nebivolol</i> .....	63
<i>matzim la</i> .....	63	<i>microgestin fe 1/20 (28)</i> .....	89	<i>necon 0.5/35 (28)</i> .....	89
<i>meclizine</i> .....	71	<i>midodrine</i> .....	80	<i>nefazodone</i> .....	19
<i>medroxyprogesterone</i> .....	85	<i>mifepristone</i> .....	28	<i>neomycin</i> .....	42
<i>mefloquine</i> .....	42	<i>mili</i> .....	89	<i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i> .....	83
<i>megestrol</i> .....	52	<i>mimvey</i> .....	85	<i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i> ..	82
MEKINIST .....	52	<i>minocycline</i> .....	39	<i>neomycin-polymyxin b-</i>	
MEKTOVI .....	52	<i>minoxidil</i> .....	63	<i>dexameth</i> .....	83
<i>meloxicam</i> .....	9	<i>mirtazapine</i> .....	19	<i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i> ..	82
<i>memantine</i> .....	13	<i>misoprostol</i> .....	69	<i>neomycin-polymyxin-hc</i> .....	59, 83
MENACTRA (PF) .....	31	M-M-R II (PF) .....	31	NERLYNX .....	53
MENQUADFI (PF) .....	31	<i>modafinil</i> .....	19	<i>neuac</i> .....	77
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) ..	31	<i>moexipril</i> .....	63	NEUPRO .....	8
<i>mercaptopurine</i> .....	52	<i>molindone</i> .....	19	<i>nevirapine</i> .....	36
<i>meropenem</i> .....	42	<i>mometasone</i> .....	75, 76, 101	NEXPLANON .....	91
<i>mesalamine</i> .....	71	MONJUVI .....	53	<i>niacin</i> .....	68
<i>mesalamine with cleansing</i>		<i>mono-lynyah</i> .....	89	<i>nicardipine</i> .....	63
<i>wipe</i> .....	71	<i>montelukast</i> .....	101, 102	NICOTROL .....	78
MESNEX .....	58	<i>morphine</i> .....	10, 11	NICOTROL NS .....	79
<i>metformin</i> .....	26	MORPHINE .....	11	<i>nifedipine</i> .....	63
<i>methadone</i> .....	10	<i>morphine (pf)</i> .....	10	<i>nikki (28)</i> .....	89
<i>methadone intensol</i> .....	10	<i>morphine concentrate</i> .....	10	<i>nilutamide</i> .....	53
<i>methazolamide</i> .....	82	MOUNJARO .....	26	<i>nimodipine</i> .....	63

NINLARO.....	53	<i>octreotide acetate</i> .....	53	PANZYGA.....	31
<i>nitazoxanide</i> .....	42	ODEFSEY.....	36	<i>paraplatin</i> .....	54
<i>nitisinone</i> .....	80	ODOMZO.....	53	<i>paricalcitol</i> .....	28
<i>nitro-bid</i> .....	67	OFEV.....	102	<i>paroxetine hcl</i> .....	20
<i>nitrofurantoin macrocrystal</i> .....	41	<i>ofloxacin</i> .....	59, 82	PAXLOVID.....	36
<i>nitrofurantoin monohyd/m-</i>		OGSIVEO.....	53	<i>pazopanib</i> .....	54
<i>cryst</i> .....	41	OJEMDA.....	53, 54	PEDIARIX (PF).....	31
<i>nitroglycerin</i> .....	67, 71	OJJAARA.....	54	PEDVAX HIB (PF).....	31
NIVESTYM.....	33	<i>olanzapine</i> .....	20	<i>peg 3350-electrolytes</i> .....	71
<i>nizatidine</i> .....	69	<i>olmesartan</i> .....	63	PEGASYS.....	33
<i>nora-be</i> .....	85	<i>olmesartan-amlodipin-hcthiiazid</i> .....	64	<i>peg-electrolyte soln</i> .....	72
<i>norelgestromin-ethin.estradiol</i> ...	91	<i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i> .....	64	PEMAZYRE.....	54
<i>noreth-ethinyl estradiol-iron</i> .....	89	<i>olopatadine</i> .....	59	<i>pemetrexed disodium</i> .....	54
<i>norethindrone (contraceptive)</i> ....	85	<i>omeprazole</i> .....	69	PEN NEEDLE, DIABETIC.....	99
<i>norethindrone acetate</i> .....	85	OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO		PENBRAYA (PF).....	31
<i>norethindrone ac-eth estradiol</i>		KT(GEN5).....	99	<i>penicillamine</i> .....	96
.....	85, 89	OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN		PENICILLIN G POT IN DEXTROSE.....	40
<i>norethindrone-e.estradiol-iron</i> ...	89	5).....	99	<i>penicillin g potassium</i> .....	40
<i>norgestimate-ethinyl estradiol</i> ...	89	OMNIPOD DASH INTRO KIT		<i>penicillin g sodium</i> .....	40
<i>nortrel 0.5/35 (28)</i> .....	89	(GEN 4).....	99	<i>penicillin v potassium</i> .....	40, 41
<i>nortrel 1/35 (21)</i> .....	89	OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)..	99	PENTACEL (PF).....	31
<i>nortrel 1/35 (28)</i> .....	89	OMNITROPE.....	33	<i>pentamidine</i> .....	42
<i>nortrel 7/7/7 (28)</i> .....	89	<i>ondansetron</i> .....	71	<i>pentoxifylline</i> .....	66
<i>nortriptyline</i> .....	20	<i>ondansetron hcl</i> .....	71	<i>perindopril erbumine</i> .....	64
NORVIR.....	36	<i>ondansetron hcl (pf)</i> .....	71	<i>periogard</i> .....	59
NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN.....	26	ONUREG.....	54	<i>permethrin</i> .....	76
NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100.....	26	OPSUMIT.....	102	<i>perphenazine</i> .....	20
NOVOLIN N FLEXPEN.....	26	ORGOVYX.....	54	<i>pfizerpen-g</i> .....	41
NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN.....	26	ORKAMBI.....	102	<i>phenelzine</i> .....	20
NOVOLIN R FLEXPEN.....	26	ORSERDU.....	54	<i>phenobarbital</i> .....	5
NOVOLIN R REGULAR U100		<i>oseltamivir</i> .....	36	<i>phenobarbital sodium</i> .....	5
INSULIN.....	26	OTEZLA.....	96	<i>phenytoin</i> .....	5
NUBEQA.....	53	OTEZLA STARTER.....	96	<i>phenytoin sodium</i> .....	6
NUDEXTA.....	13	<i>oxacillin</i> .....	40	<i>phenytoin sodium extended</i> .....	6
NULOJIX.....	53	<i>oxaliplatin</i> .....	54	<i>philith</i> .....	90
NUPLAZID.....	20	<i>oxaprozin</i> .....	9	PIFELTRO.....	36
NURTEC ODT.....	11	<i>oxcarbazepine</i> .....	5	<i>pilocarpine hcl</i> .....	80, 83
<i>nyamyc</i> .....	74	OXERVATE.....	83	<i>pimecrolimus</i> .....	78
<i>nylia 1/35 (28)</i> .....	89	<i>oxybutynin chloride</i> .....	97, 98	<i>pimozide</i> .....	20
<i>nylia 7/7/7 (28)</i> .....	89	<i>oxycodone</i> .....	11	<i>pimtrea (28)</i> .....	90
<i>nymyo</i> .....	89	<i>oxycodone-acetaminophen</i> .....	11	<i>pindolol</i> .....	64
<i>nystatin</i> .....	34, 74	OZEMPIC.....	26	<i>pioglitazone</i> .....	26
<i>nystop</i> .....	74	<i>pacerone</i> .....	60	<i>pioglitazone-glimepiride</i> .....	26
NYVEPRIA.....	33	<i>paclitaxel</i> .....	54	<i>pioglitazone-metformin</i> .....	26
OICALIVA.....	71	<i>paliperidone</i> .....	20	<i>piperacillin-tazobactam</i> .....	41
<i>ocella</i> .....	89	<i>pamidronate</i> .....	28	PIQRAY.....	54
OCREVUS.....	13	PANRETIN.....	78	<i>pirfenidone</i> .....	102
OCTAGAM.....	31	<i>pantoprazole</i> .....	69	<i>pirmella</i> .....	90

<i>piroxicam</i> .....	9	<i>prochlorperazine</i> .....	72	RETEVMO.....	54, 55
<i>pitavastatin calcium</i> .....	68	<i>prochlorperazine edisylate</i> .....	72	REXULTI.....	20
PLASMA-LYTE A.....	94	<i>prochlorperazine maleate</i> .....	72	REYATAZ.....	37
PLENAMINE.....	94	<i>procto-med hc</i> .....	72	REZLIDHIA.....	55
PLENVU.....	72	<i>proctosol hc</i> .....	72	REZUROCK.....	55
<i>podofilox</i> .....	78	<i>proctozone-hc</i> .....	72	RHOPRESSA.....	81
<i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i> ...	82	<i>progesterone</i> .....	85	<i>ribavirin</i> .....	37
POMALYST.....	54	<i>progesterone micronized</i> .....	85	<i>rifabutin</i> .....	43
<i>portia 28</i> .....	90	PROGRAF.....	54	<i>rifampin</i> .....	43
<i>posaconazole</i> .....	34	PROLASTIN-C.....	80	<i>riluzole</i> .....	80
<i>potassium chlorid-d5-0.45%nacl</i>	92	PROLENSA.....	82	<i>rimantadine</i> .....	37
<i>potassium chloride</i> .....	92, 93	PROLIA.....	97	RINVOQ.....	96
<i>potassium chloride in 0.9%nacl</i> ..	92	PROMACTA.....	66	<i>risedronate</i> .....	80, 97
<i>potassium chloride in 5 % dex</i> ....	92	<i>promethazine</i> .....	99	RISPERDAL CONSTA.....	21
<i>potassium chloride in water</i> .....	92	<i>propafenone</i> .....	60	<i>risperidone</i> .....	21
<i>potassium chloride-0.45 % nacl</i> ..	93	<i>propranolol</i> .....	64	<i>ritonavir</i> .....	37
<i>potassium chloride-d5-0.2%nacl</i>	93	<i>propylthiouracil</i> .....	23	<i>rivastigmine</i> .....	13
<i>potassium chloride-d5-0.9%nacl</i>	93	PROQUAD (PF).....	31	<i>rivastigmine tartrate</i> .....	13
<i>potassium citrate</i> .....	98	<i>protriptyline</i> .....	20	<i>rivelsa</i> .....	90
PRALUENT PEN.....	68	PULMOZYME.....	102	<i>rizatriptan</i> .....	11, 12
<i>pramipexole</i> .....	8	PURIXAN.....	54	ROCKLATAN.....	81
<i>prasugrel</i> .....	66	<i>pyrazinamide</i> .....	43	<i>roflumilast</i> .....	102
<i>pravastatin</i> .....	68	<i>pyridostigmine bromide</i> .....	11	<i>ropinirole</i> .....	8
<i>praziquantel</i> .....	42	<i>pyrimethamine</i> .....	43	<i>rosuvastatin</i> .....	68
<i>prazosin</i> .....	64	QINLOCK.....	54	ROTARIX.....	32
<i>prednisolone</i> .....	23	QUADRACEL (PF).....	31	ROTATEQ VACCINE.....	32
<i>prednisolone acetate</i> .....	84	<i>quetiapine</i> .....	20	<i>roweepra</i> .....	6
<i>prednisolone sodium phosphate</i> .....	23, 84	QUETIAPINE.....	20	ROZLYTREK.....	55
<i>prednisone</i> .....	23	<i>quinapril</i> .....	64	RUBRACA.....	55
<i>prednisone intensol</i> .....	23	<i>quinapril-hydrochlorothiazide</i> ....	64	<i>rufinamide</i> .....	6
<i>pregabalin</i> .....	6	<i>quinidine sulfate</i> .....	60	RUKOBIA.....	37
PREHEVBRIO (PF).....	31	<i>quinine sulfate</i> .....	43	RUXIENCE.....	55
PREMARIN.....	85	RABAVERT (PF).....	32	RYBELSUS.....	27
<i>premasol 10 %</i> .....	94	<i>rabeprazole</i> .....	69	RYDAPT.....	55
<i>prenatal vitamin plus low iron</i> ....	93	RADICAVA ORS.....	13	<i>sajazir</i> .....	102
<i>prevalite</i> .....	68	RADICAVA ORS STARTER KIT SUSP.....	13	SANDIMMUNE.....	55
PREVYMIS.....	36	<i>raloxifene</i> .....	97	SANTYL.....	78
PREZCOBIX.....	37	<i>ramipril</i> .....	64	<i>sapropterin</i> .....	28
PREZISTA.....	37	<i>ranolazine</i> .....	68	SAVELLA.....	96
PRIFTIN.....	43	<i>rasagiline</i> .....	8	<i>saxagliptin</i> .....	27
PRIMAQUINE.....	43	<i>reclipsen (28)</i> .....	90	SCSEMBLIX.....	55
PRIMIDONE.....	6	RECOMBIVAX HB (PF).....	32	<i>scopolamine base</i> .....	72
<i>primidone</i> .....	6	RECTIV.....	72	SECUADO.....	21
PRIORIX (PF).....	31	REGRANEX.....	78	<i>selegiline hcl</i> .....	8
PRIVIGEN.....	31	RELENZA DISKHALER.....	37	<i>selenium sulfide</i> .....	73
<i>probenecid</i> .....	97	<i>repaglinide</i> .....	26, 27	SELZENTRY.....	37
<i>probenecid-colchicine</i> .....	97	RETACRIT.....	33	SEREVENT DISKUS.....	102
				<i>sertraline</i> .....	21



<i>setlakin</i> .....	90	<i>sulfadiazine</i> .....	44	<i>teriflunomide</i> .....	13
<i>sharobel</i> .....	85	<i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i> ..	44	TERIPARATIDE.....	97
SHINGRIX (PF).....	32	<i>sulfasalazine</i> .....	72	<i>testosterone</i> .....	28
SIGNIFOR.....	55	<i>sulindac</i> .....	9	<i>testosterone cypionate</i> .....	28
<i>sildenafil (pulm.hypertension)</i> ..	102	<i>sumatriptan</i> .....	12	<i>testosterone enanthate</i> .....	28
<i>silver sulfadiazine</i> .....	78	<i>sumatriptan succinate</i> .....	12	TETANUS,DIPHThERIA TOX	
<i>simvastatin</i> .....	68	<i>sunitinib malate</i> .....	55	PED(PF).....	32
<i>sirolimus</i> .....	55	SUNLENCA.....	37	<i>tetrabenazine</i> .....	13
SIRTURO.....	43	SUPREP BOWEL PREP KIT.....	72	<i>tetracycline</i> .....	39
SKYRIZI.....	72, 73	<i>syeda</i> .....	90	THALOMID.....	56
<i>sodium chloride</i> .....	81, 93	SYMDEKO.....	102	THEO-24.....	102
<i>sodium chloride 0.45 %</i> .....	93	SYMPAZAN.....	6	<i>theophylline</i> .....	102
<i>sodium chloride 0.9 %</i> .....	80, 81	SYMTUZA.....	37	<i>thioridazine</i> .....	21
<i>sodium chloride 3 % hypertonic</i> ..	93	SYNJARDY.....	27	<i>thiothixene</i> .....	21
<i>sodium chloride 5 % hypertonic</i> ..	93	SYNJARDY XR.....	27	<i>tiadylt er</i> .....	64
SODIUM OXYBATE.....	21	SYNTHROID.....	23	<i>tiagabine</i> .....	6
<i>sodium phenylbutyrate</i> .....	81	TABLOID.....	55	TIBSOVO.....	56
<i>sodium polystyrene sulfonate</i> .....	81	TABRECTA.....	56	TICOVAC.....	32
<i>sodium,potassium,mag sulfates</i> ..	72	<i>tacrolimus</i> .....	56, 78	<i>tigecycline</i> .....	43
SOFOSBUVIR-VELPATASVIR.....	37	<i>tadalafil</i> .....	98	<i>tilia fe</i> .....	90
<i>solifenacin</i> .....	98	<i>tadalafil (pulm. hypertension)</i> ..	102	<i>timolol maleate</i> .....	64, 83
SOLQUA 100/33.....	27	TAFINLAR.....	56	<i>tinidazole</i> .....	43
SOLTAMOX.....	55	TAGRISSO.....	56	TIVICAY.....	37
SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL (PF)...	23	TALVEY.....	56	TIVICAY PD.....	37
SOMATULINE DEPOT.....	55	TALZENNA.....	56	<i>tizanidine</i> .....	11
SOMAVERT.....	28	<i>tamoxifen</i> .....	56	TOBRADEX.....	83
<i>sorafenib</i> .....	55	<i>tamsulosin</i> .....	98	<i>tobramycin</i> .....	82
<i>sorine</i> .....	60	<i>tarina 24 fe</i> .....	90	<i>tobramycin in 0.225 % nacl</i> .....	43
<i>sotalol</i> .....	60	<i>tarina fe 1-20 eq (28)</i> .....	90	<i>tobramycin sulfate</i> .....	43
<i>sotalol af</i> .....	60	TASIGNA.....	56	<i>tobramycin-dexamethasone</i> .....	83
<i>spironolactone</i> .....	64	<i>tazarotene</i> .....	77	<i>tolterodine</i> .....	98
<i>spironolacton-hydrochlorothiaz</i> ..	64	<i>tazicef</i> .....	45	<i>tolvaptan</i> .....	28
<i>sprintec (28)</i> .....	90	<i>taztia xt</i> .....	64	<i>topiramate</i> .....	6
SPRITAM.....	6	TAZVERIK.....	56	<i>toremifene</i> .....	56
SPRYCEL.....	55	TDVAX.....	32	<i>torse mide</i> .....	64
<i>sps (with sorbitol)</i> .....	81	TECENTRIQ.....	56	TRADJENTA.....	27
<i>sronyx</i> .....	90	TEFLARO.....	45	<i>tramadol</i> .....	9
<i>ssd</i> .....	78	<i>telmisartan</i> .....	64	<i>tramadol-acetaminophen</i> .....	9
STAMARIL (PF).....	32	<i>telmisartan-amlodipine</i> .....	64	<i>trandolapril</i> .....	65
STELARA.....	73	<i>telmisartan-hydrochlorothiazid</i> ..	64	<i>tranexamic acid</i> .....	91
STIVARGA.....	55	<i>temazepam</i> .....	21	<i>tranylcypramine</i> .....	21
STREPTOMYCIN.....	43	TENIVAC (PF).....	32	<i>travasol 10 %</i> .....	94
STRIBILD.....	37	<i>tenofovir disoproxil fumarate</i> .....	37	<i>travoprost</i> .....	81
SUCRAID.....	72	TEPMETKO.....	56	TRAZIMERA.....	56
<i>sucrafate</i> .....	69	<i>terazosin</i> .....	64	<i>trazodone</i> .....	21
<i>sulfacetamide sodium</i> .....	83	<i>terbinafine hcl</i> .....	34	TRECATOR.....	43
<i>sulfacetamide sodium (acne)</i> .....	74	<i>terbutaline</i> .....	102	TRELEGY ELLIPTA.....	102
<i>sulfacetamide-prednisolone</i> .....	83	<i>terconazole</i> .....	91	TREMFYA.....	73

TREMFYA PEN.....	73	<i>ursodiol</i> .....	72	<i>vylibra</i> .....	91
<i>treprostinil sodium</i> .....	65	<i>valacyclovir</i> .....	37	VYNDAQEL.....	68
<i>tretinoin</i> .....	77	VALCHLOR.....	78	<i>warfarin</i> .....	66
<i>tretinoin (antineoplastic)</i> .....	56	<i>valganciclovir</i> .....	37, 38	<i>water for irrigation, sterile</i> .....	81
<i>tretinoin microspheres</i> .....	77	<i>valproate sodium</i> .....	6	WELIREG.....	57
<i>triamcinolone acetonide</i> .....	59, 76	<i>valproic acid</i> .....	6	<i>wera (28)</i> .....	91
<i>triamterene-hydrochlorothiazid</i> .....	65	<i>valproic acid (as sodium salt)</i> .....	6	<i>wymzya fe</i> .....	91
<i>tridacaine</i> .....	78	<i>valsartan</i> .....	65	XALKORI.....	57
<i>tridacaine ii</i> .....	78	<i>valsartan-hydrochlorothiazide</i> .....	65	XARELTO.....	66
<i>triderm</i> .....	76	VALTOCO.....	6	XARELTO DVT-PE TREAT 30D	
<i>trientine</i> .....	81	<i>vancomycin</i> .....	43	START.....	66
<i>tri-estarylla</i> .....	90	VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM		XATMEP.....	57
<i>trifluoperazine</i> .....	21	CHL.....	43	XCOPRI.....	7
<i>trifluridine</i> .....	82	VANFLYTA.....	57	XCOPRI MAINTENANCE PACK.....	7
<i>trihexyphenidyl</i> .....	8	VAQTA (PF).....	33	XCOPRI TITRATION PACK.....	7
TRIJARDY XR.....	27	<i>varenicline tartrate</i> .....	79	XDEMZY.....	83
TRIKAFTA.....	102, 103	VARIVAX (PF).....	33	XERMELO.....	57
<i>tri-legest fe</i> .....	90	VASCEPA.....	68	XGEVA.....	59
<i>tri-linyah</i> .....	90	<i>velivet triphasic regimen (28)</i> .....	91	XIFAXAN.....	44
<i>tri-lo-estarylla</i> .....	90	VEMLIDY.....	38	XIGDUO XR.....	27
<i>tri-lo-marzia</i> .....	90	VENCLEXTA.....	57	XOLAIR.....	103
<i>tri-lo-mili</i> .....	90	VENCLEXTA STARTING PACK.....	57	XOSPATA.....	57
<i>tri-lo-sprintec</i> .....	90	<i>venlafaxine</i> .....	21	XPOVIO.....	58
<i>trimethoprim</i> .....	41	VENTOLIN HFA.....	103	XTANDI.....	58
<i>tri-mili</i> .....	90	<i>verapamil</i> .....	65	<i>xulane</i> .....	91
<i>trimipramine</i> .....	21	VERQUVO.....	68	XULTOPHY 100/3.6.....	27
TRINTELLIX.....	21	VERSACLOZ.....	21	YF-VAX (PF).....	33
<i>tri-nymyo</i> .....	90	VERZENIO.....	57	YUFLYMA(CF).....	96, 97
<i>tri-sprintec (28)</i> .....	90	<i>vestura (28)</i> .....	91	YUFLYMA(CF) AI CROHN'S-UC-	
TRIUMEQ.....	37	<i>vienna</i> .....	91	HS.....	96
TRIUMEQ PD.....	37	<i>vigabatrin</i> .....	6, 7	YUFLYMA(CF) AUTOINJECTOR.....	96
<i>trivora (28)</i> .....	90	<i>vigadrone</i> .....	7	<i>yuvafem</i> .....	85
<i>tri-vylibra</i> .....	91	<i>vigpoder</i> .....	7	<i>zafemy</i> .....	91
<i>tri-vylibra lo</i> .....	90	<i>vilazodone</i> .....	21	<i>zafirlukast</i> .....	103
TRIZIVIR.....	37	<i>vincristine</i> .....	57	ZEJULA.....	58
TROGARZO.....	37	<i>vinorelbine</i> .....	57	ZELBORAF.....	58
TROPHAMINE 10 %.....	94	<i>viorele (28)</i> .....	91	<i>zenatane</i> .....	77
<i>trospium</i> .....	98	VIRACEPT.....	38	ZENPEP.....	73
TRULANCE.....	72	VIREAD.....	38	<i>zidovudine</i> .....	38
TRULICITY.....	27	VITRAKVI.....	57	<i>ziprasidone hcl</i> .....	22
TRUMENBA.....	32	VIVITROL.....	9	<i>ziprasidone mesylate</i> .....	22
TRUQAP.....	56	VIZIMPRO.....	57	ZIRABEV.....	58
TUKYSA.....	56	VONJO.....	57	ZIRGAN.....	82
TURALIO.....	56	VORANIGO.....	57	<i>zoledronic acid</i> .....	29
<i>turqoz (28)</i> .....	91	<i>voriconazole</i> .....	34	<i>zoledronic acid-mannitol-water</i> .....	81
TWINRIX (PF).....	32	VOWST.....	72	ZOLINZA.....	58
TYPHIM VI.....	32	VRAYLAR.....	21	<i>zolmitriptan</i> .....	12
<i>unithroid</i> .....	24	<i>vyfemla (28)</i> .....	91	<i>zolpidem</i> .....	22

ZONISADE .....	7
<i>zonisamide</i> .....	7
<i>zovia 1-35 (28)</i> .....	91
ZTALMY .....	7
<i>zumandimine (28)</i> .....	91
ZURZUVAE .....	22
ZYDELIG .....	58
ZYKADIA .....	58
ZYPREXA RELPREVV .....	22

“Wellcare” को Coordinated Care of Washington, Inc. द्वारा जारी किया गया है।

“Wellcare” को WellCare Health Insurance Company of Washington, Inc. द्वारा जारी किया गया है।

Texas D-SNP के सदस्य: Wellcare HMO D-SNP सदस्य के रूप में, आपके पास Medicare और Medicaid दोनों का कवरेज है। आप Wellcare के माध्यम से Medicare health care और प्रिस्क्रिप्शन की दवा का कवरेज प्राप्त करते हैं और Texas Medicaid के माध्यम से अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और कवरेज प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं। <https://www.wellcarefindaprovider.com/navigate-a-network.html> पर जाकर Texas Medicaid में भाग लेने वाले प्रदाताओं के बारे में अधिक जानें। Texas Medicaid लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया Texas Medicaid वेबसाइट <https://www.hhs.texas.gov/services/health/medicaid-chip/medicaid-chip-members/starplus> पर जाएं। हमारी Medicaid प्रदाता निर्देशिका की लिखित कॉपी का अनुरोध करने के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।

**Multi-Language Insert**  
**Multi-language Interpreter Services**

**English:** We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. Someone who speaks English/Language can help you. This is a free service.

**Spanish:** Contamos con los servicios de interpretación gratuitos para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para solicitar un intérprete, llámenos al **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. Alguien que hable español puede ayudarlo. Este es un servicio gratuito.

**Chinese (Mandarin):** 我们提供免费的口译服务，可解答您对我们的健康或药物计划的有关疑问。如需译员，请拨打 **1-877-374-4056 (TTY: 711)**。您将获得中文普通话口译员的帮助。这是一项免费服务。

**Chinese (Cantonese):** 我們提供免費的口譯服務，可解答您對我們的健康或藥物計劃可能有的任何疑問。如需口譯員服務，請致電 **1-877-374-4056 (TTY: 711)**。會說廣東話的人員可以幫助您。此為免費服務。

**Tagalog:** May mga libre kaming serbisyo ng interpreter para sagutin ang anumang posible ninyong tanong tungkol sa aming planong pangkalusugan o plano sa gamot. Para kumuha ng interpreter, tawagan lang kami sa **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. May makakatulong sa inyo na nagsasalita ng Tagalog. Isa itong libreng serbisyo.

**French:** Nous mettons à votre disposition des services d'interprétation gratuits pour répondre à toutes vos questions sur notre régime de santé ou de médicaments. Pour obtenir les services d'un interprète, appelez-nous au **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. Un interlocuteur francophone pourra vous aider. Ce service est gratuit.

**Vietnamese:** Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị về chương trình sức khỏe hoặc chương trình thuốc của chúng tôi. Để nhận thông dịch viên, chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. Một nhân viên nói tiếng Việt có thể giúp quý vị. Dịch vụ này được miễn phí.

**German:** Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Dolmetschservice, wenn Sie Fragen zu unseren Gesundheits- oder Medikamentenplänen haben. Wenn Sie einen Dolmetscher brauchen, rufen Sie uns unter folgender Telefonnummer an: **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. Ein deutschsprachiger Mitarbeiter wird Ihnen behilflich sein. Dieser Service ist kostenlos.

**Korean:** 당사의 건강 또는 의약품 플랜과 관련해서 물어볼 수 있는 모든 질문에 답변하기 위한 무료 통역 서비스가 있습니다. 통역사가 필요한 경우, **1-877-374-4056(TTY: 711)**번으로 당사에 연락해 주십시오. 한국어를 구사하는 통역사가 도움을 드릴 수 있습니다. 통역 서비스는 무료로 제공됩니다.

**Russian:** Если у вас возникли какие-либо вопросы о нашем плане медицинского страхования или плане с покрытием лекарственных препаратов, вам доступны бесплатные услуги переводчика. Если вам нужен переводчик, просто позвоните нам по номеру **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. Вам окажет помощь сотрудник, говорящий на русском языке. Данная услуга бесплатна.

**Arabic:** نوّفّر خدمات ترجمة فورية مجانية للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول خطة الصحة أو الدواء الخاصة بنا. للحصول على مترجم فوري، ما عليك سوى الاتصال بنا على الرقم **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. يمكن أن يساعدك شخص يتحدث العربية. وتتوفر هذه الخدمة بشكل مجاني.

**Hindi:** हमारे स्वास्थ्य या ड्रग प्लान के बारे में आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हम मुफ़्त में दुभाषिया सेवाएं देते हैं। दुभाषिया सेवा पाने के लिए, बस हमें **1-877-374-4056 (TTY: 711)** पर कॉल करें। हिंदी बोलने वाला/वाली कोई सहायक आपकी मदद कर सकता/सकती है। यह एक नि:शुल्क सेवा है।

**Italian:** Sono disponibili servizi di interpretariato gratuiti per rispondere a qualsiasi domanda possa avere in merito al nostro piano farmacologico o sanitario. Per usufruire di un interprete, è sufficiente contattare il **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. Qualcuno la assisterà in lingua italiana. È un servizio gratuito.

**Portuguese:** Temos serviços de intérprete gratuitos para responder a quaisquer dúvidas que possa ter sobre o nosso plano de saúde ou medicação. Para obter um intérprete, contacte nos através do número **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. Um falante de português poderá ajudá-lo. Este serviço é gratuito.

**French Creole:** Nou gen sèvis entèprèt gratis pou reponn nenpòt kesyon ou ka genyen sou plan sante oswa plan medikaman nou an. Pou jwenn yon entèprèt, annik rele nou nan **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. Yon moun ki pale Kreyol Ayisyen ka ede w. Se yon sèvis ki gratis.

**Polish:** Oferujemy bezpłatną usługę tłumaczenia ustnego, która pomoże Państwu uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące naszego planu leczenia lub planu refundacji leków. Aby skorzystać z usługi tłumaczenia ustnego, wystarczy zadzwonić pod numer **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. Zapewni to Państwu pomoc osoby mówiącej po polsku. Usługa ta jest bezpłatna.

**Japanese:** 弊社の健康や薬剤計画についてご質問がある場合は、無料の通訳サービスをご利用いただけます。通訳を利用するには、**1-877-374-4056 (TTY: 711)** にお電話ください。日本語の通訳担当者が対応します。これは無料のサービスです。

**Hawaiian:** Loa‘a iā mākou nā lawelawe unuhi ‘ōlelo manuahi e pane i nā nīnau āu e pili ana i kā mākou papahana olakino a lā‘au paha. No ka loa‘a ‘ana o ka unuhi ‘ōlelo e kelepona iā mākou ma **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. Hiki i kekahi kanaka ‘ōlelo Hawai‘i ke kōkua iā ‘oe. He lawelawe manuahi kēia.

**Ilocano:** Adda iti libre a serbisyo ti panagpatarus mi tapno masungbatan ti anyaman a saludsod mo maipanggep iti plano ti salun-at wenna agas mi. Tapno makaala ti maysa nga agipatpatarus pakiawagan dakami laeng iti **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. Mabalín nga makatulóng kenka ti maysa nga agsasao iti Ilocano. Daytoy ket libre a serbisio.

**Samoan:** E iai matou auaunaga faamatala upu e tali atu i soo se fesili e te ono fesili ai e uiga ia matou fuafuaga tau soifua maloloina poo fualaau. Ina ia maua se tagata faamatala upu na’o le vili mai a matou i le **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. E mafai ona fesoasoani atu ia te oe se tasi e tautala i le gagana Samoan. E leai se totogi o lenei auaunaga.

**Ukrainian:** Ми безкоштовно надаємо послуги перекладачів, щоб ви могли отримати відповіді на будь-які запитання щодо нашого плану медичного обслуговування чи забезпечення лікарськими засобами. Щоб отримати допомогу перекладача, просто зателефонуйте нам за номером **1-877-374-4056 (TTY: 711)**. Спеціаліст, який володіє українською, допоможе вам. Ця послуга безкоштовна.

**Lao:** ພວກເຮົາມີບໍລິການຄົນພາສາພຣີ ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມທີ່ທ່ານອາດຈະມີກ່ຽວກັບແຜນສຸຂະພາບ ຫຼື ຢາຂອງພວກເຮົາ. ເພື່ອຂໍຄືນແປພາສາ ພຽງແຕ່ໂທຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເບີ 1-877-374-4056 (TTY: 711). ມີຄົນທີ່ເວົ້າພາສາລາວສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້. ນີ້ແມ່ນບໍລິການພຣີ.

**Cambodian:** យើងមានសេវាកប្រែផ្ទាល់មាត់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ឆ្លើយរាល់សំណួរដែលអ្នកមានអំពីគម្រោងឱសថបូគម្រោងសុខភាពរបស់យើង។ ដើម្បីទទួលបានអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ គ្រាន់តែទូរសព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ 1-877-374-4056 (TTY: 711)។ មនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយភាសាខ្មែរបានអាចជួយអ្នកបាន។ នេះជាសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ។

**Hmong:** Peb muaj cov kev pab cuam kws txhais lus pab dawb los teb cov nqe lus nug twg uas koj yuav muaj hais txog peb lub phiaj xwm duav roos kev noj qab haus huv thiab tshuaj. Yog xav tau ib tug kws txhais lus ces tsuas hu rau peb tau ntawm 1-877-374-4056 (TTY: 711). Ib tug neeg twg uas hais tau lus Hmoob yuav pab tau koj. Qhov no yog kev pab cuam pab dawb xwb.

**Thai:** เรามีบริการล่ามแปลภาษาให้ฟรีเพื่อตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับแผนด้านสุขภาพหรือยาของเรา หากต้องการล่ามแปลภาษา โปรดติดต่อเราที่หมายเลข 1-877-374-4056 (TTY: 711) คนที่พูดภาษาไทยได้สามารถช่วยคุณได้ บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

**Multi-Language Insert**  
**Multi-language Interpreter Services**

**English:** We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at **1-844-428-2224 (TTY: 711)**. Someone who speaks English/Language can help you. This is a free service.

**Spanish:** Contamos con los servicios de interpretación gratuitos para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para solicitar un intérprete, llámenos al **1-844-428-2224 (TTY: 711)**. Alguien que hable español puede ayudarlo. Este es un servicio gratuito.

**Chinese (Mandarin):** 我们提供免费的口译服务，可解答您对我们的健康或药物计划的有关疑问。如需译员，请拨打 **1-844-428-2224 (TTY: 711)**。您将获得中文普通话口译员的帮助。这是一项免费服务。

**Chinese (Cantonese):** 我們提供免費的口譯服務，可解答您對我們的健康或藥物計劃可能有的任何疑問。如需口譯員服務，請致電 **1-844-428-2224 (TTY: 711)**。會說廣東話的人員可以幫助您。此為免費服務。

**Tagalog:** May mga libre kaming serbisyo ng interpreter para sagutin ang anumang posible ninyong tanong tungkol sa aming planong pangkalusugan o plano sa gamot. Para kumuha ng interpreter, tawagan lang kami sa **1-844-428-2224 (TTY: 711)**. May makakatulong sa inyo na nagsasalita ng Tagalog. Isa itong libreng serbisyo.

**French:** Nous mettons à votre disposition des services d'interprétation gratuits pour répondre à toutes vos questions sur notre régime de santé ou de médicaments. Pour obtenir les services d'un interprète, appelez-nous au **1-844-428-2224 (TTY: 711)**. Un interlocuteur francophone pourra vous aider. Ce service est gratuit.

**Vietnamese:** Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị về chương trình sức khỏe hoặc chương trình thuốc của chúng tôi. Để nhận thông dịch viên, chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số **1-844-428-2224 (TTY: 711)**. Một nhân viên nói tiếng Việt có thể giúp quý vị. Dịch vụ này được miễn phí.

**German:** Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Dolmetschservice, wenn Sie Fragen zu unseren Gesundheits- oder Medikamentenplänen haben. Wenn Sie einen Dolmetscher brauchen, rufen Sie uns unter folgender Telefonnummer an: **1-844-428-2224 (TTY: 711)**. Ein deutschsprachiger Mitarbeiter wird Ihnen behilflich sein. Dieser Service ist kostenlos.

**Korean:** 당사의 건강 또는 의약품 플랜과 관련해서 물어볼 수 있는 모든 질문에 답변하기 위한 무료 통역 서비스가 있습니다. 통역사가 필요한 경우, **1-844-428-2224(TTY: 711)**번으로 당사에 연락해 주십시오. 한국어를 구사하는 통역사가 도움을 드릴 수 있습니다. 통역 서비스는 무료로 제공됩니다.

**Russian:** Если у вас возникли какие-либо вопросы о нашем плане медицинского страхования или плане с покрытием лекарственных препаратов, вам доступны бесплатные услуги переводчика. Если вам нужен переводчик, просто позвоните нам по номеру **1-844-428-2224 (TTY: 711)**. Вам окажет помощь сотрудник, говорящий на русском языке. Данная услуга бесплатна.

**Arabic:** نوّفر خدمات ترجمة فورية مجانية للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول خطة الصحة أو الدواء الخاصة بنا. للحصول على مترجم فوري، ما عليك سوى الاتصال بنا على الرقم **1-844-428-2224 (TTY: 711)**. يمكن أن يساعدك شخص يتحدث العربية. وتتوفر هذه الخدمة بشكل مجاني.



**Hindi:** हमारे स्वास्थ्य या ड्रग प्लान के बारे में आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हम मुफ्त में दुभाषिया सेवाएं देते हैं। दुभाषिया सेवा पाने के लिए, बस हमें **1-844-428-2224 (TTY: 711)** पर कॉल करें। हिंदी बोलने वाला/वाली कोई सहायक आपकी मदद कर सकता/सकती है। यह एक निःशुल्क सेवा है।

**Italian:** Sono disponibili servizi di interpretariato gratuiti per rispondere a qualsiasi domanda possa avere in merito al nostro piano farmacologico o sanitario. Per usufruire di un interprete, è sufficiente contattare il **1-844-428-2224 (TTY: 711)**. Qualcuno la assisterà in lingua italiana. È un servizio gratuito.

**Portuguese:** Temos serviços de intérprete gratuitos para responder a quaisquer dúvidas que possa ter sobre o nosso plano de saúde ou medicação. Para obter um intérprete, contacte nos através do número **1-844-428-2224 (TTY: 711)**. Um falante de português poderá ajudá-lo. Este serviço é gratuito.

**French Creole:** Nou gen sèvis entèprèt gratis pou reponn nenpòt kesyon ou ka genyen sou plan sante oswa plan medikaman nou an. Pou jwenn yon entèprèt, annik rele nou nan **1-844-428-2224 (TTY: 711)**. Yon moun ki pale Kreyol Ayisyen ka ede w. Se yon sèvis ki gratis.

**Polish:** Oferujemy bezpłatną usługę tłumaczenia ustnego, która pomoże Państwu uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące naszego planu leczenia lub planu refundacji leków. Aby skorzystać z usługi tłumaczenia ustnego, wystarczy zadzwonić pod numer **1-844-428-2224 (TTY: 711)**. Zapewni to Państwu pomoc osoby mówiącej po polsku. Usługa ta jest bezpłatna.

**Japanese:** 弊社の健康や薬剤計画についてご質問がある場合は、無料の通訳サービスをご利用いただけます。通訳を利用するには、**1-844-428-2224 (TTY: 711)** にお電話ください。日本語の通訳担当者が対応します。これは無料のサービスです。

**Bengali:** আমাদের স্বাস্থ্য বা ড্রাগ বিষয়ক পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার সম্ভাব্য যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে বিনামূল্যে ইন্টারপ্রেটার পরিষেবা রয়েছে। একজন ইন্টারপ্রেটার পেতে, খালি আমাদের **1-844-428-2224 (TTY: 711)** নম্বরে কল করুন। বাংলা বলতে পারে এমন কেউ আপনাকে সাহায্য করতে পারে। এই পরিষেবাটির জন্য কোনও খরচ নেই।

**Nepali:** हाम्रा स्वास्थ्य वा औषधिसम्बन्धी प्लानहरूको सम्बन्धमा तपाईंसँग हुन सक्ने जुनसुकै प्रश्नको जवाफ दिन हामीसँग निःशुल्क दोभासे सेवाहरू छन्। कुनै दोभासेको सेवा प्राप्त गर्न तपाईंले **1-844-428-2224 (TTY: 711)** मा हामीलाई कल मात्र गरे पुग्छ। नेपाली भाषा बोल्ने कुनै व्यक्तिले तपाईंलाई मदत गर्नुहुने छ। यो एक निःशुल्क सेवा हो।

**Swahili:** Tuna huduma za mkalimani zisizolipiwa wa kujibu maswali yoyote ambayo unaweza kuwa nayo kuhusu mpango wetu wa afya au dawa. Ili kupata mkalimani, tupigie tu simu kupitia **1-844-428-2224 (TTY: 711)**. Mtu anayezungumza Kiswahili anaweza kukusaidia. Huduma hii ni ya bila malipo.

**Tamil:** எங்கள் உடல்நலம் அல்லது மருந்துத் திட்டம் பற்றி உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் பதிலளிப்பதற்காக இலவச மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவைகளை வழங்குகிறோம். ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளரை அணுக, **1-844-428-2224 (TTY: 711)** என்ற எண்ணில் எங்களை அழைக்கவும். தமிழ் பேசத் தெரிந்த ஒருவர் உங்களுக்கு உதவுவார். இது ஒரு இலவச சேவையாகும்.

**Multi-Language Insert**  
**Multi-language Interpreter Services**

**English:** We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at **1-800-247-1447 (TTY: 711)**. Someone who speaks English/Language can help you. This is a free service.

**Spanish:** Contamos con los servicios de interpretación gratuitos para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para solicitar un intérprete, llámenos al **1-800-247-1447 (TTY: 711)**. Alguien que hable español puede ayudarlo. Este es un servicio gratuito.

**Chinese (Mandarin):** 我们提供免费的口译服务，可解答您对我们的健康或药物计划的有关疑问。如需译员，请拨打 **1-800-247-1447 (TTY: 711)**。您将获得中文普通话口译员的帮助。这是一项免费服务。

**Chinese (Cantonese):** 我們提供免費的口譯服務，可解答您對我們的健康或藥物計劃可能有的任何疑問。如需口譯員服務，請致電 **1-800-247-1447 (TTY: 711)**。會說廣東話的人員可以幫助您。此為免費服務。

**Tagalog:** May mga libre kaming serbisyo ng interpreter para sagutin ang anumang posible ninyong tanong tungkol sa aming planong pangkalusugan o plano sa gamot. Para kumuha ng interpreter, tawagan lang kami sa **1-800-247-1447 (TTY: 711)**. May makakatulong sa inyo na nagsasalita ng Tagalog. Isa itong libreng serbisyo.

**French:** Nous mettons à votre disposition des services d'interprétation gratuits pour répondre à toutes vos questions sur notre régime de santé ou de médicaments. Pour obtenir les services d'un interprète, appelez-nous au **1-800-247-1447 (TTY: 711)**. Un interlocuteur francophone pourra vous aider. Ce service est gratuit.

**Vietnamese:** Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị về chương trình sức khỏe hoặc chương trình thuốc của chúng tôi. Để nhận thông dịch viên, chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số **1-800-247-1447 (TTY: 711)**. Một nhân viên nói tiếng Việt có thể giúp quý vị. Dịch vụ này được miễn phí.

**German:** Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Dolmetschservice, wenn Sie Fragen zu unseren Gesundheits- oder Medikamentenplänen haben. Wenn Sie einen Dolmetscher brauchen, rufen Sie uns unter folgender Telefonnummer an: **1-800-247-1447 (TTY: 711)**. Ein deutschsprachiger Mitarbeiter wird Ihnen behilflich sein. Dieser Service ist kostenlos.

**Korean:** 당사의 건강 또는 의약품 플랜과 관련해서 물어볼 수 있는 모든 질문에 답변하기 위한 무료 통역 서비스가 있습니다. 통역사가 필요한 경우, **1-800-247-1447(TTY: 711)**번으로 당사에 연락해 주십시오. 한국어를 구사하는 통역사가 도움을 드릴 수 있습니다. 통역 서비스는 무료로 제공됩니다.

**Russian:** Если у вас возникли какие-либо вопросы о нашем плане медицинского страхования или плане с покрытием лекарственных препаратов, вам доступны бесплатные услуги переводчика. Если вам нужен переводчик, просто позвоните нам по номеру **1-800-247-1447 (TTY: 711)**. Вам окажет помощь сотрудник, говорящий на русском языке. Данная услуга бесплатна.

**Arabic:** نوْفِر خدمات ترجمة فورية مجانية للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول خطة الصحة أو الدواء الخاصة بنا. للحصول على مترجم فوري، ما عليك سوى الاتصال بنا على الرقم **1-800-247-1447 (TTY: 711)**. يمكن أن يساعدك شخص يتحدث العربية. وتتوفر هذه الخدمة بشكل مجاني.

**Hindi:** हमारे स्वास्थ्य या ड्रग प्लान के बारे में आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हम मुफ्त में दुभाषिया सेवाएं देते हैं। दुभाषिया सेवा पाने के लिए, बस हमें 1-800-247-1447 (TTY: 711) पर कॉल करें। हिंदी बोलने वाला/वाली कोई सहायक आपकी मदद कर सकता/सकती है। यह एक नि:शुल्क सेवा है।

**Italian:** Sono disponibili servizi di interpretariato gratuiti per rispondere a qualsiasi domanda possa avere in merito al nostro piano farmacologico o sanitario. Per usufruire di un interprete, è sufficiente contattare il 1-800-247-1447 (TTY: 711). Qualcuno la assisterà in lingua italiana. È un servizio gratuito.

**Portuguese:** Temos serviços de intérprete gratuitos para responder a quaisquer dúvidas que possa ter sobre o nosso plano de saúde ou medicação. Para obter um intérprete, contacte nos através do número 1-800-247-1447 (TTY: 711). Um falante de português poderá ajudá-lo. Este serviço é gratuito.

**French Creole:** Nou gen sèvis entèprèt gratis pou reponn nenpòt kesyon ou ka genyen sou plan sante oswa plan medikaman nou an. Pou jwenn yon entèprèt, annik rele nou nan 1-800-247-1447 (TTY: 711). Yon moun ki pale Kreyòl Ayisyen ka ede w. Se yon sèvis ki gratis.

**Polish:** Oferujemy bezpłatną usługę tłumaczenia ustnego, która pomoże Państwu uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące naszego planu leczenia lub planu refundacji leków. Aby skorzystać z usługi tłumaczenia ustnego, wystarczy zadzwonić pod numer 1-800-247-1447 (TTY: 711). Zapewni to Państwu pomoc osoby mówiącej po polsku. Usługa ta jest bezpłatna.

**Japanese:** 弊社の健康や薬剤計画についてご質問がある場合は、無料の通訳サービスをご利用いただけます。通訳を利用するには、1-800-247-1447 (TTY: 711) にお電話ください。日本語の通訳担当者が対応します。これは無料のサービスです。

**Albanian:** Ne ofrojmë shërbime interpretimi pa pagesë për t'u përgjigjur për çdo pyetje që mund të keni lidhur me planin tonë shëndetësor ose të barnave. Për t'u lidhur me një interpret, na telefononi në numrin 1-800-247-1447 (TTY: 711). Një person që flet shqip mund t'ju ndihmojë. Ky shërbim është pa pagesë.

**Urdu:** ہمارے صحت یا منشیات کے منصوبے کے متعلق آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس مفت انٹرپرائٹر سروسز ہیں۔ انٹرپرائٹر حاصل کرنے کے لیے، بس ہمیں اس نمبر پر کال کریں 1-800-247-1447 (TTY: 711)۔ اردو زبان بولنے والا کوئی شخص آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ ایک مفت سروس ہے۔

**Benga:** Tina zéma za mbumba za mbósi zi kual a ebi búló ekoté ya anyi mbi ya mbúno ya wumbúlu o ya vóta. Ku kual a mbumba, betha ne ka naamba ya 1-800-247-1447 (TTY: 711). Muntu oozáni Benga onibisa. Iyi ni zéma ya mbósi.

**Greek:** Διαθέτουμε δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας για να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις μπορεί να έχετε σχετικά με το πλάνο ιατρικής ή φαρμακευτικής περίθαλψης. Για να επικοινωνήσετε με διερμηνέα, απλώς καλέστε μας στο 1-800-247-1447 (TTY: 711). Κάποιος που μιλάει ελληνικά μπορεί να σας βοηθήσει. Αυτή είναι μια δωρεάν υπηρεσία.

**Yiddish:** מ'יר האבן אומזיסטע איבערטייטשונג סערוויסעס צו ענטפערן סיי וועלכע פראגן איר קענט האבן וועגן אייער געזונט אדער מעדיצין פלאן. צו באקומען אן איבערטייטשער, דארפט איר אונדז בלויז רופן אויף 1-800-247-1447 (TTY: 711). איינער וואס רעדט יידיש קען אייך העלפן. די סערוויס איז אומזיסט.

**Bengali:** আমাদের স্বাস্থ্য বা ড্রাগ বিষয়ক পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার সম্ভাব্য যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে বিনামূল্যে ইন্টারপ্রেটার পরিষেবা রয়েছে। একজন ইন্টারপ্রেটার পেতে, খালি আমাদের 1-800-247-1447 (TTY: 711) নম্বরে কল করুন। বাংলা বলতে পারে এমন কেউ আপনাকে সাহায্য করতে পারে। এই পরিষেবাটির জন্য কোনও খরচ নেই।

## नस्ल, जातीयता और भाषा संबंधी जानकारी (REL)

Wellcare By Allwell आपकी नस्ल, जातीयता और भाषा (REL) संबंधी जानकारी को गोपनीय रखने का वादा करता है। हम निम्नलिखित तरीकों से आपकी जानकारी को सुरक्षित रखते हैं:

- कागज़ी दस्तावेजों को फाइल कैबिनेट में बंद करके रखना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी इलेक्ट्रॉनिक जानकारी भौतिक रूप से सुरक्षित मीडिया पर संग्रहित रहे।
- आपकी इलेक्ट्रॉनिक जानकारी को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित फाइलों में रखना।

हम अपना काम करने के लिए आपकी REL संबंधी जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसे साझा कर सकते हैं। इन कार्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी कमियों का पता लगाना।
- उपचार संबंधी कार्यक्रम बनाना।
- आउटरीच सामग्रियों को डिज़ाइन करना और उनका प्रबंधन करना।
- स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और डॉक्टरों को आपकी भाषा संबंधी जरूरतों के बारे में बताना।

हम कभी भी आपकी REL संबंधी जानकारी का इस्तेमाल किसी तरह के अनुमोदन, दर निर्धारण या लाभ संबंधी निर्णय के लिए नहीं करेंगे। हम आपकी REL संबंधी जानकारी अनधिकृत लोगों को नहीं देंगे।

If you need these services, contact Wellcare By Allwell at **1-844-796-6811** (TTY: **711**). Between October 1 and March 31, representatives are available seven days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Between April 1 and September 30, representatives are available Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

### English

Attention: If you speak English, language assistance services are available to you free of charge. Call **1-844-796-6811** (TTY: **711**).

### Español (Spanish)

Atención: Si habla español, hay servicios de asistencia lingüística disponibles sin costo para usted. Llame al **1-844-796-6811** (TTY: **711**).

### Lus Hmoob (Hmong)

Ua Tib Zoo Saib: Yog tias koj hais lus Hmoob, peb muaj cov kev pab cuam txhais lus uas koj tsis tas them nqi dab tsi. Hu rau **1-844-796-6811** (TTY: **711**).

### 普通话 (Mandarin Chinese)

请注意：如果您说普通话，我们可以为您提供免费语言支持服务。请致电 **1-844-796-6811** (TTY: **711**)。

### ພາສາລາວ (Laotian)

ຂໍ້ຄວນໃສ່ໃຈ: ຫາກວາທານເວົ້າພາສາລາວ, ພວກເຮົາມີການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາໃຫ້ທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ໂທຫາ **1-844-796-6811** (TTY: **711**).

### မြန်မာဘာသာ (Burmese)

သတိပြုရန်- သင်သည် မြန်မာစကားပြောဆိုပါက၊ ဘာသာစကားအကူအညီ ဝန်ဆောင်မှုများကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။ **1-844-796-6811** (TTY: **711**) သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

### Somali (Somali)

Fiiro gaar ah: Hadii aad ku hadasho Soomaali, adeegyada kaalmada luuqada ayaad heleysaa oo kuu bilaash ah. La hadal **1-844-796-6811** (TTY: **711**).

### Русский (Russian)

Внимание: если вы говорите на русском языке, вы можете бесплатно получить помощь переводчика. Позвоните по номеру **1-844-796-6811** (TTY: **711**).

### Hrvatski (Croatian)

Pažnja: ako govorite hrvatski, usluge jezične pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite **1-844-796-6811** (TTY: **711**).

### German (German)

Achtung: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos Sprachdienstleistungen zur Verfügung. Rufen Sie dazu folgende Nummer an: **1-844-796-6811** (TTY: **711**).

### العربية (Arabic)

انتباه: في حال كنت تتحدث اللغة العربية، تتوفر لك خدمات مساعدة لغوية مجانية. اتصل على الرقم **1-844-796-6811** (TTY: **711**).

### Tiếng Việt (Vietnamese)

Lưu ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho quý vị. Gọi số **1-844-796-6811** (TTY: **711**).

**한국어 (Korean)**

주의: 한국어를 구사할 경우, 언어 보조 서비스를 무료로 이용 가능합니다. **1-844-796-6811** (TTY: **711**)번으로 전화해 주십시오.

**Deitsch (Pennsylvania Dutch)**

Wichdich: Wann du Deitsch schwetzscht, kannscht du en Interpreter griege unni as es ennich eppes koschte zellt. Ruf **1-844-796-6811** (TTY: **711**) uff.

**Polski (Polish)**

Uwaga: Jeśli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer **1-844-796-6811** (TTY: **711**).

**हिंदी (Hindi)**

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं, तो भाषा सहायता सेवाएं आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं. **1-844-796-6811** (TTY: **711**) पर कॉल करें.

**Shqip (Albanian)**

Vëmendje: Nëse flisni shqip, shërbimet e asistencës gjuhësore ju vihen në dispozicion falas. Telefononi **1-844-796-6811** (TTY: **711**).

## **Arkansas**

Wellcare Dual Access Harmony (HMO-POS D-SNP)

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**wellcare.com/medicare**

Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP),

Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**wellcare.com/allwellAR**

## **Connecticut**

HMO-POS D-SNP

**1-866-892-8340 (TTY: 711)**

**wellcare.com/medicare**

## **Delaware**

HMO-POS D-SNP

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**wellcare.com/DE**

## **Georgia**

HMO-POS D-SNP

**1-866-892-8340 (TTY: 711)**

**wellcare.com/medicare**

## **Iowa**

HMO-POS D-SNP

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**wellcare.com/medicare**

## **Kansas**

HMO-POS D-SNP

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**wellcare.com/allwellKS**

## **Kentucky**

HMO-POS D-SNP

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**wellcare.com/medicare**

## **Maine**

PPO D-SNP

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**wellcare.com/medicare**

## **Mississippi**

HMO-POS D-SNP

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**wellcare.com/medicare**

## **North Carolina**

HMO-POS D-SNP, PPO D-SNP

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**wellcare.com/medicare**

## **New York**

Wellcare Dual Access (HMO D-SNP)

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/medicare](https://www.wellcare.com/medicare)**

Wellcare Fidelis Dual Plus (HMO D-SNP)

**1-800-247-1447 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/fidelisNY](https://www.wellcare.com/fidelisNY)**

## **Oklahoma**

PPO D-SNP

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/OK](https://www.wellcare.com/OK)**

## **Pennsylvania**

HMO D-SNP

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/allwellPA](https://www.wellcare.com/allwellPA)**

## **South Carolina**

HMO-POS D-SNP

**1-866-892-8340 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/medicare](https://www.wellcare.com/medicare)**

## **Texas**

Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP)

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/medicare](https://www.wellcare.com/medicare)**

Wellcare Dual Access (HMO D-SNP),

Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP)

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/allwellTX](https://www.wellcare.com/allwellTX)**

## **Washington**

HMO-POS D-SNP, PPO D-SNP

**1-833-444-9089 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/medicare](https://www.wellcare.com/medicare)**

## **Wisconsin**

HMO-POS D-SNP

**1-844-796-6811 (TTY: 711)**

**[wellcare.com/allwellWI](https://www.wellcare.com/allwellWI)**





## इस फार्मूलरी को 02/01/2025 को अपडेट किया गया था।

अधिक नवीनतम जानकारी या अन्य प्रश्नों के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें, Wellcare सदस्य सेवाएँ, इस फार्मूलरी के अंदर के मुख्य पेज और पीछे के कवर पर सूचीबद्ध आपके प्लान के लिए टेलीफ़ोन नंबर या वेबसाइट पर, 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच, प्रतिनिधि सप्ताह में सात दिन, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध हैं, 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच, प्रतिनिधि सोमवार-शुक्रवार, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध हैं।

02/01/2025

**Medicare**  
Prescription Drug Coverage **Rx**